

खतरका रोपनस गहि तुंगुल

टूडुस

बबलु तिर्की

संपादक

अंजनी कुमारी

सहसंपादक

मसातो कोबायाशि तेतरु उराँव

2017

मानस प्रकाशन बेन्दोरा

बेन्दोरा (चैनपुर, गुमला)

Khatrkā Ropnas gahi Tuṅgul (Poor Ropna's Dream)
by Bablu Tirkey

Editor: Anjani Kumari

Associate Editors: Masato Kobayashi and Tetru Oraon

© Bablu Tirkey 2015

Tirkey, Bablu, 1980–2015

Khatrkā Ropnas gahi Tuṅgul / Bablu Tirkey

iv + 173pp.

Bendorā (Chaipur, Gumla): Manas Prakashan Bendorā.

First edition 2017; Second edition 2020.

ISBN: 978-4-9906322-4-3

Fiction, Kurux language (Dravidian), India, Jharkhand

Publisher: **Manas Prakashan Bendorā**

S/o late Bablu Tirkey, Vill.+P.O. Bendorā, P.S. Chainpur, Dist. Gumla
Jharkhand 835206 INDIA

Correspondence Address:

Anjani Kumari, c/o Ramkishun Oraon, Vill.+P.O.+P.S. Sisai, Dist. Gumla,
Jharkhand 835324 INDIA

Price: Rs. 200/-

Printed in India by Jharkhand Jharokha

Shop No.– D.G. 03, New Building, New Market, Ratu Road, Ranchi
(Jharkhand). Pin. 834001.

Mob. 9973112040, 7979711886

E-mail: jh.jharokharnc@gmail.com

एँड कत्था

ओरमा आलर गहि उज्जना - बिज्जना नू तंग'आ अयंग कत्था गहि अकय महबा र'ई अरा तंग'आ अयंग कत्थन परद'आना हूँ अकय चाड र'ई। एंगा सन्नी परियन्तिम कुडुख खीरी अरा डण्डी गुट्ठी नू खरा मने ओक्का लगिया। अन्ति एकासे चें-डा परिया अंडसा हेल्लरा, खीरी अरा डण्डी गुट्ठिन टूडना गहि चिहुट हूँ चो'आ हेल्लरा।

नाम अख्खदत का एक'अम खोंडहा गहि उज्जना - बिज्जनन अख'आ गे आर गहि बक्कलुरियन अख्खना अकय चाड र'ई। ईय्यम कुडुखर गहि उरमी उज्जना - बिज्जना नूखुरकी र'ई। नम्हय कुडुख खोंडहा नू हूँ आलर गहि उज्जना - बिज्जना नू दुक्खे ससाईत बरते र'ई। ने-ने आ दुक्खेन कटूनर अरा तंग'आ उज्जनन दव कमनर, पहें ने-ने आ दुक्खेन कटू पोल्लनर अरा मझही डहरे नुम तंग'आ उज्जनन बुडा ब'अनरा। ई "खतरका रोपनस गहि तुंगुल" उपन्यास नू हूँ अन्नेम ए-रा गे ख़खर'ई। रोपनस गे अनईत दुक्खे बर'ई पहें तंग'आ नलखन नना गे मल अम्बदस।

ई पुथिन टूडा गे कयनो आलर गहि सहडा ख़क्खरा। ए-न उर्मी ती मुंद प्रो० इन्द्रजित उराँव सिन सौंसे जिया ती मोंजरा नन्दन। इदी संगे एंगगन Ph.D. डहरेन थिथाब'उस डॉ० गिरीधारी राम "गौँझू", जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची, डॉ० मासातो कोबायासी, भाषाशास्त्री, टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान, संगे डॉ० नारायण भगत अरा डॉ० हरि उराँव सिन हूँ सौंसे जिया ती मोंजरा नन्दन। ईर गहि चिढ़का लूर अकिल तिम ई सन्नी पुथी "खतरका रोपनस गहि तुंगुल" खोंडहा मझही उइय्या लगदन।

ई पुथिन बच'उर दव कत्थन तनी बुडा हूँ खुखडओर होले लग्गो का एंगा पुथी गहि ख़ंज्जपा ख़क्खरा केरा। मुंजा नू और ओंगहोन बचऊरिन

ساؤںے جیا تی دھین ب'ادن।

ਟੂਡੁਸ
ਬਬਲੁ ਤਿਕੀ

ẽr bakk

ẽn urmin tī mūnddh 2003 bacchar nū bablu tirkis gane bhẽt nañjkan. ā bīrī ās punā-punā Tribal and Regional Languages, PG Department nū bac'ā lagyas. baggē mal kachnakhr'ā lagyas, annuhñ ās hī xannad lawkār'ā lagyā.

2004 tī nām sañggē-sañggē maltō bhaxā nū nalakh ūrē nañjkat. ara maj'hī-maj'hī nū ās eñggan kurux bhaxan thithābācas, ara ẽn kachnakhr'ā hū kermē-kermē ūrē nañjkan. ās eñggan kuřux khořhā tā urmī nēg cālan tiñggyas ara ēdas ciccas. ās urmī bīrī embā-embā kachnakhr'ā lagyas, ara ormar hī jiyā nū korckā rahcas.

ās gahi ambkā xōxā ẽn akkan ās gahi tūrkā upanyās ara katthđañđī rař. ā upanyās ara katthđañđī nū sukkhē dukkhē lolā conhā urmī dim tūrkā rař. ās gahi upanyās ara katthđañđī tī ennē laggī ka ujjnā gūtī ās namhay jiyā nū ujjos.

abran bac'ar daw katthan khukhr'ar khořhā maj'hī daw nalakh nanā nek'an.

Masato Kobayashi
Professor in Linguistics
University of Tokyo, Japan

दव बाख़ना

बबलु तिर्की गने एंगहय भेंट २००६ अबड़स ती मंज्जा। आसिम एंगन बेद्दना-खोजना पईत नू जोक्कथिथा बाचका रहचस। आ करनेम आस ती केरमे-केरमे ओक्कना इजना बग्गे मना हेल्लरा। आस उर्मी बीरी तनी बुड़ा मलदव गे हूँ थिथा ब'आ लगियस। नेखय गने हूँ कोंहा मल कच्छनखरआ लगियस।

आलर गहि उज्जना - विज्जना नू लोला-चोन्हा संगे सुक्खेन दुक्खेन हूँ ए-रा गे हक्खर'ई। पहें जोक्ख आलर आ दुक्खेन अलखते कट्टनर अरा तंग'आ उज्जन्नन दव कमनर अरा जोक्क आलर दुक्खेन कट्टा पोल्लनर आर किय्या खतरनरा।

मानिम इबड़ा हुरमी ईस गहि पुथि “खतरका रोपनस गहि तुंगुल” नू ए-रा गे हक्खर'ई। आस गहि पुथि ती लग्गी, बबलु तिर्कीस नम्हय खोंडहा ता भखा अरा बक्कलूरिया पईत नू अनाइत गड्डी गूटि अख'आ लगियस। एंगन लग्गी का आस “ओन्टा एकला बाँस ता बैराखी” बेसे नम्हय खोंडहा ता “लकड़ा” रहचस। मानिम ई पुथि ती खोंडहा गे दव लूर ख़खर'ओ अरा खोंडहा उसगो-परदो।

ए-न धर्मे ती ओहरा नन्दन का आस गहि जियन दव ले सान्ति चि'आ नेक'अन।

तेतरु उराँव
पुगु बड़का टोली
गुमला

उपन्यास

खतरका रोपनस गहि तुंगुल

Khatrkā Ropnas gahi Tuṅgul (Poor Ropna's Dream)

A Novel

खतरका रोपनस गहि तुंगुल

१ रोपना गर ही एङ्घपन ए-रोय होले गा लग्गी का अदिन एवंदा उल्ला ती मल बईका र'अदस होत'अन। बईओस एकासे मेसगा मईया अरिगकय होले गा मेसगा दिम खतर'ओ कालो बेसे लग्गी। एका ओरतर अरगोर आर गहि मेसगा नू ! ओण्टा हूँ को-रोद का बत्ता दव मल्ला, उरमी गा खुस्सका एकला। अरिगकय होले मेसगा रोप'ओ मनो दिम कालो। ढिबा रहचका होले जुन ने-ख'ऐम गुस्तेक बाँस खँ-दर दरा बत्ता छोल'ओस पहें। बत्ता गा एक'अम बेसे जोगाड़ मनो कालो बाँसद मल ख्रखर'ओ होले खाँखोड़ हूँ गा र'ई। आद हूँ गा बड़ियर मनी दिम। परता नू ख्रस्सा एं-प ख्रखर'ई दिम। एं-पन पोरखाचका खो-खा हैं-च - हैं-च बइयाँ गे बन'ओ दिम कालो। पहें को-रो? ने- चि'ओ आस गे। एसतेक ओन्दर'ओस परता कालोस होले गा गाँटर आस गहि टोंग'एन बच्चोर अरा ढिबा हूँ ने'ओर। एसतेक जोगाड़ी ननोस।

पद्धा ता मुक्कर गहि जहड़िन ए-रा नी एक'अम मे-तर तोम्बन खंडिडयर होले गा अउलम महले नन्ना उल्ला गा पद्धा नू अरबा नखरनम हिके। जोकक - जोकक पद्धियारिन गा अम्बा आना खंन्दर - माखा बारी तोम्बन खण्डा कालोर अरा असानुकुम बकलन छोलचका खो-खा अदिन पोखरा नू कित्त'आ खतरी सज'आ चि'आ लगियर। रोपनस गे लूर रहचका होले जुन आस अन्ने ननोस पहें। मुक्कर गहि केबनन सह'आ पोलना ती आस एङ्घपा तंग्हय नू पुना को-रो का कांड़ नन लद'आ पोल्ला लगियस। एङ्घपा चोल्ला तरा ओण्टा कठड़ मन्न गा र'ई जुन, ढिबा र'ओ होले जुन अदिन खंड्डर दरा पलकत'ओस पहें। मन्न गा नगदिम बंच्चकी र'ई। पहें कठड़ गा खंज'आ गा खंज'ई पहें एन्देर ब'ओय सन्नी नुम हुरमी निदगी काली। गोड़ - नाख पंचे गोटंग गा बछर'ई पहें पंजकन ने- मो-खोर। परदी गा कोहाँ - कोहाँ, पहें लोन्दद हूँ कोहाँ - कोहाँ, कठड़ नू पंचे - सय ठू एकला। कठड़ गहि लोन्दन गा अम्बा आना ठुंगड़ा बेसे कोहाँ मनी।

khatrkā ropnas gahi tuṅgul

1. ropnā gar hī eṛpan ēroy holē ga laggī ka adin ewndā ullā tī mal baikā ra'das hot'an. baẏos ekāse mesgā maẏā arigkay holē ga mesgā dim khatrō kälō bese laggī. ekā ortar argor ār gahi mesgā nū oṇṭā hū kōrod ka battā daw mallā, urmī ga xusskā eklā. arigkay holē mesgā rop'ō manō dim kälō. ḫhibā rahackā holē jun nēkh'aim gustek bās xēdar darā battā chol'os pahē. battā ga eka'am bese jogāṛ manō kälō bāsad mal xakhrō holē xōxor hū ga ra'ī. ād hū ga baṛiyar manī dim. partā nū xassā ēp xakhrī dim. ēpan porxāckā xōxā hēc-hēc baiyā ge ban'ō dim kälō. pahē kōrō? nē ci'ō ās ge. estek ondr'os partā kālos holē ga gātar ās gahi ṭoṅg'en baccor arā ḫhibā hū ne'or. estek jogāṛī nanos.

paddā tā mukkar gahi jāhaṛin ērā nī ek'am mētar tomban khaṇḍdiyar holē ga aulam mahlē nannā ullā ga paddā nū arbā nakhrnam hike. jokk-jokk paddiyārin ga ambā ānā xandar māxā bārī tomban khaṇḍdā kālor arā asanukum baklan cholckā xōxā adin pokhrā nū kitt'ā khatrī saj'ā ci'ā lagiyar. ropnas ge lūr rahackā holē jun ās annē nanos pahē. mukkar gahi kebnan sah'ā polnā tī ās eṛpā taṅg'hay nū punā korō ka kāṛ nan lad'ā pollā lagiyas. eṛpā collā tarā oṇṭā kaṭhaṛ mann ga ra'ī jun, ḫhibā ra'ō holē jun adin khaṇḍdar darā palkt'os pahē. mann ga nagdim bañcckī ra'ī. pahē kaṭhaṛ ga xañj'ā ga xañj'ī pahē ender ba'oy sannī num humrī nidgī kālī. gor-nāx pañcē goṭaṅg ga bachrī pahē pañkan nē mōxor. pardī ga kohā-kohā pahē londad hū kohā-kohā kaṭhaṛ nū pañcē-say ṭhū eklā. kaṭhaṛ gahi londan ga ambā ānā ṭhuṅgrā bese kohā manī.

ਬਿੜਾ ਛਿਟਨਾ ਲਹਰਾ ਨੂ ਗਾ ਚੋ-ਪਦ ਦਿਕਿਮ ਮਲ ਪੋਸ਼ਾ। ਮੋਖਾਰੋ
ਬਦਾਲਿਨ ਏ-ਰੋਧ ਹੋਲੇ ਏਨ੍ਹੇ ਲਗਾ ਲਗਿਆ ਕਾ ਅਨਭਨਿਧਾਂ ਚੋ-ਪਦ
ਬਰ'ਓ। ਬਦਾਲੀ ਗਹਿ ਮੁਰੰਨ ਗਾ ਅਮਿਆ ਆਨਾ ਖੇਖੇਲ ਦਿਲਕਾਰਨਾ ਬੇਸੇ
ਲਗਾ ਖੱਚਵਾ ਲਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਲਵਕ'ਆ ਤਪਡੇਮ ਮੁਰਾ ਲਗਿਆ।

ਬਾਪ ਰੇ ਇਦਨਾ ਤਾ ਓਡੱਸਗੋ ਗਹਿ ਚੋ'ਓਨਾ। ਗੋਟ੍ਟਾ ਪਤੜਾ ਤਾ
ਤੋਮਿਆ ਖੋਪਾ ਕਿਥਾ ਗਾ ਸੁਕਕਰ ਗਹਿ ਨਿੰਦਕਾ। ਏਕਾ ਖੋਪਨ ਏ-ਰੋਧ
ਆ ਖੋਪਾ ਹੇਫੇਮ ਹੁਡ਼ ਹੁਡ਼ ਥਿਈ ਨੰਜਕਾ। ਏਵਂਦਾ ਓਡੱਸਗੋ ਹੁੱ
ਖਖਰ'ਓ। ਉਮੀ ਅਡ੍ਡਾ ਇਰਚਾ ਇਰਚਾ ਥਿਈ।

ਪਦਾ ਭਈਰ ਨੂ ਲਾਗੀ ਰੋਪਨਾ ਗਰ ਓਰਮਰ ਤੀ ਸੂਨਥ ਨੇਵਾਈਨ ਸਨਚਰ।
ਨਾਖੁ-ਪਂਚੇ ਉਲਲਾ ਸੂਨਥ ਦਿਸ ਗਾ ਆਰ ਗੁਧਾ ਝਾਰਾ ਓਨਾ ਲਗਿਧਾਰ। ਅਰਖੀ
ਗਾ ਏਡ਼ਪਾ ਤਾ ਕਮਚਕਾ ਦਿਸ ਰਹਚਾ ਕਿਕਾ। ਝਾਰਾ ਤੀ ਏਕਲਾ ਗਾ ਏਨ੍ਹੇ
ਮਲ ਉਖੋਰ ਪਹੋਂ ਖੇ-ਲ-ਡਮ਼ਭੁਵਾ ਹੁੱ ਗਾ ਖੁਰਖਾ ਲਗਿਆ। ਖੂੜੀ ਏਡ਼ਪਾ ਤਾ
ਯੋਕਕ ਆਲਾਰਿਨ ਹੁੱ ਗਾ ਮੈਂ-ਖਨਾ ਮਨੀ ਦਿਸ। ਓ-ਨਦ ਲਫ ਬੇਸੇ ਗਾ
ਪੈਤਕਮ ਰਹਚਰ, ਨੇਵਾਈਨ ਸਨ'ਆ ਖਤਰੀ ਓਣਟਾ ਕੋਕਰੋਨ ਹੁੱ ਗਾ ਪਿਟਕਾ
ਰਹਚਰ, ਅਨ੍ਨਮ ਜੁਨ ਓਡੱਸਗੋਨ ਮੇਸਾ ਨਨਰ ਦਰਾ ਇਰਿਤਕਾ ਰਹਚਰ।

ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਤਾ ਆਂਣਡਕਾ ਗਹਿ ਦਵ ਮਲ ਲਗਾ ਲਗਿਆ ਕਾ ਏਕਾਸੇ,
ਨਨਾ ਉਲਲਾ ਗਾ ਰੋਪਨਸ ਏਨਦੇਰ ਗੇ ਦਰਾ ਏਨ੍ਹੇ ਚੀਂਖੁ - ਚੀਂਖੁ ਮਨਾ
ਲਗਿਧਸ। ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਤਾ ਆਂਣਡਕਾ ਗਹਿ ਦਵ ਮਲ ਲਗਨਾ ਹੋਲੇ ਗਾ
ਬੋਥਨ ਓਨੋਸ ਦਿਸ ਪਹੋਂ। ਆਂਗਹੋਨ ਏਕਲਾ ਗਾ ਉਨੁਮ ਖੇ-ਤਾ ਬੇਸੇ
ਓਣਡਕਮ ਰਹਚਰ, ਅਦਿ ਗਹਿ ਖੋ-ਖਾ ਗਾ ਅਰਖੀ ਨੁਕੁਮ ਓਨਾ ਗੇ ਓ-ਰੇ
ਨੰਜ਼ਰ। ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਤਾ ਝਾਰਾ ਦਿਸ ਗਾ ਸੁਨੋ ਝਾਰਾ ਲੇਖਾ ਏਮਿਆ ਰਹਚਾ।
ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਤਾ ਮਾਸੀ ਪ੍ਰੂਖਕਾ ਚਖਨਦ ਹੁੱ ਗਾ ਬਛਰਕੀ ਰਹਚਾ। ਉਂਕਖਕਾ
ਚੜ੍ਹੇ ਗਾ ਮਣਡੀਦ ਹੁੱ ਮਲ ਮੁੱਜ਼ਰਾ। ਏ-ਡ - ਮੁੱਦ ਸੋਡਾ ਮਣਡੀ ਉਨੁਰ
ਉਨੁਮ ਸੋਡਾ ਨੁਮ ਗਾ ਉਡਚਰ। ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਗਾ ਮਾਨਿਸ ਦਵ ਲੇ ਸਾਂਗੇ
ਸਾਂਗੇ ਨਲਿਧਸ ਤੋ-ਕਿਧਸ। ਬਿਜਿਮਤ'ਆ ਡਾਣਿਡਨ ਹੁੱ ਪਾਡਿਧਸ। ਇਨ੍ਹਾ
ਏਨਦਰਾ ਮੰਜ਼ਾ ਦਰਾ ਪੰਝਿਰਿਮ - ਪੰਝਿਰਿਮ ਰੋਪਨਸ ਗਹਿ ਜਿਧਾ ਕਧਾ ਏਂਦੇਰ ਗੇ
ਏਨ੍ਹੇ ਇਤਿਕਾ ਲਗਾ ਲਗੀ।

birā chiṭnā lahrā nū ga cēpad dikim mal possā. moxārō badālin ēroy holē ennē laggā lagiyā ka anbhaniyā cēpad bar'ō. badālī gahi murrnan ga ambā ānā xēzel dilkārnā bese laggā xaccā lagiyā. bijlī lawk'ā taprem murrā lagiyā.

bāp rē, idnā tā orsgō gahi co'nā. goṭṭā patrā tā tombā xoppā kiyyā ga mukkar gahi ninddkā. ekā xoppan ēroy ā xoppā heddem huḍḍ-huḍḍ thaiyā nañjjkā. ewndā orsgō hū xakhr'ō. urmī aḍḍā ircā-ircā thaiyā.

paddā bhair nū laggī ropnā gar ormar tī mūndh newāin mancar. nāx-pañcē ullā mūndh dim ga ār guyā jharā onā lagiyār. arkhī ga erpā tā kamckā dim rahcā kikā. jharā tī eklā ga ennē mal ūñkhor pahē xēl-ḍambuwā hū ga xarxā lagiyā. khūñī erpā tā jokk ālarin hū ga mēxnā manī dim. ḍond laph bese ga pettkam rahcar, newāin man'ā khatrī oñtā kokron hū ga piṭkā rahcar, annum jun orsgon mesā nanar darā iritkā rahcar.

māxā bīrī tā oñḍkā gahi daw mal laggā lagiyā ka ekāse, nannā ullā ga ropnas ender ge darā ennē cīx-cīx manā lagiyas. māxā bīrī tā oñḍkā gahi daw mal laggnā holē ga bothan onos dim pahē. ong'hon eklā ga ūnum xētā bese oñḍkam rahcar, adi gahi xōxā ga arkhī nukum onā ge ḍorē nañjjar. māxā bīrī tā jharā dim ga munō jharā lekhā embā rahcā. māxā bīrī tā māsī pūxkā cakhnad hū ga bachrkī rahcā. uñkkhkā caḍḍē ga maṇḍid hū mal muñjjrā. ēṛ mūd sōṛā maṇḍī unur unum sōṛā num ga uçcar. māxā bīrī ga mānim dawle sañggē-sañggē naliyas tōkiyas. bijimat'ā ḍaṇḍin hū pāriyas. innā endrā mañjjā darā pairim-pairim ropnas gahi jiyā kayā ender ge ennē ittikā laggā lagī.

‘‘एन्देर अख’ओय एन्देरगे एन्ने बिपाइत ई चान नू एंगा बर’आ लगी। इदना खे-रन पो-स’ओन बाचकन खने गा चियोमन गा उरमिन खाख्हा पेत्ता दरा होच्चा केरा। इतिंगाली मला मुनाईन नू गा खे-रद पद्धा भईर नू एम्हय एकला गा रहचा, पहें इतिंगाली नाख्ह ठू कोहाँ - कोहाँ कोकरो कसरी, मला, मोख्हारो अरा खें-सो, एवंदा दव लग्गा लगिया। चाली नू अबड़ा गे कोदय का तीखिल नन चिच्चक्य होले गा अम्बा आना एवंदा दव नला - नला ठोठ’आ मो-ख्हा लगिया। बिज्जिया होले गा अम्बा आना गोट्टा पद्धन औंजाईर नना चि’आ लगिया, पहें एन्देर मंज्जा दरा उन्दुल नुम उर्मी खे-र एरख्हरा दरा केच्चा केरा। इदना गा पद्धा नू खे-र चीख्हना हूँ मेन्दर’ओ का मला। ओण्टा दू ठू एङ्पा नू गा खे-र र’ई जुन पहें परदा दिम अरगी, चींखो एसन! नीकि’इम पाही बरचर होले गा बिदिका ती हूँ मल खेखर’ओ।’’

ओङ्सगो गहि नेवाईन मन’ओ बीरी गा आस नन्ना पद्धा ती खे-र बेद्दर दरा ओन्दरका रहचस। अन्ने गा मासी दाली संगे हूँ गा बन’ओ पहें नेवाईन मन’आ गे, पहें एन्देर ननोस का बछर नू औंगहोन एकला गा चु’ई, अवंगे आस खे-र अहड़ा गने नेवाईन मनचस। पद्धियर गा ओना मो-ख्हा गे पूरऊ मधहेर हूँ मासी दाली ती एकला नेवाईन मन्नर। एङ्पा नू खे-र र’ओ होले गा कोडे दिम महले आ दाली नुम गोड़ - नाख्ह ठू ओङ्सगोन मेसा नंज्जर होले मंज्जा।

इबड़ा नुकुम घोख’आ - घोख’आ तान - तान एन्ने रोपनस पूरुर बेसे बर्बरका कुद्दा लगियस का एकासे। एन्देर ननोस आस गहि गा मेद्दोद हूँ नलख मल नना लगी। मेसगा ता खंज्जका कोंहड़द हूँ गा तानिम - तानिम कित्ता लगी। ओण्टा दू - ठुर कोंहड़ा गा नगद र’ई, पहें इदिन अमख्ही मो-खोस का बिहनी गे र’आ चि’ओस। बिहनी गे गा जोकक गोटन उइका ती हूँ बन’ओ। पहें ने- अख’आ लगी का भितरे कित्तकी र’ई का एन्देर। अरे गोटा गा मालिम कित्तकी र’ई होत’अन। ई कोंहड़न पलिकका खो-ख्हा इदिन गा जोकक खूड़ी एङ्पा ता आलर गे खट्टनम मनो। गल्लेन ओण्टा खेक्खा ती कप्पर दरा घोख’आ लगियस।

“ender ax'oy, enderge ennē bipāit ī cān nū eñggā bar'ā lagī? idnā xēran pōs'on bāckan khanē ga ciyoman ga urmin xāxā pettā darā hoccā kerā. itiñgālī malā munāin nū ga xērad paddā bhāir nū emhay eklā ga rahcā, pahē itiñgālī nāx ḥū kohā-kohā kokrō kasrī, malā, moxārō arā xēsō, ewndā daw laggā lagiyā. cālī nū abṛā ge koday ka tīxil nan cicckay, holē ga ambā ānā ewndā daw nalā-nalā thoṭhā mōxā lagiyā. bijjiyā holē ga ambā ānā goṭṭā paddan aūjāir nanā ci'a lagiyā, pahē ender mañjjā darā undul num urmī xēr erxrā darā keccā kerā. idnā ga paddā nū xēr cīxnā hū mendr'ō ka malā. oñṭā dū ḥū eṛpā nū ga xēr ra'ī jun pahē pardā dim argī, cīxō esan! nīk'im pāhī barcar holē ga biddikā tī hū mal xakhr'ō.”

oṛsgō gahi newāin man'ō bīrī ga ās nannā paddā tī xēr beddar darā ondrkā rahcas. annē ga māsī dālī sañggē hū ga ban'ō pahē newāin man'ā ge, pahē ender nanos ka bachar nū oñg'hon eklā ga cu'ī, awñge ās xēr ahṛā gane newāin mancas. paddiyar ga onā mōxā ge pūr'ū madhher hū māsī dālī tī eklā newāin mannar. eṛpā nū xēr ra'ō holē ga koṛē dim mahlē ā dālī num gor-nāx ḥū oṛsgon mesā nañjjar holē mañjjā.

iþrā nukum ghokh'ā-ghokh'ā tān-tān ennem ropnas pūrur bese barrbarrkā kuddā lagiyas ka ekāse. ender nanos ās gahi ga meddod hū nalakh mal nanā lagī. mesgā tā xañjjkā kōhṛad hū ga tānim-tānim kittā lagī. oñṭā dū-þur kōhṛā ga nagad ra'ī, pahē idin amxī mōxos ka bihnī ge ra'ā ci'os. bihnī ge ga jokk gotan uikā tī hū ban'ō. pahē nē ax'ā lagī ka bhitrē kittkī ra'ī ka ender. arē gotā ga mālim kittkī ra'ī hot'an. ī kōhṛan palikkā xōxā idin ga jokk xūrī eṛpā tā ālar ge xat̄nam manō. gallen oñṭā xekkhā tī kappar darā ghokh'ā lagiyas.

“आलर गहि नंजईर नन एन्देर ब’ओय, मेसगा मईया मल ईरका बेगर गा आर गहि उल्ला दिम मल कालो। एका मधहे आलर दरा कोंहडन हूँ ए-रा मल सहनर। आलर गहि नंजईर मल लग्गा गे मेसगा नूँ एन्दरन लद’ओन, आलर गहि खन्न गा आ कोंहडा नुम लककी र’ई। अरे जे मन्ना र’ई मनो जुन!”

एन्ने धोख’आ लगियस बोलवा तम्बस, रोपनस। एन्देरगे का ई लहरा नुम बोलवा तंडिगयो गहि नोकसान मंज्जकी रहचा। ई लहरा नूँ गा इतिंगली खेस्सद हूँ बग्गे मल मंज्जकी रहचा। इबडा हुरमिन एडपा ता अकलक नन बोलवा तम्बस धोख’आ लगियस।

“ālar gahi nañjāir nan ender ba'oy, mesgā mañyā mal īrkā begar ga ār gahi ullā dim mal kālō. ekā madhhē ālar darā kōhṛan hū̄ ērā mal sahnar. ālar gahi nañjāir mal laggā ge mesgā nū̄ endran lad'on, ālar gahi xann ga ā kōhṛā num lakkī ra'ī. arē jē mannā ra'ī manō jun.”

ennē ghokh'ā lagiyas bolwā tambas, ropnas. ender ge ka ī lahrā num bolwā tañgiyō gahi noksān mañjjkī rahcā. ī lahrā nū̄ ga itiñgālī xessad hū̄ baggē mal mañjkī rahcā. ibrā hurmin erpā tā aklak nan bolwā tambas ghokh'ā lagiyas.

२ इदा बोलवा गरही ओय गा ओण्टा गोला बच्छरुन धनुवाचा
रोपनस गा ए-रा दिम मल ए-रा लगदस। एन्दरा मला एन्दरन
घोख'आ लगदस। बाप रे बच्छरु, धनुवाचका खो-ख्वम ए घडी हूँ
मल मंज्जा इज'आ गेम ओ-रे नंज्जा चिच्चा, इदा एरा नी एधडी
खो-ख्वम ए-का गे हूँ! थथम - थुथुम मनी दरा खतर'ई काली।
रोपनस गहि जिया - कयन ए-रा नी एन्ने ओंगहोनुम एङ्पा ता
अकलक नन गा मो-धरस दिम केरस रिझर'आ हेल्लरस। आस गा
अख'आ लगदस ई ओय गा ए-रा गे जुन नटरा बेसे लग्गी पहें दुदही
गा डबल चिई दिम। ई पाली हूँ आद डबल दुदही चिओ दिम।

दुदहिन बीनर दरा दू ठू कसा थरिया नू खिरसा कमचस।
इदना ता खिरसन गा अम्बा आना एन्ने गा एका खने हूँ मल बनचकी
रहचा।

'बाप रे ई पाली ता खिरसा गा अनईत दव बनचकी र'ई।
सन्नी-सन्नी ओरमर गुया अंडसत'आदन चिइदन, मल विच्चर गा मल
ब'ओर।'

एङ्पा अबडा ती गा खुडती माख्वम खिरसन खटियस
चिच्चस। ने-खय - ने-खय एङ्पा नू गा ओडसगो गहि नेवाईन मना
ब'आ लगियर, आसिन ओक्का गे बाच ईरियर पहें ने-खय गुया हूँ
मल उकियस। ओन खे-ता केम झारन ओण्ड लिंधि'आ बाच ईरियर,
ने-खय गुया हूँ मल उकियस न झारन ओण्डस। रोपनस खिरसन
गा खटियस चिच्चस पहें तनी बुडा एङ्पा ती उरखस का मला
झरा उनुर आस गहि पत्त नू कच्छनखर'आ लगियर

"मुक्का मलका मे-तस एन्द्रेर ननोस का, आलर गहि पाँती नू
ओक्कोस! काला चिआ एङ्पा तम्हय नुम आस गे रासी र'ई!"

रोपनस इबडा कत्थन बहरी तिम जोक्क बेडा सरख'आ
लगियस।

"अरे ब'ऊ आलारिन ब'आ चिआ। आलर गे एवंदअम ननोय
आर ने-कन हूँ दव मालिम ब'अनर। खतरकी र'अदी जिया खतरका
बेसेम र'अय। अरे मल चिच्चस गा मल ब'ओर।"

2 idā bolwā gar hī ōy ga oṇṭā golā bacchrun dhanuwācā ropnas ga ērā dim mal ērā lagdas. endrā malā endran ghokh'ā lagdas. bāp rē bacchrū, dhanuwāckā xōxam ē ghaṛī hū mal mañjā ij'ā gem ōrē nañjā ciccā, idā erā nī ē ghaṛī xōxam ēkā ge hū! thatham-thuthum manī darā khatrī kālī. ropnas gahi jiyā-kayan ērā nī ennē oṅg'honum erpā tā aklak nan ga mōdhras dim keras rijhrā hellras. ās ga ax'ā lagdas ī ōy ga ērā ge jun naṭrā bese laggī pahē dud'hī ga ḋabal ci'ī dim. ī pālī hū ād ḋabal dud'hī ci'ō dim.

dud'hin bīnar darā dū ṭhū kasā thariyā nū khirsā kamcas. idnā tā khirsan ga ambā ānā ennē ga ekā khanē hū mal banckī rahcā.

“bāp rē ī pālī tā khirsā ga anāit daw banckī ra'ī. sannī-sannī ormar guyā āṛst'ādan ci'dan, mal ciccar ga mal ba'or.”

erpā abrātī ga xuṛtī māxam khirsan xat̄tiyas ciccas. nēkhay-nēkhay erpā nū ga oṛsgō gahi newāin manā ba'ā lagiyar, āsin okkā ge bāc īriyar pahē nēkhay guyā hū mal ukkiyas. ḏon xētā kem jharan oṇḍ liṅghi'ā bāc īriyar, nēkhay guyā hū mal ukkiyas na jharan oṇḍas. ropnas khirsan ga xat̄tiyas ciccas pahē tanī burā erpā tī urkhas ka malā jharā unur ās gahi patt nū kacchnakhrā lagiyar—

“mukkā malkā mētas ender nanos kā, ālar gahi pātī nū okkos! kālā ci'ā erpā tamhay num ās ge rāsī ra'ī.”

ropnas ibrā katthan bahrī tim jokk berā sarkh'ā lagiyas.

“arē ba'ū ālarin ba'ā ci'ā. ālar ge ewnda'am nanoy ār nēkan hū daw mālim ba'nar. khatrkī ra'dī jiyā khatrkā besem ra'ay. arē mal ciccas ga mal ba'or.”

एवंदा बेड़ा गूटी आर गहि कत्थन ओरखओस, अक्कू अस्तेक आस एड़पा किर्यस केरस। एड़पा अंडसना ती मून्ध ओ-न्द गुसन गा गड्डी रहचा अवंगे माखा बीरी आस तुरतुरिया चका गही टयर ब'अनर किका अदिन दग'अर दरा बिल्ली ननते काला लगियस। नीकि'इम हूँ आ बिल्लिन ए-रोर होले गा नाद बिल्ली दिम ब'ओर पहें। ओरमर गा अख'आ लगियर रोपनस दिम खुड़ती माखा बीरी एस'आनुम कालो बीरी का किर्रो बीरी एन्ने नना लगियस। नन'अम बिल्ली ए-थर'आ लगिया।

नना उल्ला लण्डी लोहाड़ी बीरी उसरार'अर दरा खूड़ियर गे काला - काला, सन्नी - सन्नी ख़ट्टियस चिच्चस।

एन्ने गा असमन हूँ ओरमर गे ख़ट्टा लगियस एका बीरी बोलवा तंडिगयो उज्जा लगिया। आद गा एन्दर'अम असमा मेक्खो खूड़ी एड़पा तार गे मल चिच्चका बिगर तान मल मो-खा लगिया। नना इडिपयर हूँ गा अन्नेम नना लगियर। ओरमर ख़ट्टर लिंधि'आ मो-खा लगियर। परब गहि उल्ला नू गा नन्नर गहि चिच्चका असमा नुम गा मो-खा पोल्ला लगियर। एड़पा ता असमन गा एन्देर ब'ओय। छिरका असमन गा ओरमर ओन्दर'आ चि'आ लगियर। मगहा इसुंग ती असमा बारा लगियर। बरिका असमन हूँ एवंदा मो-खोर बग्गे मोक्का ती हूँ गा एरखत'आ लगिया। अन्नू हूँ बारिका असमा मल र'ओ होले गा परब - परब हूँ मल लग्गा लगिया। असमन गा अम्बा, ख़े-र अहङ्क गा इरितयर होले नना खूड़ी एड़पा तार गे ओन ख़े-ता गा चि'इनम रहचा। खूड़ी एड़पा तार हूँ अन्नेम नना लगियर।

ewndā berā gūtī ār gahi katthan orkh'os, akkū astek ās erpā kirryas keras. erpā āṛsnā tī mūndh ḥond gusan ga gaḍḍī rahcā awṅge māxā bīrī ās turturiyā cakā gahī ṭayar ba'nar kikā adin dag'ar darā billī nante kālā lagiyas. nīk'im hū ā billin ēror holē ga nād billī dim ba'or pahē. ormar ga ax'ā lagiyar ropnas dim xuṛtī māxā bīrī es'ānum kālō bīrī ka kirrō bīrī ennē nanā lagiyas. nana'am billī ēthr'ā lagiyā.

nannā ullā laṇḍī lohāṛī bīrī usrār'ar darā khūriyar ge kālā-kālā, sannī-sannī xat̄tiyas ciccas.

ennē ga asman hū ormar ge xat̄ṭā lagiyas ekā bīrī bolwā taṅgiyō ujjā lagiyā. ād ga endra'am asmā mekkhō khūṛī erpā tār ge mal cicckā bigar tān mal mōxā lagiyā. nannā īṛpyar hū ga annem nanā lagiyar. ormar xat̄ṭar liṅghi'ā mōxā lagiyar. parab gahi ullā nū ga nannar gahi cicckā asmā num ga mōxā pollā lagiyar. erpā tā asman ga ender ba'oy. chirkā asman ga ormar ondr'ā ci'ā lagiyar. mag'hā isuṅg tī asmā bārā lagiyar. bārikā asman hū ewndā mōxor baggē mokkā tī hū ga erxtā lagiyā. annū hū bārikā asmā mal ra'ō holē ga parab-parab hū mal laggā lagiyā. asman ga ambā, xēr ahṛan ga irityar holē nannā khūṛī erpā tār ge ḥon xētā ga ci'nam rahcā. khūṛī erpā tār hū annem nanā lagiyar.

३ एका बीरी बोलवा तडिगयो नोकसान मंज्जा, खने गा बोलवस बोलोम रहचस। नाख़ खेड्ड तिम ए-का लगियस, कबड्ड - कुबुड्ड मंज्जका कुद्दा लगियस। आस गे होस्से हूँ मल रहचा का तडिगयोद मुंज्जरा केरा लेदम गा रहचस। ए-ड्डा गहि खरवा टाटना बेसे खऱ्ज्जन हूँ हुमकुरिया मना लगियस दरा मो-ख़ा लगियस, एन्दरन अख़'ओस आस गहि कूल नुँ पोचगो मंज्जकी रहचा का एन्दरा तम्बस मल एरोस होले खऱ्ज्जन आ खनेम मो-ख़ा मुढियार'आ लगियस। माख़ा बीरी तेकल कूल नुंजना ती चींख़ा लगियस। गोट्टा मा-ख़ा चींखयस होले रोपनस पइरी बीरी सिम्बाली गहि बकलन छोल'अर दरा पट्टा नू कस'आ लगियस दरा अम्म नू गोड्ड'अर दरा अदिन तनी - तनी ओन्त'आ लगियस। जोक क कस्सका बकलन गा कुड्डा हेद्दे छब'आ चि'आ लगियस। एन्ने नन्ना ती बोलवस गे तनी बुड्डा दव लग्गा लगिया होले गोट्टा माख़ा ता उसनिंदा मंज्जकन खऱ्न्दर'आ लगियस दरा बोंगत'आ लगियस, खऱ्न्दरका खो-ख़ा गा अम्बा आना चो'आ तपड़ेम आखनेम बे-चा गे ओ-रे नना चि'आ लगियस। अन्ती बोलवा तडिगयो गहि नोकसान मन्ना ती मून्ध रोपनस गहि ओय नाख़ उल्ला मून्ध ओण्टा गोला बछरुन धनुवांचकी रहचा। रोपनस आ ओय गहि दुदहिन कसा लोटा नू बीनर दरा बोलवासिन ऊंत'आ लगियस। बोलवस एका - एका उल्ला गा दुदही बीना गे कालोस होले ओण्टा दुदहिन तम्बस बीनदस खने ओन तरा बोलवस बच्छरु बेसे हबक'आदस। आ ओय दिकिम जुन ई पाली हूँ धनुवाचकी रहचा। अदि गहि खिरसा दिम एवंदा दव बनचकी रहचा।

"गुच्छुर'आ हो बोलवा अककुन लत्था होले अख़'ओय। निंगहय बच्छरु बेसे ओन्ना उर्मी उरखो कालो। तंरकूँटी मना। हो रे, हो हो एरा तो लत्थ'आ लगी। अंवगेम निंगन गुच्छुर'आ गे ब'आ लगदन।"

एन्ने ब'आ खनेम ओय लोटन लत्था चिच्चा अरा लोटा ता दुदही बीजरा दरा केरा। बोलवा तम्बस गे दव गा मल लग्गा लगी पहें एन्देर ननोस।

"ओह रे बीजिया दिम चिच्चा।"

3 ekā bīrī bolwā tañgiyō noksān mañjjā, khanē ga bolwas bōlom rahcas. nāx xedđ tim ēkā lagiyas, kabar-kubuṛ mañjkā kuddā lagiyas. ās ge hōssē hū mal rahcā ka tañgiyod muñjrā kerā leddam ga rahcas. ērā gahi kharwā ṭātnā bese xajjan hū humkuriyā manā lagiyas darā mōxā lagiyas, endran ax'os ās gahi kūl nū pocgō mañjjkī rahcā ka endrā tambas mal ēros holē xajjan ākhanem mōxā muṛhiyārā lagiyas. māxā bīrī tekal kūl nuñjnā tī cīxā lagiyas. goṭṭā māxā cīxyas holē ropnas pairī bīrī simbālī gahi baklan chol'ar darā paṭṭā nū kas'ā lagiyas darā amm nū goṛ'ar darā adin tanī-tanī ont'ā lagiyas. jokk kasskā baklan ga kuḍḍā heddē chab'ā ci'ā lagiyas. ennē nannā tī bolwas ge tanī buṛā daw laggā lagiyā holē goṭṭā māxā tā usnindā mañjkan xandr'ā lagiyas darā boṅgtā lagiyas, xandrkā xōxā ga ambā ānā co'ā taprem ākhanem bēcā ge ḥrē nanā ci'ā lagiyas. antī bolwā tañgiyō gahi noksān mannā tī mūndh ropnas gahi ḥy nāx ullā mūndh oṇṭā golā bachrun dhanuwāckī rahcā. ropnas ā ḥy gahi dud'hin kasā loṭā nū bīnar darā bolwasin ont'ā lagiyas. bolwas ekā-ekā ullā ga dud'hī bīnā ge kālos holē oṇṭā dud'hin tambas bīndas khanē ḥon tarā bolwas bacchrū bese habk'ādas. ā ḥy dikim jun ī pālī hū dhanuwāckī rahcā. adi gahi khirsā dim ewndā daw banckī rahcā.

“gucchr'ā hō bolwā akkun latthā holē ax'oy. niñg'hay bacchrū bese onnā urmī urkhō kālō. tārkūtī manā. hō rē, hō hō erā tō lath'ā lagī. aōgem niñggan gucchr'ā ge ba'ā lagdan.”

ennē ba'ā khanem ḥy loṭan latthā ciccā arā loṭā tā dud'hī bījrā darā kerā. bolwā tambas ge daw ga mal laggā lagī pahē ender nanos.

“oh rē bījiyā dim ciccā.”

“इदा ए-रा तो उर्मी दुदहिन बीजिया चिच्चा। इन्ना एन्दरन ओने नीन। इन्ना निंगन अम्बड़ी अम्मन ओन्त’ओन ए-न।”

बोलवस गे अउला कुड़ना अम्बड़ीन खुरिया नू ओ-न खुरिया ओथरस दरा अन्नू तनी बुड़ा बे-कन सज्जस चिच्चस। बोलवस गा अम्बड़िन एन्ने ओना लगदस का, एन्ने लग्गा लगी दुदही ती हूँ बग्गे एम्बा अम्बड़ी र’ई। ऊरुच - ऊरुच निरदन खप्पा लगदस। अम्बड़ी ख़क्खरा खने गा अउला मण्डी हूँ मल ओण्डूडस। ढेस - ढेसरना बेसे अम्बड़िन ओण्डूडस चिच्चस। एन्ने लग्गा लगिया का एवंदा उल्ला ती एन्दरन हूँ मल ओण्डका - मोक्का रहचस। ए-रा नी कूल उड़चका खो-खा एन्ने ख़ंदर’आ हेल्लरस का एन्ने लग्गा लगी एवंदा उल्ला ती ख़ंन्दर’आ दिम मल ख़न्दरका रहचस। बोलवस ख़न्दर’आ लगियस खने आस गहि खेड़ - खेक्खन मनी इसुंग नू रसड़िन सज’अर दरा खुरिया नू कुड़त’आ लगियस दरा अदिन नलबा लगियस। अरा बोलवस गहि खेड़ खेक्खा ता अंगलिन चो-डत’आ लगियस। ओण्ट’आकेम अंगली मल चुड़िया होले ब’ओस-

‘ए-दे ननी गुया पाही केरा।’

बोलवस एन्ने ननोस होले एजेरना बेसे मना लगियस दरा अउर ख़न्दर’आ काला लगियस। रोपनस गे एन्दरा हूँ नना मल तुक्को होले बोलवासिन मुटिया किचरी नू बेतर’अर दरा एवंदा दव ख़ंदरत’आ लगियस। औंगहोन - औंगहोन गा बेतरा किचरी ती तुरदा काला लगियस, अन्नू हूँ मल चीं-खा लगियस।

बोलवासिन अम्बर दरा रोपनस ख़ल नू नलखन नना गे काला हूँ पोल्ला लगियस। एकासे नलखन हूँ ननोस, बोलवासिन बेतर’आदस दरा नलख नन्दस होले हूँ गा रोपनस गे नलख नना गे घत्त मल लग्गी। नन्वर गे ने-का ख़दासिन चि’ओस, ने- आसिन भन्द’ओर चि’ओर, ने-खय हेद्दे हूँ गा र’आ मल बेद्दस। एकासे ननोस आस गहि गा मेद्दोद हूँ नलख मल नना हेल्लरा। एस’आनुम कीद’आदस दरा नलख नन्दस होले हूँ गा बोलवस चींख़दस, महले एका अजो नलखन नन्दस अजगोम बोलवस कबड़ - कुबुड मन्ते अंड़सदस कादस।

“idā ērā tō urmī dud'hin bījiyā ciccā. innā endran onē nīn. innā niñggan ambṛī amman ont'on ēn.”

bolwas ge aulā kurnā ambṛīn khuriyā nū on khuriyā otthras darā annū taniburā bēkan sajjas ciccas. bolwas ga ambṛīn ennē onā lagdas kā, ennē laggā lagī dud'hī tī hū baggē embā ambṛī ra'ī. ūruc-ūruc nirdan xappā lagdas. ambṛī xakkhrā khanē ga aulā mañḍī hū mal oñddas. ḍhes-ḍhesrnā bese ambṛīn oñddas ciccas. ennē laggā lagiyā ka ewndā ullā tī endran hū mal oñḍkā-mokkā rahcas. ērā nī kūl urckā xōxā ennē xandr'ā hellras ka ennē laggā lagī ewndā ullā tī xandr'ā dim mal xandrkā rahcas. bolwas xandr'ā lagiyas khanē ās gahi xeđđ-xekkhan manī isuňg nū rasṛin saj'ar darā khuriyā nū kuṛt'ā lagiyas darā adin nalbā lagiyas. arā bolwas gahi xeđđ xekkhā tā aṅglīn cōṛt'ā lagiyas. ont'ākem aṅglī mal cuđdiyā holē ba'os—

“ēde nanī guyā pāhī kerā.”

bolwas ennē nanos holē ejernā bese manā lagiyas darā aur xandr'ā kālā lagiyas. ropnas ge endrā hū nanā mal tukkō holē bolwasin muṭiyā kicrī nū betr'ar darā ewndā daw xandrt'ā lagiyas. oṅg'hon-oṅg'hon gā betrā kicrī tī turdā kālā lagiyas, annū hū mal cīxā lagiyas.

bolwasin ambar darā ropnas xall nū nalkhan nanā ge kālā hū pollā lagiyas. ekāse nalkhan hū nanos, bolwasin betr'ādas darā nalakh nandas holē hū ga ropnas ge nalakh nanā ge ghatt mal laggī. nannar ge nēkā xaddasin ci'os, nē āsin bhand'or ci'or, nēkhay heddē hū ga ra'ā mal bedd'das. ekāse nanos ās gahi ga meddod hū nalakh mal nanā hellrā. es'ānum kīd'ādas darā nalakh nandas holē hū ga bolwas cīxdas, mahlē ekā ajō nalkhan nandas ajgom bolwas kabar-kubur mantē ãṛsdas kādas.

दव ती गा रोपनस नलख हूँ नना पोलदस। इत्तरा जुदम अड्डोन ए-रना, अदी गे धाँसी खोयना, एन्ने गा मना लगिया रोपनस गे। ए घड़ी बोलवासिन अम्बियस दरा गुच्छरस चिच्चस होले गा अम्बा आना बोलवस लटंगा धाँसी नू कोर'आ काला लगियस। इत्तरा अड्डोन ब'अदय ने-ख'ऐम रहड़ी का मगहन ईरया होले बुंगनुम चाईल काला लगिया। बोलवस जुदम लटंगा ती लटपटर'आ काला लगियस।

गोट्टा किचरी लटंगा ती नींदा काला लगिया। एन्ने बीरी तम्बस एन्देर ननोस, लटंगन ओत्थर'ओस का धांसी खोयोस का अड्डोन किरत'आ गे कालोस। खेड्ड खेक्खद हूँ खस - खस मना काला लगिया। बोलवासिन ए-रोय होले एन्ने लग्गा लगिया का ईस आलस हिकदस का एन्दरा, भुड़ाइर किस्स बेसे मना काला लगियस। किचरी - डोड्डो मङ्गिखका ती चमोटा खैदाचका बेसे लग्गा लगिया। गल्लेन गा अम्बा आना बेरखा चोरगोरका बेसे लग्गा लगिया। मुँस्सोन गा एन्ने चींचर'आ लगियस का उर्मी मुँस्सो आस गहि गल्ले नुम खाया काला लगिया। मुँस्सोन तम्बस चींचा बेद्दोस होले गा अम्बा आना चींखा - चींखा औंजाईर नना चि'आ लगियस। मुईयन गा धर'आ दिम मल चि'आ लगियस। रोपनस औंगहोन - औंगहोन गा खिंसार'आ काला लगियस।

“र'आ होन्नेम! मुस्सो उरखी अदिन हूँ बलदय। सें... ब'आ गे ब'ओय होले अउर भितरेम मंक्खदय चि'इदय। एवंदा बे-र ब'ओन निंगन लटंगा नू अम्बा कोर'आ, ओण्टा हूँ कत्थन मल मेंद्य, ए-रा लगदय गोट्टा कया नू लटंगा लक्की र'ई। होन्नेम र'आ। इन्ना मल ओत्थर'ओन चि'ओन। हुबड़ा किचरी नुकुम अत्तिका र'आ चक्खो होले अख'ओय, अन्नेम चूतोय।”

एन्ने गा ब'अदस पहें तंगदस दिकिम गा हिकदस एन्ने थोरे ननोस। ए घड़ी खो-ख़म लटंगन ओथोरदस चि'इदस।

daw tī ga ropnas nalakh hū nanā poldas. ittrā judam ađđon ērnā, adi ge ghāsī xoynā, ennē ga manā lagiyā ropnas ge. ē għarī bolwasin ambiyas darā guccras ciccas holē ga ambā ānā bolwas laṭaṅgā ghāsī nū kor'ā kālā lagiyas. ittrā ađđon ba'day nēkh'aim rahṛī ka mag'han īryā holē buñgnum cail kālā lagiyā. bolwas judam laṭaṅgā tī laṭpatr'ā kālā lagiyas.

goṭṭā kicrī laṭaṅgā tī nindā kālā lagiyā. ennē bīrī tambas ender nanos, laṭaṅgan otthr'os ka ghāsī xoyos ka ađđon kirt'ā ge kālos. xedd xekkhad hū khas-khas manā kālā lagiyā. bolwasin ēroy holē ennē laggā lagiyā ka īs ālas hikdas ka endrā, bhużair kiss bese manā kālā lagiyas. kicrī-đođđō marixkā tī camōṭā xaidāckā bese laggā lagiyā. gallen ga ambā ānā berxā corgorkā bese laggā lagiyā. musson ga ennē cīcr'ā lagiyas ka urmī mussō ās gahi gallē num xāyā kālā lagiyā. musson tambas cīċā beddos holē ga ambā ānā cīxā-cīxā aujair nanā ci'ā lagiyas. muīyan ga dhar'ā dim mal ci'ā lagiyas. ropnas oing'hon-oing'hon ga khīsār'ā kālā lagiyas.

“ra'ā honnem! mussō urkhī adin hū balday. sē... ba'ā ge ba'oy holē aur bhitrem mañkkhday ci'day. ewndā bēr ba'on ninggan laṭaṅgā nū ambā kor'ā, onṭā hū katthan mal mendday, ērā lagday goṭṭā kayā nū laṭaṅgā lakkī ra'ī. honnem ra'ā. innā mal otthr'on ci'on. hubṛā kicrī nukum attikā ra'ā cakkhō holē ax'oy, annem cūtoy.”

ennē ga ba'das pahē taṅgdas dikim ga hikdas ennē thorē nanos. ē għarī xōxam laṭaṅgan othordas ci'das.

४ रोपनस गहि बेंज्जा ती एं-ड बछर खो-खा रोपनस गहि भइयोर आरिन जुदा नंज्जका चिच्चका रहचर। बोलवा तन अज्जिद हूँ बोलवा गर तरा मल मंज्जा। आद हूँ बोलवा तडिग्यो गने जुदा मन्ना ती मून्ध अनभनियाँ अरबा नखरा। ए-रा खने गा अंवंदा कोहाँ कत्था गा मल रहचा, पहें बोलवा तन अज्जी गे खे-र अहड़ा मल बछरकी रहचा, अवंगे खुड़ती बीरी मण्डी ओण्डका खो-खा अनभनियाँ अरबा - नखरर। बोलवा तन अज्जी तन सेडोन केबर'आ लगिया। बोलवा तन अज्जिद हूँ गा मण्डी ओन्ना ती मून्ध कुहा गे केरा। मण्डी ओनो दरा कालो पहें खने गा अन्नेम केरा। खे-र अहड़न पतंगाली ती कुल्ला उइय्यागे बाचा। बोलवा तडिग्यो गे खे-र अहड़न भवाँरी नू उइना रहचा खने गा आद हूँ चिलपिठी नू उइय्या चिच्चा। अकु केच्चका बेरखद मोक्खा चिच्चा अदिन एन्देर ननो तन सेडोद। ने- अख'आ लगिया का अहड़न उइका खो-खम बेरखद बर'ओ दरा मो-खो चिओ अदिन।

“अवंदा उल्ला एडपा नू उर्मी दिम पूरचा ई सोतड‘एंग गहि एडपा तिरखका खो-खा एडपा नू एन्दरद हूँ मल पूर'आ लगी। ब'आ लग्गी बेरखद मोक्खा अमखिन, एंवंदा उल्ला निडुग्यो निम्बय गुया अहड़ा मल मुक्की रहचकी, एन्ने नू ए-न निम्हय संगगे खट'आ ओना पोलोन। नीम ढिक्की कुडिया नू र'अदय का एसन र'अदय ए-न बल्लेन।”

“ए-न मल्ला मोक्का यो, पतंगाली ती कुल्लकी रहच‘अन दरा उइकी रहच‘अन।”

“कुल्लकी दरा उइकी रहचकी होले एन्दरद मोक्खा?”

“बेरखद यो, ने-खय मोखारो बेरखद बरचकी रहचा!”

“मसुवाही नितो, बेरखन मोक्खा ब'आ लगी। अवंदा उल्ला ने-खय बेरखद हूँ मल मुक्की रहचा इन्नम मोक्खा।”

“नीन एक'अम ब'अय यो। एंगहय बेसे अहड़ा मो-खना का निंगहय बेसे ब'अना।”

“ए-न मल पत्ति‘ओन बेरखद मोक्खा अदिन।”

4 ropnas gahi beñjā tī ēr bachar xōxā ropnas gahi bhaiyor
ārin judā nañjkā cicckā rahcar. bolwā tan ajjid hū bolwā gar tarā
mal mañjjā. ad hū bolwā tañgiyō gane judā mannā tī mündh
anbhaniyā arbā nakhrā. ērā khanē ga awndā kohā katthā ga mal
rahcā, pahē bolwā tan ajjī ge xēr ahṛā mal bachrkī rahcā, awnge
xuṛtī bīrī mañdī oñdkā xōxā anbhaniyā arbā-nakhrar. bolwā tan
ajjī tan sēron kebr'ā lagiyā. bolwā tan ajjid hū ga mañdī onnā tī
mündh kuddā ge kerā. mañdī onō darā kālō pahē khanē ga
annem kerā. xēr ahṛan pataigālī tī kullā uiyyāge bācā. bolwā
tañgiyō ge xēr ahṛan bhawārī nū uinā rahcā khanē ga ad hū
cilpiṭhī nū uiyyā ciccā. akkū kecckā berxad mokkhā ciccā adin
ender nanō tan sērod. nē ax'ā lagiyā ka ahṛan uikā xōxam berxad
bar'ō darā mōxō ci'ō adin.

“awndā ullā erpā nū urmī dim pūrcā ī sotar'eñg gahi erpā
tirxkā xōxā erpā nū endrad hū mal pūr'ā lagī. ba'ā laggī berxad
mokkhā amxin, ewndā ullā niñgyō nimbay guyā ahṛā mal mukkī
rahackī, ennē nū ēn nimhay sañggē khaṭā onā pollon. nīm
đhiñkkī kuṛiyā nū ra'day ka esan ra'day ēn ballen.”

“ēn mallā mokkā yō, pataigālī tī kullkī rahac'an darā uikī
rahac'an.”

“kullkī darā uikī rahackī holē endrad mokkhā?”

“berxad yō, nēkhay moxārō berxad barckī rahcā!”

“masuwāhī nitō, berxan mokkhā ba'ā lagī. awndā ullā
nēkhay berxad hū mal mukkī rahcā innam mokkhā.”

“nīn eka'am ba'ay yō. eñg'ay bese ahṛā mōxnā ka niñg'ay
bese ba'nā.”

“ēn mal patti'on berxad mokkhā adin.”

‘‘होन्ने हर ब’ओय का यो, बेरख्खद दिम मोक्खा चिच्चा अदिन
ए-न एन्देर ननोन।’’

‘‘एन्देर नन्ना र’ई अदिन नीन एंगन सिखाब’अदी।’’

‘‘निंग्हय सुन्दराही थोथनन ईरिकम दरा निंगन ओन्दरकम।
एन्ने मसुवाही र’अदी अदिन बल्ला लगिकम।’’

‘‘ए-रा किरकी रहचकी आ बीरिम जुन मला ब’ओय पहें यो।’’

‘‘निंगन सिथिया मल्ला ओन्दरका, निन ससिरस निंगा गे
बालका रंगचका किचरी नू निंग्हय उइजी नू ओण्टा रुपया चाइर
अना चिच्चका र’अदस।’’

‘‘एन्देरगे होन्ने ब’आ लगदी ओ? ’’

‘‘मल दव ब’आ लगेन होले तेंगय? ’’

‘‘ए-न एन्देर ब’ओन यो।’’

‘‘निंगयो निम्बय गहि कथा गहि एम्बा चड्डे निंगन हं’ऑ
बाचकम।’’

‘‘इंगयो एम्बयन एन्देरगे ढेस’आ लगदी।’’

‘‘एंग्हय संगे बईयन अमके लगगत’आगे।’’

‘‘नीनिम गा अन्नेम ब’आ लगदी यो।’’

‘‘चुपे र’अय निंग्हय संगे पोल्लोन ए-न।’’

‘‘निंगन एन्देर ब’आ लगेन दरा यो।’’

‘‘नीन एन्दरा हूँ मल्ला ब’अना एंगन, निंग्हय चपटा गहि
थोथना ब’आ लगी, अक्की।’’

‘‘बेरख्खद मोक्खा जुन बाच’अन, यो।’’

‘‘बेरख्खद मोक्खा का ने- मोक्खा, मसुवाही नितो।

‘‘अवंगेम जुन निंगन मण्डी ओनय दरा कलय बाच’अन यो।’’

‘‘मण्डी ओनोन दरा कुद्दा कालोन! कूलद ढेस - ढेस लग्गी
अदिन बलदी का! ओह रे निंग्हय बड़वारी। अककुन एन्ने - एन्ने
कथन ब’ओन होले निंगागे अरा रोपनस गे दव मल लग्गो।’’

‘‘ब’अय सेकन यो एन्दरा ब’आ बेद्दा लगदी?’’

‘‘हुदा रोपनासिन मेनय।’’

“honnē har ba'oy ka yō, berxad dim mokkhā ciccā adin ēn
ender nanon.”

“ender nannā ra'ī adin nīn eñggan sikhāba'dī.”

“niñg'hay sundrāhī thothonā ūrikam darā niñggan ondrkam.
ennē masuwāhī ra'dī adin ballā lagikam.”

“ērā kirkī rahackī ā bīrim jun malā ba'oy pahē yō.”

“niñggan sithiyā mallā ondrkā, nin sasiras niñggā ge bālkā
rañgackā kicrī nū niñg'hay uijī nū oñtā rupyā cāir anā cicckā
ra'das.”

“enderge honnē ba'ā lagdī yō?”

“mal daw ba'ā lagen holē teñggay?”

“ēn ender ba'on yō.”

“niñggyō nimbay gahi katthā gahi embā cađđē niñggan
hā'ā bāckam.”

“iñggyō embayan enderge ḋhes'ā lagdī.”

“eñg'hay sañgē baiyan amkē laggt'āge.”

“nīnim ga annem ba'ā lagdī yō.”

“cupē ra'ay niñg'hay sañgē pollon ēn.”

“niñggan ender ba'ā lagen darā yō.”

“nīn endrā hū mallā ba'nā eñggan, niñg'hay captā gahi
thothnā ba'ā lagī, akkī.”

“berxad mokkhā jun bāc'an, yō.”

“berxad mokkhā ka nē mokkhā, masuwāhī nitō.”

“awñgem jun niñggan mañđī onay darā kalay bāc'an yō.”

“mañđī onon darā kuddā kālōn! kūlad ḋhes-ḍhes laggī adin
baldī kā! oh rē niñg'hay bañwārī. akkun ennē-ennē katthan ba'on
holē niñggāge arā ropnas ge daw mal laggō.”

“ba'ay sekan yō endrā ba'ā beddā lagdī?”

“hudā ropnasin menay.”

“ए-न एन्दरा बाचका र’अदन दरा एंगन मेना गे ब’आ लगदी।”

“नीन एन्दरा हूँ मल्ला बाचका रोपना, अउला ता कत्थन मो-धरकय केरकय, मल बैंजरकी रहचा खने पद्धा ता जोंखर गने लमठ - लमठ कुद्धा नुंगा लगिया।”

“ए-न एका अउला हूँ अन्ने मल्ला बाचका यो, नीनिम कत्थन परद’आ खतरी एन्ने ब’आ लगदी।”

“ओह रे रोपना निंगन एंगह्य कूल नू नय चन्दो कुत्ताचका र’अदन।”

“नीन एन्दरा ब’आ बेद्दा लगदी यो, इन्ना एन्दरा - एन्दरा ब’अना र’ई ब’अय चि’ई।”

“ए-न निंगन एन्दरा ब’ओन, कला मुक्का गहि खोलन धरचका र’आ।”

“ओहरे अक्कू मल बन’ओ यो, अक्कू संजगी खत्तरा दिम केरा अरा खरखिया दिम केरा, अक्कू जे मन्ना र’ई मनो।”

ओहरे ओन खेता खे-र अहड्हा खतरी एन्ने बग्गे कत्था। एकासे मनो अक्कू। एङ्गा गा खोटर’ओ बेसेम लग्गा लगी। खे-र पिटका का मल पिटका। एकासे र’ओर। एन्ने बग्गे कत्था मंज्जा केरा। एंदेरगे का बोलवा तंडिग्यो दिम खे-र अहड्हन इस्तकी रहचा दरा अमखिन खट्टकी रहचा। अन्ति ओण्टा खे-ता नू गा अमखिन खुल्लिया दरा पतंगाली ती कुल्लकी उइकी रहचा। अन्ति ने- अख’आ लगिया का बेरख्वद पतंगालिन चलख’अर दरा उर्मी डबचका खे-र अहड्हन मो-खो चि’ओ। बोलवा तन अज्जिद हूँ गा उल्ला उल्लम कुद्धा कालो पहें, खने गा उरमी उल्ला माखा बीरिम खुड्ती बीरी ता मण्डी ओन्ना बेड्हा नुम काला लगिया। आद हूँ एन्देर ननो खुड्ती बीरी केरका ती अरखिद ख्रखर’आ लगिया।

नन्ना उल्ला बोलवा तन अज्जी पुतबीरी लकड़ा टोला किरकी रहचा। काना ती मून्ध एङ्गा नू बाचकी रहचा का :-

“ēn endrā bāckā ra'dan darā eñggan menā ge ba'ā lagdī.”

“nīn endrā hū mallā bāckā ropnā, aulā tā kaththan mōdhrkay kerkay, mal beñjrkī rahcā khanē paddā tā joñxar gane lamañh-lamañh kuddā nuñggā lagiyā.”

“ēn ekā aulā hū annem mallā bāckā yō, nīnim katthan pard'ā khatrī ennē ba'ā lagdī.”

“oh rē ropnā niñggan eñg'ay kūl nū nay candō kuttāckā ra'dan.”

“nīn endrā ba'ā beddā lagdī yō, innā endrā-endrā ba'nā rañi ba'ay ci'ñi.”

“ēn niñggan endrā ba'on, kalā mukkā gahi xolan dharckā ra'ā.”

“ohrē akkū mal ban'ō yō, akkū sañjgī khatrā dim kerā arā xarxiyā dim kerā, akkū jē mannā rañi manō.”

ohrē ôn xētā xēr ahṛā khatrī ennē baggē katthā. ekāse manō akkū. erpā ga xoṭor'ō besem laggā lagī. xēr piñkā ka mal piñkā. ekāse ra'or. ennē baggē katthā mañjjā kerā. enderge ka bolwā tañgiyō dim xēr ahṛā irtkī rahcā darā amxin xaṭkī rahcā. anti onṭā xētā nū ga amxin xulliyā darā patañgālī tī kullkī uikī rahcā. anti nē ax'ā lagiyā ka berxad patañgālin calax'ar darā urmī ḳabckā xēr ahṛā mōxō ci'ō. bolwā tan ajjid hū ga ullā ullam kuddā kālō pahē, khanē ga urmī ullā māxā bīrim xuṛtī bīrī tā mañdī onnā beṛā num kālā lagiyā. ād hū ender nanō xuṛtī bīrī kerkā tī arkhid xakhr'ā lagiyā.

nannā ullā bolwā tan ajjī putbīrī lakṛā ṭolā kirkī rahcā. kānā tī mūndh erpā nū bāckī rahcā ka—

‘एंगा किर्रा गे बग्गे बेड़ा लग्गा उँगी, अवंगे मण्डी ओनके
दरा चूतके, बिल्लिन अमके ते-ब’आ। बलिन हूँ अमके ऊदा। ढिबरिन
ए-न चूतेन आ कुड़िया नू लघर’आ चिइके, ए-न बर’ओन दरा
खोल्लोन ओनोन।’’

‘एन्देर ननोय दरा असन यो। चाँडे किर्रके। उरमी बीरी गा
खुड़ती बीरिम कादी।’’

‘उल्ला बीरी ने- हूँ मल खखरनै खने एन्देर ननोन। खुड़ती
बीरी मल कालोन दरा।’’

‘बग्गे ऊखा - माखा अमके नना यो, इन्नेला आलय एकासे
मला एकासे कच्छनखरनै।’’

‘निंगगागेम एन्दरा मल एन्दरा मेन्दर’ई। मल दव आलय
निंगगागेम खखरनय।’’

‘कलय अन्ती यो।’’

‘केरका खो-खा अन्नेम किर्रोन का, जोकक बेड़ा हूँ मल
ओक्कोन। चिच्च हो’ओना बेसे कालोन अरा बर’ओन का, एन्ने नना गे
ब’आ लगदी।’’

‘किर्रा गे बग्गे ऊखा मनो ब’अर दरा जुन ब’आ लगेन यो।’’

‘ए-न एलचोन कोनो का। गुचा को बोलवा कादय होले।’’

हेड़ेंग’आना बेसे बोलवासिन ब’ई।

‘बोलवा सिन नीन एसन हो’ओय माखा बीरी यो।’’

‘निडिगदासिन खारोन कोनो का हो’आ मल चिइदी।’’

‘एन्दरा बाच’अन दरा होन्ने ब’आ लगदी यो। बोलवासिन जुन
अम्बय हो’अय बाच’अन।’’

‘निडिगदासिन खेंवडाचकी र’अय केच्चका बड़वारी।’’

बोलवा तडिगयो उला भितरे तिम ब’ई।

‘सन्नी र’अदस अवंगे जुन बाच’अन यो।’’

‘दुदही गा ओण्डस अवंगे जुन ब’आ लगेन।’’

‘एंगन ए-न नतियासिन पाका गे मल चिइदय।’’

“eñggā kirrā ge baggē berā laggā uñggī, awñge mañđī onkē darā cūtkē, billin amkē tēb'ā. balin hū amkē ūdā. ñhibrin ēn cûten ā kuriyā nū laghr'ā ci'ke, ēn bar'on darā xollon onon.”

“ender nanoy darā asan yō. cãřē kirrkē. urmī bīrī ga xuřtī bīrim kādī.”

“ullā bīrī nē hū mal xakhrnay khanē ender nanon. xuřtī bīrī mal kālon darā.”

“baggē ūxā-māxā amkē nanā yō, innēlā ālay ekāse malā ekāse kacchnakhrnay.”

“niñggāgem endrā mal endrā mendr'ī. mal daw ālay niñggāgem xakhrnay.”

“kalay antī yō!”

“kerkā xōxā annem kirron kā, jokk berā hū mal okkon. cicc ho'nā bese kālon arā bar'on kā, ennē nanā ge ba'ā lagdī.”

“kirrā ge baggē ūxā manō ba'ar darā jun ba'ā lagen yō.”

“ēn elcon kōnō kā. gucā kō bolwā kāday holē.”

heřenç'ānā bese bolwasin ba'ī.

“bolwasin nīn esan ho'oy māxā bīrī yō.”

“niñgdasin xāron kōnō ka ho'ā mal ci'dī.”

“endrā bāc'an darā honnē ba'ā lagdī yō. bolwasin jun ambay ho'ay bāc'an.”

“niñgdasin xeõrāckī ra'ay kecckā bařwārī.”

bolwā tañgiyō ulā bhitrē tim ba'ī.

“sannī ra'das awñge jun bāc'an yō.”

“dud'hī ga oñdas awñge jun ba'ā lagen.”

“eñggan en natiyasin pākā ge mal ci'day.”

“एका उल्ला पाका गे मल चिच’अन यो ।”

‘खन्दरकय को, केच्चका । ए-न काला लगदन । खे’ओन होले ओन टिप्पा हूँ अम्म हूँ अमके चुरख़ा’आगे ।’

‘एन्देरगे होन्ने ब’आ लगदी यो, निन नतिस जुन हिकदस ।’

‘नतियासिन मल ब’ओन दरा ने-कन ब’ओन ।’

‘इदा हो’अय अन्ती यो ।’

एन्ने ब’अर दरा बोलवासिन तड्गियो तुक्कना बेसे ननी, बोलवस अनभनियाँ चींखदस ।

‘चींखत’अय अकुन, ओण्टा खद्दासिन भन्द’आ पोल्ला लगदी ।’

‘निंगहय चलतेम चींखा लगदस ।’

‘ए-रा लगेन बोलवा तड्गियो निंगहय बइयन मल खपाब’आ लगदी ।’

‘निंगहय थोथना गा अजम दव र’ई ।’

‘एंगन नीन होन्ने ब’ओय, निड्गियो निम्बय निंगन होन्नेम ब’आगे तिंगका र’अनय ।’

‘इंडिगियो एम्बयन एन्देरगे ढेस’आ लगदी ।’

‘पोल्लोन निंगहय संगे बोलवा तड्गियो ए-न काला लगेन, निंगहय बइयन ए-रा लगेन ए-झा थोथना ती हूँ बग्गे निंगहय बइयद चलखर’ई ।’

अन्ती खो-खा चुपे - चुपे काला गे उरखी । लकडा टोला नू ने- हूँ मल खक्खरर, आद अन्नेम किर्रिया केरा । किर्रो बीरी डहरे नू ए-री का एका एङ्गपा नू अरखी ख़खर’ओ । आ - आ एङ्गपा नू कुर’ई, दरा कत्थन कोहाँ - कोहाँ कम’ई । अरखी मल ख़खरना गूटी असतेक चो’आ हूँ मल चु’ई । अरखी ख़खरा होले ओण्ड लिंघ’ओ दरा काला लगदन ब’ओ अरा एङ्गपा किर्रो कालो । उरमी उल्ला आद अन्नेम नना लगिया । ओण्टा एङ्गपा नू गा अरखी ख़खरा दिम केरा । कत्थन टभियच - टभियच अरखिन ओण्डा । अउर तनिक चि’ओर होले हूरम - हूरम गा ब’ओ पहें अदि गहि जिया पत्ति’ओ आद हो’ओ दिकिम ।

“ekā ullā pākā ge mal cicc'an yō.”

“xandrkay kō, kecckā. ēn kālā lagdan. khe'on holē ōn tippā hū amm hū amkē curx'āge.”

“enderge honnē ba'ā lagdī yō, nin nattis jun hikdas.”

“natiyasin mal ba'on darā nēkan ba'on.”

“idā ho'ay antī yō.”

ennē ba'ar darā bolwasin tañgiyō tukknā bese nanī, bolwas anbhaniyā cīxdas.

“cīxt'ay akkun, oñtā xaddasin bhand'ā pollā lagdī.”

“niñg'hay caltem cīxā lagdas.”

“ērā lagen bolwā tañgiyō niñg'hay baiyan mal khapāba'ā lagdī.”

“niñg'hay thothnā ga ajam daw ra'ī.”

“eñggan nīn honnē ba'oy, niñgiyō nimbay niñggan honnem ba'āge tiñggkā ra'nay.”

“ingyō embayan enderge dhes'ā lagdī.”

“pollon niñg'hay sañggē bolwā tañgiyō ēn kālā lagen, niñg'hay baiyan ērā lagen ērā thothnā tī hū baggē niñg'hay baiyad calaxr'ī.”

antī xōxā cupē-cupē kālā ge urkhī. lakrā tolā nū nē hū mal xakkhrar, ād annem kirriyā kerā. kirrō bīrī ñahrē nū ērī ka ekā erpā nū arkhī xakhr'ō. ā ā erpā nū kur'ī, darā katthan kohā-kohā kam'ī. arkhī mal xakhrnā gūtī astek co'ā hū mal cu'ī. arkhī xakhrā holē oñd liñgh'ō darā kālā lagdan ba'ō arā erpā kirrō kālō. urmī ullā ād annem nanā lagiyā. oñtā erpā nū ga arkhī xakkhrā dim kerā. katthan ṭabhiyac-ṭabhiyac arkhin oñdā. aur tanik ci'or holē hūram-hūram ga ba'ō pahē adi gahi jiyā patti'ō ād ho'ō dikim.

* * *

५ “एखोन को बोलवा खंदरकर केरकर का। तिसग’आ बलिन। निङ्गयोद हुँ खंदरा केरा का। खेस्सन बत्त’ओ पहें, एवंदा कोडहे जे निमागे खंदर’आ तुक्की। लकड़ा दुली नू हुँ ने- हुँ मल खक्खरर। अदा किर्णी बीरि जुन डहरे नू बुखली खक्खरा, कोर’आ बाचा खने कोरचकन, खने गा ओन पैंटी अरखिन चिच्चा उंखकन केरकन।”

लकड़ा टोला ती किरका खो-ख्वा आद तान - तान बरबर’आ लगिया। आ बीरिम तन सेड़ोद बखड़े बलिन तिसग’ई।

“उंक्खकी तो कोडे नंज्जकी यो कोर’अय। इदा कट्टू ता मण्डन मल्ला पुँइदका। खोलय ओनय।”

“एंगन खोल्ला ओना गे बआ’दी। ओ-न्द एं-ड उल्ला ती ए-रा लगेन बड़वारी मना काला लगदी, पोल्लोन र’आगे निम्हय संगे। अल्ला चुलहा नू खटदय ओन्दय का एन्देर नन्दय, ने-ला तिम नीम नन्ना कुड़या नू र’आ गे ओ-रे नने।”

‘खोल्ला ओना गे जुन बाच’अन यो। इदा बोलवस दुदही ओना लगदस अवंगे। इदा ओन्दय लोटा खोल्ला चिआ लगेन।”

‘चो’आ बबु अदा निन अज्जी गे मण्डी चिआ काला लगदन।”

‘ए-न औंगगोन खोल्ला ओना गे। कलय नीन चूतके।”

‘मेरतलएर बेसे कच्छनखरदी यो।”

‘एंगन मेरतलए ब’अदी, मेरतलए गा नीन हिकदी।”

‘पोल्लोन बोलवा तड़िगयो निम्हय संगे ठठ’आगे।”

‘कलय यो मण्डी ओनके।”

‘ए-न इन्ना मण्डी मल ओनोन। एंगहय कूलद एन्नेम उड़चा केरा।”

‘तनिक’ओकेम ओनय यो।”

‘ए-न अक्कु निंगहय खटचका मण्डिन मल ओनोन।”

‘अम्बय ओनय अन्ती अक्कु ए-न एन्देर ब’ओन।”

‘नीन एन्देर ब’ओय, ए-न ब’आ लगेन, ने-ला ती एड़पा नू एं-ड टू चुलहा लघर’ओ अक्की।”

5 “ekhon kō bolwā xandrkar kerkar kā. tisg'ā balin. niñgyod hūñ xandrā kerā kā. xessan batt'ō pahē, ewndā koñhē jē nimāge xandr'ā tukkī. lakrātulī nū hūñ nē hūñ mal xakkhrar. adā kirrō bīrī jun ñahrē nū bukhłī xakkhrā, kor'ā bācā khanē korckan, khanē ga ôn painq̄tī arkhin ciccā uñkhkan kerkan.”

lakrā tolā tī kirrkā xōxā ād tān-tān barbarr'ā lagiyā. ā bīrim tan sērod bakhřē balin tisg'ī.

“uñkkhkī tā koñe nañjkī yō kor'ay. idā kat̄tū tā mañđin mallā püidkā. xolay onay.”

“eñggan xollā onā ge ba'dī. ònd ẽr ullā tī ërā lagen巴爾瓦爾 manā kälā lagdī, pollon ra'äge nimhay sañggē. allā culhā nū khañday onday ka ender nanday, nēlā tim nīm nannā kuñiyā nū ra'ā ge õrē nanē.”

“xollā onā ge jun bāc'an yō. idā bolwas dud'hī onā lagdas awñge. idā onday lotā xollā ci'ā lagen.”

“co'ā babū adā nin ajjī ge mañđī ci'ā kälā lagdan.”

“en oñggon xollā onā ge. kalay nīn cūtkē.”

“mortal'er bese kacchnakhrdī yō.”

“eñggan mortal'e ba'dī, mortal'e ga nīn hikdī.”

“pollon bolwā tañgiyō nimhay sañggē thañh'äge.”

“kalay yō mañđī onke.”

“en innā mañđī mal onon. eñg'hay külad ennem uñcā kerā.”

“tanik'okem onay yō.”

“en akkū niñg'hay khañackā mañđin mal onon.”

“ambay onay antī akkū en ender ba'on.”

“nīn ender ba'oy, en ba'ā lagen, nēlā tī erpā nū ẽr thū culhā laghr'ō akkī.”

रोपनस इबडन ए-रा लगियस खने दव गा मल लग्गा लगिया
पहें आस एन्देर ननोस। ओन तरा मुक्का खद्द नन्ना तरा तड़िग्यो
अरा भइयोर। जुदा मना गा मल तुक्का लगिया पहें एन्देर ननोस।
एवंदा उल्ला गूटी एन्नेम कत्थन मेन्ते र'ओस।

"अना बोलवा तम्बायो, ए-न गा ई एड्पा नू ठठ'आ गे गा
पोल्लोन।"

"एंगा गे हूँ अन्नेम लग्गी बोलवा तड़िग्यो।"

"होले एन्देर ब'आ लगदय अन्ती?"

"ए-न एन्देर ब'ओन नीन एकासे ब'अदी अन्नेम ननोत।"

"एंगा लग्गी संगहेम र'ओत होले गा होन्नेम मनो।"

"मानिम ब'अदी बोलवा तड़िग्यो। ओण्ट'आकेम अडिन चिच्वर
होले नमागे उज्जा गे मनो कालो।"

"अरे मल पूर'ओ होले बनी भूती ननोत। मल मनो दरा का!
ईर गहि ए-डा थोथना बईयन गा ए-रना मल मनो।"

"नम्हय जुदा मंज्जका ती ईर गे अखतार'ओ बोलवा तड़िग्यो
का उक्का - उक्का एकासे ओना गे ख़खर'ई अदिन।"

"मानिम ब'अदय नलख ननोर ना ख़ारोर।"

"मला उक्का - उक्कम ख़ल्लद आर गे एरखो चि'ओ। ईर
नमन एन्दरा घोखनर।"

अन्ति रोपना गर नन्ना उल्ला ती सन्नी एसन कुडिया नू र'आ
लगियर। जोक्क उल्ला ख़ो-ख़म बोलवा तंडिग्यो नोक्सान मंज्जा
केरा। आर गे बग्गे ख़ल्ल मल चिच्वका रहचर, ओन गोहला अड्डो
अरा ओण्टा ओय चिच्वका रहचर, अरा ओण्टा किस्स, आ ओय गहि
दुदहीन औंताच - औंताच बोलवासिन पो-सस पर्दस। इबड़ा उर्मिन
घोख'आ - घोख'आ बोलवासिन पाकोस अरा एसन औंगा लगियस
असानुम ओक्का लगियस अरा गलेन कप्पर दरा चींख़ा - ओलखा
लगियस।

ropnas ibran ērā lagiyas khanē daw ga mal laggā lagiyā pahē ās ender nanos. ōn tarā mukkā xadd nannā tarā tañgiyō arā bhaiyor. judā manā ga mal tukkā lagiyā pahē ender nanos. ewndā ullā gūtī ennem katthan mente ra'os.

“anā bolwā tambāyō, ēn ga ī eṛpā nū ṭhaṭhā ge ga pollon.”

“eingga ge hū annem laggī bolwā tañgiyō.”

“holē ender ba'ā lagday antī?”

“ēn ender ba'on nīn ekāse ba'dī annem nanot.”

“eingga laggī saṅg'hem ra'ot holē ga honnem manō.”

“mānim ba'dī bolwā tañgiyō. oṇṭākem ařin ciccar holē namāge ujjā ge manō kālō.”

“arē mal pūr'ō holē banī bhūtī nanot. mal manō darā kā! īr gahi ērā thothnā baiyan ga ērnā mal manō.”

“namhay judā mañjkā tī īr ge axtār'ō bolwā tañgiyō ka ukkā-ukkā ekāse onā ge xakhrī adin.”

“mānim ba'day nalakh nanor na xāror.”

“malā ukkā-ukkam xallad ār ge erxō ci'ō. īr naman endrā ghokhnar.”

anti ropnā gar nannā ullā tī sannī-esan kuriyā nū ra'ā lagiyar. jokk ullā xōxam bolwā tañgiyō noksān mañjjā kerā. ār ge baggē xall mal cicckā rahcar, ōn gohlā ađđō arā oṇṭā ḥoy cicckā rahcar, arā oṇṭā kiss, ā ḥoy gahi dud'hin ontāc-ontāc bolwasin pōsas pardas. ibrā urmin ghokh'ā-ghokh'ā bolwasin pākos arā esan oṅggā lagiyas asānum okkā lagiyas arā gallen kappar darā cīxā-olxā lagiyas.

आस जुकिकम ख़ल्ल नुम, ओन कों-डन पुटुस झट्टा ती
घोर'अर दरा बटगी कमचस। अन्नुम ओन कों-डा नू अलुआ भेटाँगो
गुट्ठिन इद'आ लगियस, अरा ओन तरा दम्बूदी खनेम सिम्बिन
इद'आ लगियस। आस अदि गे लड़ंगार'आ गे तोम्बा गहि झाँकन
मलता ख़ोंख़ोड़न गड़'आ लगियस। आस गहि बटगी एवंदा दव, उर्मी
उल्ला हरियर एथर'आ लगिया। ए-ख़ा घड़िला गा अम्बा आना बटगी
गहि कूटि - कूटि घोरचका घोरना नू अनभनियाँ कराईली ख़ंज्ज'आ
लगिया, आद हू पे-ठ सवदा नना गे मना काला लगिया। कराईलिन
गा पे-ठ हो'आ लगियस दरा खेज्जा ननर दरा बीसा लगियस।
अनभनियाँ बीसर'आ लगिया। आस गहि बटगी नू एका उल्ला हूँ
अमख़ी गहि घटी मल मना लगिया। नीकइम हूँ आस गहि बटगी
नीदी ख़ेक्खा हूँ केरर होले ओरमर गे ओ-न्द बेड़ा ता अमख़ी इरता
मो-ख़ा गे चिं'आ लगियस। नीकइम हूँ आस गहि बटगी कुद्दा केरर
होले नीदी ख़ेक्खा मल किर्दा लगियर। सुको पच्छोद गा एका उल्ला
एड़पा नू अमख़िद घटर'आ लगिया अउलम आस गहि बटगी कालो
दरा कथन टभिय'आ लगिया।

'एन्देर नना लगदय बबु, रोपना?"'

आस आना किर्त'आ लगियस :-

'एन्दरा मंज्जा, ए-थर'आ हूँ मल ए-थर'आ लगकी, बरय यो
ए- घड़ी कुद्दागे।"

'अनभनियाँ सिम्बी भेटाँगोन ख़ंज्जत'आ लगदय।"

'इद'आ खनेम उर्मी दिम ख़ंज्जई, मेख़ी ती खतरना होले
इद'ओन पहें का, आलारिन गा एन्देर आनोय, इद'आ मो-ख़ा गे
बलनर ख़ड़'आ मो-ख़ा गे अख़नर, चेरो चुयाँ गरही उर्मी ख़ें-सो
कन्दन ख़ड़डर होच्चर ब'आ लगियर।"

'ए-न हूँ अन्नेम मेना लगदन, एन्देर गे अन्ने ननर दरा।"

'नीम जे एन्दरा - एन्दरा इदका र'अदर?"'

ās jukkim xall num, ōn kōřan puṭus jhaṭṭā tī ghor'ar darā batgī kamcas. annum ōn kōřā nū aluā bheṭāgō gutṭhin id'ā lagiyas, arā ōn tarā dambūdī khanem simbin id'ā lagiyas. ās adi ge laṛaṅgār'ā ge tombā gahi jhākan maltā xōxoran gaṛ'ā lagiyas. ās gahi batgī ewndā daw, urmī ullā hariyar ether'ā lagiyā. ēxā ghaṛilā ga ambā ānā batgī gahi kūṭi-kūṭi ghorackā ghornā nū anbhaniyā karāilī xañj'ā lagiyā, ād hū pēṭh sawdā nanā ge manā kālā lagiyā. karālin ga pēṭh ho'ā lagiyas darā khejjā nanar darā bīsā lagiyas. anbhaniyā bīsr'ā lagiyā. ās gahi batgī nū ekā ullā hū amxī gahi ghaṭī mal manā lagiyā. nīk'im hū ās gahi batgī nīdī xekkhā hū kerar holē ormar ge ōnd beṛā tā amxī irtā mōxā ge ci'ā lagiyas. nīk'im hū ās gahi batgī kuddā kerar holē nīdī xekkhā mal kirrā lagiyar. sukō paccod ga ekā ullā erpā nū amxid ghaṭr'ā lagiyā aulam ās gahi batgī kālō darā katthan ṭabhiy'ā lagiyā.

“ender nanā lagday babū, ropnā?”

ās ānā kirt'ā lagiyas—

“endrā mañjjā, ētthr'ā hū mal ētthr'ā lagkī, baray yō ē ghaṛī kuddāge.”

“anbhaniyā simbī bheṭāgon xañjt'ā lagday.”

“id'ā khanem urmī dim xañjī, merxā tī khatrnā holē id'on pahē kā, ālarin ga ender ānoy, id'ā mōxā ge balnar xar'ā mōxā ge axnar, cerō cuyā garhī urmī xēsō kandan xadḍar hoccar ba'ā lagiyar”

“ēn hū annem menā lagdan, ender ge annē nannar darā.”

“nīm jē endrā-endrā idkā ra'dar?”

“इदना पोलकम तनिक, झट्टा हूँ पोलकम चेड़’आगे अवंगे घोर’आ पोलकम। जोकक भेटाँगो रहचा अदिन हूँ ए-डा अड्डोद मिनियाँ चिच्चा। निम्बस गा नडी चैं-प ती चूतका रहचस। ढे-र उल्ला ती एखो कोडे र’अदस दरा। निम्बासिन ए-रोन का बटगिन ए-रोन, एन्हे जुन मंज्जा बबु।”

“एकासे ब’ओय अन्ती का यो, इदा तनिक’ओ केम अमख्खी हो’अय कलय।”

“मला बबु र’आ चि’आ।”

“ओन्द्य यो बग्गे थोरे चि’आ लगदन दरा।”

“चि’आ अन्ती निंगहय कत्थन हूँ उइदन।”

इन्दर’इम अमखिन रोपनस चिच्चस होले आद तंगहय सड़ी गहि अचरा नू हें’अर दरा कोंयच्छा नू कोंयच्छ’आ लगिया। बग्गे मलता जुककी उरमिन आद सड़ी गहि अचरा नूम कोंयच्छ’आ लगिया। बई ती गा आना लगिया का अम्बा चि’आ, पहें खक्खरा होले गा अम्बो! उरमिन धर’अर दरा सोजहे एङ्घणा चाईल काला लगिया। रोपनस गे गा बटगी ता अमखिन खट्टागे दव लग्गा लगिया।

“अमखिद घटर’ओ होले बरके अन्ती यो, र’ई अवंगे जुन ब’अदन।”

“बर’ओन जुन बबु कुद्दना बेसे। इदा ओण्टा कत्थन गा तेंगागे मो-धरकन केरकन।”

“रहबेल यो अदा ने-खय मनखद घोरनन कुस्सा लगी।”

“कला - कला अदा ने-खय मनखद हिके दरा खेदके महले बटगी नू कोरचा होले उरमिन मो-खो चि’ओ।”

“एन्देरगे होन्हे खेदा अम्बनर चि’इनर दरा!

“ने-कन एन्देर ब’ओय बबु अवंगेम जुन एम्हय बटगी नू एन्दरद हूँ मल बच्छर’ई।”

“ने-कन एन्देर ब’ओय का यो, पद्दा नू खोहाड़ कमनर खनेम ओरमर गे थिथार’ई।”

“idnā polkam tanik, jhaṭṭā hū̄ polkam cer'āge awīnge ghor'ā polkam. jokk bheṭāgō rahcā adin hū̄ ērā addod miniyā̄ ciccā. nimbas ga naři cēp tī cūtkā rahcas. ḑhēr ullā tī ekhō koře ra'das darā. nimbasin ēron ka baṭgin ēron, ennē jun mañjā babū.”

“ekāse ba'oy antī ka yō, idā tanik'ō kem amxī ho'ay kalay.”

“malā babū ra'ā ci'ā.”

“onday yō baggē thorē ci'ā lagdan darā.”

“ci'ā antī niňg'hay katthan hū̄ uidan.”

indr'im amxin ropnas ciccas holē ād taňg'hay sařī gahi acrā nū̄ hē'ar darā kōychā nū̄ kōych'ā lagiyā. baggē maltā jukkī urmin ād sařī gahi acrā nūm kōych'ā lagiyā. bař tī ga ānā lagiyā ka ambā ci'ā, pahē xakkhrā holē ga ambō! urmin dhar'ar darā sojhhē erpā cāil kālā lagiyā. ropnas ge ga baṭgī tā amxin xatṭāge daw laggā lagiyā.

“amxid ghaṭr'ō holē barkē antī yō, raři awīnge jun ba'dan.”

“bar'on jun babū kuddnā bese. idā onṭā katthan ga teňggāge mōdhrkan kerkan.”

“rahbel yō adā nēkhay manxad ghornan kussā lagī.”

“kalā-kalā adā nēkhay manxad hike darā khedkē mahlē baṭgī nū̄ korcā holē urmin mōxō ci'ō.”

“enderge honnē khedā ambnar ci'nar darā!

“nēkan ender ba'oy babū awīgem jun emhay batgī nū̄ endrad hū̄ mal bacchr'i.”

“nēkan ender ba'oy ka yō, paddā nū̄ khohāř kamnar khanem ormar ge thithār'i.”

“ने-खय मनखा रहचा दरा रोपना?!”

“मल चिन्हिचकन। ओ एन्देर कत्थन तेंगा बेद्दा लगकी यो!?”

“एन्दरन तेंगोन का बबु, अदा सोमरा तड़गदा गहि इन्ना
पंचाईत ब’आ लगनर। गोट्टा पद्धियर ओकका लगनर किका!”

“ओ! एन्दरा मंज्जा दरा यो!?”

“एन्दरा मनो का तम्हय मेसगा नू अरगकी रहचा किका।”

“एका उल्ला दरा?!”

“चेरो जुन ब’आ लगियर।”

“ओ! आद गा पूरुदिम हिके केरका चन्दो अदा उगतन चेड़डा
दरा हो’आ लगिया, ओण्टा किस्स मो-ख़ना बेसे जरिबना होच्चर दरा
अम्बियर।”

“एकासे ब’ओय अन्ती बबु। अख़’आ लगी का कुड़ुख़ खोड़हा
नू मुक्कर गे का पेल्लर गे उगतन ठेकरना मल्ला अरा मेसगा हूँ
अरगना मल्ला। अन्नू हूँ बलना बेसे मनी।”

“हूँद गा यो तूरियर गहि एंवसरका आलोन हूँ मूख़ी।”

“तूरियर का लोहरर गहि एड़पा काला - काला मण्डिन हूँ उनी
खने आर गहि एंवसरका आलोन मल मो-ख़ो।”

“हूँद ओ-न सन्नी तिम होन्नेम र’ई यो। ने-कन एन्देर ब’ओय
तड़िगयो तम्बागर दिम अन्नेम र’अनर खने।”

“एकासे ब’ओय अन्ती बबु ने-क’आनुम बाचकय चिच्चकय होले
रफ ले खेक्खन चो-दनर। अवंगे ने-कन हूँ एन्दरा हूँ मल्ला ब’अना।
चुपेम र’अना दिम दव।”

“एवदा उल्ला चुपेम र’ओय यो। चुपेम र’ओय होले कुड़ुख़
खोड़हा उन्दुल सोतबोड़’आ मनो कालो। खोड़हन बच्छाब’आगे गा
मुन्धभारे बरनम मनो।”

एन्ने ब’अर दरा रोपनस असन एन्ने मना लगियस का अक्कुनुम
असन सोमरा तड़गदा रहचका होले आदिन असानुम पस’ओस
चि’ओस पहें। आस गहि ख़न्न गा ओड़कर बेसे ख़ेंसो मंज्जकी
किरकी रहचा।

“nēkhay manxā rahcā darā ropnā?”

“mal cinhckan. ō ender kaththan tēnggā beddā lagkī yō!”

“endran tēnggon ka babū, adā somrā tāngdā gahi innā pañcāit ba'ā lagnar. goṭṭā paddiyar okkā lagnar kikā!”

“ō! endrā mañjjā darā yō!”

“endrā manō ka tamhay mesgā nū argkī rahcā kikā.”

“ekā ullā darā?”

“cerō jun ba'ā lagiyar.”

“o! ād ga pūrūdim hike kerkā candō adā ugtan cedđā darā ho'ā lagiyā, oṇtā kiss mōxnā bese jaribanā hoccar darā ambiyar.”

“ekāse ba'oy antī babū. ax'ā lagī ka kuřux khōṛhā nū mukkar ge ka pellar ge ugtan Ქekrnā mallā arā mesgā hū argnā mallā. annū hū balnā bese manī.”

“hūd ga yō tūriyar gahi e᷑srkā ālon hū mūxī.”

“tūriyar ka lohrar gahi erpā kālā-kālā maṇdin hū unī khanē ār gahi e᷑srkā ālon mal mōxō!”

“hūd ōn sannī tim honnem rāī yō. nēkan ender ba'oy tāngiyō tambagar dim annem ra'nar khanē.”

“ekāse ba'oy antī babū nēk'ānum bāckay cicckay holē raphlē xekkhan cōdnar. awīge nēkan hū endrā hū mallā ba'nā. cupem ra'nā dim daw.”

“ewndā ullā cupem ra'oy yō. cupem ra'oy holē kuřux khōṛhā undul sotboṛ'ā manō kālō. khōṛhan bacchāba'āge ga mundhbhārē barnam manō.”

ennē ba'ar darā ropnas asan ennē manā lagiyas ka akkunum asan somrā tāngdā rahackā holē adin asanum pas'os ci'os pahē. ās gahi xann ga oṛkar bese xēsō mañjkī kirkī rahcā.

‘‘ब’आगे गा मानिम ब’अदय बबु।’’

‘‘मल ईरदिन का यो, मेसगा मईयाँ एन्दरा ख़ारा गे अरगा
केरा। इबड़ा कथन ए-न थोरे अख़’आ लगिकन का यो। इन्हा ए-न
उरमी कथन ब’ओन यो।’’

‘‘अड़ती बीरी जुन ओककोर ब’आ लगियर बबु।’’

‘‘होले गा कानम मनो, ओ-न्द कुटिया केम ख़खर’ओ मलता
मल ख़खर’ओ, ए-न इन्हा कालोन दिम।’’

‘‘इदा कादन चप्पदन बबु, महले एड़पा नू इकिया केरा ब’ओर
दरा केबर’ओर।’’

नीकइम हूँ केरर होले आर गे ओन सांझ ता अमख़ी चि’आ लगियस।
अन्ति ने-कन हूँ नीदी ख़ेकखा एड़पा किर्रा मल चि’आ लगियस।

ब’आ लगियस :-

‘‘ओंदा ओन सांझ केम इर्तके मो-ख़के, बग्गे गा मला तनी बुड़ा
चि’आ लगदन। बटगी नू अमख़ी र’ई अवंगे जुन मला होले एसतन
चि’ओन पहें।’’

“ba'āge ga mānim ba'day babū.”

“mal īrdin ka yō, mesgā maÿyā endrā xārā ge argā kerā. ibṛā katthan ēn thorē ax'ā lagikan ka yō. innā ēn urmī katthan ba'on yō.”

“aṛtī bīrī jun okkor ba'ā lagiyar babū.”

“holē ga kānam manō, ḥond kuṭiyā kem xakhr'ō maltā mal xakhr'ō, ēn innā kālon dim.”

“idā kādan cappdan babū, mahlē eṛpā nū ikyā kerā ba'or darā kebr'or!”

nīk'im hū̄ kerar holē ār ge ḥon sāñjh tā amxī ci'ā lagiyas. anti nēkan hū̄ nīdī xekkhā eṛpā kirrā mal ci'ā lagiyas. ba'ā lagiyas—

“ondā ḥon sāñjh kem irtkē mōxkē, baggē ga malā tanī buṛā ci'ā lagdan. batgī nū amxī ra'ī awṅge jun malā holē estan ci'on pahē.”

६ सुको पच्चो गहि कत्थन मेनर दरा रोपनस हूँ अदि गहि खोखानुम एङ्गा कादस। आस गे गा लग्गा लगी का एकाबीरी एङ्गा कालोन दरा बैसकी नू ओकका गे कालोन। आस चाँडे - चाँडे पुटुस झट्टा ती एसतेक बटगी नू कोरदस असन बहरी ती डबदस चिइदस। कूँड नन बटगी नू मल अम्बदस। एन्देरगे का अम्बोस होले खड्ड'ओर दरा हो'ओर कालोर। अवंगे मे-द तरा बेतर'अर दरा उरमी उल्ला एङ्गा हो'आ ओन्दर'आ लगियस। कुदरन गा कोमाअङ्गखा मन्न गहि भोंकडो नू उइय्या लगियस अवंगे अदिन गा ने- हूँ मल खड्ड'आ लगियर।

“खोख’अय यो, ए-न हूँ एङ्गा काला लगदन।”

“एन्देरगे एन्ने चाँडे बर’आ लगदय बबु?”

“बटगी ता नलखन ने-ला गूटी नन्ते र’ओन यो।”

“तनी बुझा गा रहचा किका बबु, भेटाँगोन कोड’ओय मुंज्जोय पहें!”

“तनी बुझम जुन र’ई यो, ने-ला गूटी कोडर’ओ जुन।”

“कोडर’आ गे एन्दरन मल कोडर’ओ का, पहें सय - सोय ठू गा खोप्पा बच्छरकी रहचा किका।”

“अउरम जुन बच्छरकी रहचा यो। ने-ला एन्देर नलख ननोन दरा।”

“आद गा आदिम जुन।”

“ई पाली हूँ किस्स दिम मो-ख़त’ओ हू़इत।”

“एकासे ब’ओय अन्ती।”

“इत्तुक मून्ध ता पंचाइत नू गा यो अनभनियाँ बग्गे - बग्गे किस्स अहडा मंज्जकी रहचा।”

“एमागे हूँ बग्गेम ओन्दरका रहचर।”

“होले एवंदा बग्गे ई पाली बर’ओर यो?!”

“अदिन गा बल्ला लगदन, पहें ई पाली खट्टर हूँ ओककोर ब’आ लगियर।”

6 sukō paccō gahi katthan menar darā ropnas hū adi gahi xokhānum erpā kādas. ās ge ga laggā lagī ka ekā bīrī erpā kālon darā baiskī nū okkā ge kālon. ās cārē-cārē puṭus jhaṭṭā tī estek baṭgī nū kordas asan bahrī tī ḍabdas ci'das. kūr nan baṭgī nū mal ambdas. enderge ka ambos holē xaṛ'or darā ho'or kālor. awṅge mēd tarā betr'ar darā urmī ullā erpā ho'ā ondr'ā lagiyas. kudran ga komarxā mann gahi bhōkṛō nū uiyyā lagiyas awṅge adin ga nē hū mal xaṛ'ā lagiyar.

“xokh'ay yō, ēn hū erpā kālā lagdan.”

“enderge ennē cārē bar'ā lagday babū?”

“baṭgī tā nalkhan nēlā gūtī nantē ra'on yō.”

“tanī buṛā ga rahcā kikā babū, bhetāgon koṛ'oy muñjoy pahē!”

“tanī buṛam jun raṭī yō, nēlā gūtī korṛ'ō jun.”

“korṛ'ā ge endran mal korṛ'ō kā, pahē say-soy ṭhū ga xoppā bacchrkī rahcā kikā!”

“auram jun bacchrkī rahcā yō. nēlā ender nalakh nanon darā!”

“ād ga ādim jun.”

“ī pālī hū kiss dim mōxt'ō huit.”

“ekāse ba'oy antī.”

“ittuk mūndh tā pañcāit nū ga yō anbhaniyā baggē-baggē kiss ahṛā mañjkī rahcā.”

“emāge hū baggem ondrkā rahcar.”

“holē ewndā baggē ī pālī bar'or yō?”

“adin ga ballā lagdan, pahē ī pālī khaṭtar hū okkor ba'ā lagiyar.”

“होले गा ई पाली ऊनुम कुटिया जुन मनो। खट्टर गा
किस्सन हूँ मल मो-ख्नर यो।”

“होले गा खंसिन जुन बेद्दोर हूईत बबु।”

“एकासे ब’ओय अन्ती का यो, एवंद’अम मनो खटरना मो-खना
हिके।”

रोपनस एडपा केरका खो-ख्ना चाँडे - चाँडे धुती चो’अर दरा
ओण्टा गमछन कुक नू पगरी हैं-रस अरा पंचाईत काला गे
उरखदस। आस गहि सपडारकन ए-रर दरा एन्हे लग्गा लगिया का
आसिम पंचाईत गहि कोहाँ पंचस तलिदस। अखड़ा हेवे अडिसका
खो-ख्ना ए-रदस का असन ने- हूँ मल्ला बरचका। आस गे लग्गी का
नीकइम बर’ओर का मला। अन्ती आलर गहि आंसेपैड़ा ए-रते
रोपनस कैरारदस कादस। आस घोखचस का एडपा किर्रोन अन्ती
आ बीरिम पद्दा ता जोकक मे-तर असन अडिसियर जोकक बेड़ा
खो-ख्ना गा अनभनियाँ बग्गे असन बरचर केरर। पंचाईत हूँ ओ-रे
मंज्जा केरा। रोपनस गा ओरमर ती बग्गे पंचाईत नू ब’आ लगियस।
आस गहि कथन गा ने- हूँ मल मेना लगियर। अन्नू हूँ आस असन
तंगह्य कथा नुम र’आ लगियस। चुपे र’आ गे ब’अनर अन्नू हूँ आस
चुपे मल मना लगियस। सोमरा तड़गदा इन्दर’इम बाचा होले गा
अम्बा आना रोपनस तड़गह्य छतिन ठुकनुम चो’आ काला लगियस।
एन्हे मना लगियस का अक्कूनुम अदिन पस’ओस चिओस। गोट्टा
कुडुख खोड़हा ता कथन उलग’आ चिओ लगियस। गोट्टा पंचाईत
ता आलारिन कुडुखर गहि आईन नन तेंगा लगियस।

“holē ga ī pālī ūnum kuṭiyā jun manō. khaṭṭar ga kissan hū mal mōxnar yō.”

“holē ga khāsin jun beddor huit babū.”

“ekāse ba'oy antī ka yō, ewnda'am manō xaṭarnā mōxnā hike.”

ropnas eṛpā kerkā xōxā cārē-cārē dhutī co'ar darā oṇṭā gamchan kukk nū pagrī hēras arā pañcāit kālā ge urkhdas. ās gahi saprārkan ērar darā ennē laggā lagiyā ka āsim pañcāit gahi kohā pañcas talidas. akhrā heddē ařiskā xōxā ērdas ka asan nē hū mallā barckā. ās ge laggī ka nīk'im bar'or ka malā. antī ālar gahi āsēpařā ērtē ropnas kairārdas kādas. ās ghokhcas ka eṛpā kirron antī ā bīrim paddā tā jokk mētar asan ārsiyar jokk beřā xōxā ga anbhaniyā baggē asan barcar kerar. pañcāit hū ūrē mañjjā kerā. ropnas ga ormar tī baggē pañcāit nū ba'ā lagiyas. ās gahi katthan ga nē hū mal menā lagiyar. annū hū ās asan taṅ'hay katthā num ra'ā lagiyas. cupē ra'ā ge ba'nar annū hū ās cupē mal manā lagiyas. somrā taṅgdāindr'im bācā holē ga ambā ānā ropnas taṅ'hay chatin ḥuknum co'ā kālā lagiyas. ennē manā lagiyas ka akkūnum adin pas'os ci'os. goṭṭā kūrux khōrhā tā katthan ulg'ā ci'ā lagiyas. gotṭā pañcāit tā ālarin kūrxar gahi āin nan teṅggā lagiyas.

‘‘मेना हरो पंच बगारो, एंगन इन्ना ब’आ चि’आ। इन्ना गा नाम सोमरा तड़गदा गहि पंचाईत उकका र’अदत। ईद उगतन चिड़डकी रहचा अदि गहि हूँ अहड़ा मो-खताचा। इन्ना मेसगा अरगना गे अहड़ा मो-खत’आ लगी। ओरमर एंगहय कथन इन्ना थिथाब’आ दरा मेना। ई पद्धा नू ओरमर गहि एड़पा ती ओण्टा मला ओण्टा बहरी दिल्ली का बम्बई काला लगनर अरा अन’आ - मन’आ जाईत गहि कुकको - कुके बेद्दा लगनर अरा आर हेद्देम र’आ लगनर का उईया नखर’आ लगनर। आरिन गा नीम एन्दरा हूँ मल ब’आ लगदर एन्दर अतुक नम्हय कुडुख खोङ्हहा सोतबोड़’आ मल मना लगी?’’

रोपनस एन्ने दव कथन आना लगियस पहें आस गहि कथन ने- हूँ मल मेना लगियर। उरमी बीरी आसिन गा ओक्कागेम आना लगियर। पहें रोपनस ने-खय कथन हूँ मल मेना लगियस। आसिन गा ओंगहोन - ओंगहोन पसना बेसे मना लगियर। रोपनस गा ने-कन हूँ मल एलचा लगियस। ओंगहोन - ओंगहोन गा पंच्चर एन्दरन सोमरा तड़गदा गहि कथा कम’ओर रोपनस गने अरबा नखर’आ बेद्दा लगियर। रोपनस अनभनियाँ गूल नना लगियस अवंगे एक’अम बीरी आसिन मल मे-खा बेद्दा लगियर। पहें रोपनस गहि खेबदा गूटी एसतेक मला एसतेक कथा अंड़सा काला लगिया।

“menā harō pañc bagārō, eñggan innā ba'ā ci'ā. innā ga nām somrā tañgdā gahi pañcāit ukkā ra'dat. īd ugtan ciđđkī rahcā adi gahi hū ahřā mōxtācā. innā mesgā argnā ge ahřā mōxt'ā lagī. ormar eñg'hay katthan innā thithāba'ā darā menā. ī paddā nū ormar gahi eřpā tī oňtā malā oňtā bahrī dillī ka bambāi kālā lagnar arā an'ā-man'ā jāit gahi kukkō-kukē beddā lagnar arā ār heddem ra'ā lagnar ka uiyyā nakhr'ā lagnar. ārin ga nīm endrā hū mal ba'ā lagdar ender attuk namhay kuřux khōřhā sotbor'ā mal manā lagī?”

ropnas ennē daw katthan ānā lagiyas pahē ās gahi katthan nē hū mal menā lagiyar. urmī bīrī āsin ga okkāgem ānā lagiyar. pahē ropnas nēkhay katthan hū mal menā lagiyas. āsin ga oňg'hon-oňg'hon pasnā bese manā lagiyar. ropnas ga nēkan hū mal elcā lagiyas. oňg'hon-oňg'hon ga pañccar endran somrā tañgdā gahi katthā kam'or ropnas gane arbā nakhr'ā beddā lagiyar. ropnas anbhaniyā gūl nanā lagiyas awnge eka'am bīrī āsin mal mēxā beddā lagiyar. pahē ropnas gahi xebdā gūtī estek malā estek katthā āřsā kālā lagiyā.

७ एका बीरी बोलवा तड़िगयो नड़ियार'आ लगिया आ खने रोपनस बटगी नू इद्विका अलुआ भेटाँगो गुट्ठिन बीसर दरा बोलवा तड़िगयो गे मंदर कमताचस, पहें पोल्लस बछाब'आगे। बोलवा तड़िगयो गे उर्मी बटगी ता बीसका अलुआ का भेटाँगो सिम्बी गुट्ठी गहि ढिबन मंदर कमत'आना नुम मुज्जियस चिच्चस। ढिबा र'अना गूटी उज्जिया दरा एकासे ढिबा गहि मंज्जुरना मंज्जा का बोलवा तड़िगयो गहि मुंज्जुरना मंज्जा। रोपनस गहि खेकखा नू ओण्टा हूँ ढिबा मल बच्छरकी रहचा। इवंदा का बोलवा तड़िगयो के कफन किचरी खें-दा गे हूँ रोपनस हेवे ढिबा मल रहचा। आलर ती कफन किचरी खें-दा गे ढिबा ने-च ईरियस पहें ने- हूँ आस गे ढिबा मल चिच्चर। एङ्गपा नू रोपनस हेवे ओण्टा पुना धुती रहचा अदि गहि पझर नन ए-झो तरा चर्रर दरा बोलवा तड़िगयोन डबचस चिच्चस। जोकक उल्ला गा बोलवा तड़िगयोन मो-धर'आ हूँ पोल्ला लगियस। उल्ला माखा तान - तान घोखोच - घोखोच चीखा लगियस। इतरा बोलवासिन हूँ ए-रना - खो-जना। एकासे ननोस आस गे गा जिया दिम उरखना काना बेसे लग्गा लगिया।

बोलवा तड़िगयो गहि मुंज्जुरका खो-खा पैइरी बीरी खे-र चींख्या होले ढिकी चुज्जा गे चो'आ काला लगियस। अन्तिले बीड़ी अरगना ती मून्ध संजगी, गोबारी ननर उसरार'आ काला लगियस। आलर गहि चो'ओना ती मून्ध आस गहि मण्डिद हूँ बि'आ काला लगिया। आलर ब'आ लगियर—

'ईस खंदरदस का मला आलर गहि चो'ओना ती मून्ध उसरारदस कादस।'

7 ekā bīrī bolwā tañgiyō nařiyār'ā lagiyā ā khanē ropnas batgī nū iddikā aluā bhetāgō guṭħin bīsar darā bolwā tañgiyō ge mandar kamtācas, pahē pollas bachāba'äge. bolwā tañgiyō ge urmī batgī tā biskā aluā ka bhetāgō simbī guṭħī gahi ḥhiban mandar kamt'anā num muñjjiyas ciccas. ḥhibā ra'nā gūtī ujjiyā darā ekāse ḥhibā gahi muñjurnā mañjjā ka bolwā tañgiyō gahi muñjurnā mañjjā. ropnas gahi xekkhā nū onṭā hū ḥhibā mal bacchrkī rahcā. iwndā ka bolwā tañgiyō ke kaphan kicrī x̄edā ge hū ropnas heddē ḥhibā mal rahcā. ālar tī kaphan kicrī x̄edā ge ḥhibā nēc īriyas pahē nē hū ās ge ḥhibā mal ciccar. eṛpā nū ropnas heddē onṭā punā dħutī rahcā adi gahi pair nan ērō tarā carrar darā bolwā tañgiyon ḋabcas ciccas. jokk ullā ga bolwā tañgiyon mōdhr'ā hū pollā lagiyas. ullā māxā tān-tān ghokhoc-ghokhoc cīxā lagiyas. ittrā bolwasin hū ērnā-xōjnā. ekāse nanos ās ge ga jiyā dim urkhnā kānā bese laggā lagiyā.

bolwā tañgiyō gahi muñjurkā xōxā pairī bīrī xēr cīxyā holē ḥhiñkī cuñjā ge co'ā kālā lagiyas. antile bīrī argnā tī mūndh sañjgī, gobārī nanar usrār'ā kālā lagiyas. ālar gahi co'nā tī mūndh ās gahi mañqid hū bi'ā kālā lagiyā. ālar ba'ā lagiyar—

“īs xandras ka malā ālar gahi co'nā tī mūndh usrādas kādas.”

रोपनस टोंका तरा नलख नना काला लगियस खने बोलवासिन हूँ मे-द नू मुटिया किचरी ती बेतर'अर दरा संगे - संगे हो'आ काला लगियस। बेतरा नू बोलवस किचरी ती बहरी कुक्कन ओथर'अर दरा मुटुर - मुटुर ए-रा लगियस। ओण्टा खेक्खा नू टोंग'एन अरा नन्ना खेक्खा नू खेंसेर तुम्बानु अम्म धर'अर अड्डोन टोंग'ए डंटी ती खेदते - खेदते बटगी तरा हो'आ काला लगियस। आस गे ने- हूँ नलख चि'आ मल बेदा लगियर, ब'आ लगियर तंगदासिन भंद'ओस का नलखन ननोस। रोपनस हूँ अख'आ लगियस का आस गे ने- हूँ नलख मल चि'ओर। पहें एन्देर ननोस नलख मल नंज्जका ती एकासे उल्ला कालो। आस उर्मी उल्ला बटगी नूम नलख नना लगियस नलख ननो बीरि आस अड्डोन बटगी हेद्देम कोरोंजो मन्न किय्या जो-ड़ा ती खुट'आ चि'आ लगियस दरा अदी गे घाँसिन खोयर दरा चि'आ लगियस। तम्बस नलख नना लगियस खने बोलवस असानुम बटगी गहि ओन कों-ड़ा नू बे-चा लगियस। आस खज्ज - धूली नू बे-चते बे-चते भुइँझर किस्स बेसे मना काला लगियस। खनेम गा पूरुर बेसे तान - तान डण्डिन पाड़ा लगियस, खनेम गा तम्बासिन ए-रोस दरा ए-बा, ए-बा ब'अते र'आ लगियस। ओण्ट'आकेम खद्दर असन चाईल केरर होले गा अम्बा आना एङ्गपा पली बे-चा हेलर'आ लगियस। खनेम गा ओ-ड़ा - ओ-ड़ा बे-चा लगियस। आस गहि मुझे ती उर्मी बीरि मुस्सोद उरखते र'आ लगिया। आस गहि गल्ले मुस्सो ती चमोटा खैदाचका बेसे मना काला लगिया। ए-का मुढ़ियारस खने ती गा अम्बा आना तम्बासिन पठरू बेसे अम्बा हूँ मल अम्बा लगियस। तम्बस चोतोर ख़ल नू पटा चूगोस होले चाँडे - चाँडे थोथा मनर दरा आड़ी ती किय्या चोतोर नू एत्ता काला लगियस अरा पटा नू अरगा गे चींखा लगियस। खने तम्बस आसिन केबर'आ लगियस।

ropnas ṭoñkkā tarā nalakh nanā kālā lagiyas khanē bolwasin hū mēd nū muṭiyā kicrī tī betar'ar darā sañggē-sañggē ho'ā kālā lagiyas. betrā nū bolwas kicrī tī bahrī kukkan othar'ar darā muṭur-muṭur ērā lagiyas. onṭā xekkhā nū ṭoñg'en arā nannā xekkhā nū xēser tumbā nū amm dhar'ar aḍdon ṭoñg'ē ḍanṭī tī khedtē-khedtē baṭgī tarā ho'ā kālā lagiyas. ās ge nē hū nalakh ci'ā mal beddā lagiyar, ba'ā lagiyar tañgdasin bhand'os ka nalkhan nanos. ropnas hū ax'ā lagiyas ka ās ge nē hū nalakh mal ci'or. pahē ender nanos nalakh mal nañjkā tī ekāse ullā kālō. ās urmī ullā baṭgī nūm nalakh nanā lagiyas nalakh nanō bīrī ās aḍdon baṭgī heddem koroñjō mann kiyyā jōṛā tī khuṭ'ā ci'ā lagiyas darā adi ge ghāsin xoyer darā ci'ā lagiyas. tambas nalakh nanā lagiyas khanē bolwas asanum baṭgī gahi ḥon kōṛā nū bēcā lagiyas. ās xajj-dhūlī nū bēcte bēcte bhūrair kiss bese manā kālā lagiyas. khanem ga pūrur bese tān-tān ḍanṭdin pāṛā lagiyas, khanem ga tambasin ēros darā ēbā, ēbā ba'te ra'ā lagiyas. onṭākem xaddar asan cāil kerar holē ga ambā ānā eṛpā pallī bēcā helr'ā lagiyas. khanem ga ḫōṛā-ᬁōṛā bēcā lagiyas. ās gahi muñ tī urmī bīrī mussod urkhte ra'ā lagiyā. ās gahi gallē mussō tī camōṭā xaidāckā bese manā kālā lagiyā. ēkā muṛhiyāras khanē tī ga ambā ānā tambasin paṭhrū bese ambā hū mal ambā lagiyas. tambas cotor xall nū paṭā cūgos holē cāṛē-cāṛē thothā manar darā āṛī tī kiyyā cotor nū ettā kālā lagiyas arā paṭā nū argā ge cīxā lagiyas. khanē tambas āsin kebr'ā lagiyas.

‘‘बहरिम र’आ हो, महले चोतोर नू लटपटर’ओय होले ए-न
बलदन। आङ्गी हुबड़स ती ककड़ो गुटिठन बेदा, निंगगा गे अमख़ी
इरतोन चि’ओन।’’

‘‘गोंगरा संगे इरतके चि’इके बा अनभनियाँ एम्बा लग्गी।’’

‘‘नीनिम अख़दय एन्दरा संगे एम्बा लग्गी अदिन।’’

‘‘सुको अज्जी चिच्चकी रहचा बा, गोंगरा संगे मेसा नंज्जा
दरा, बेस एम्बा लग्गकी रहचा।’’

‘‘कला हो चोतोर नू अम्बा कोर’आ, ख़प्पा धरचा होले
अख़’ओय।’’

‘‘मल्ला ख़प्पा बा।’’

‘‘नीनिम अख़दय ख़प्पा र’ई का मला अदिन।’’

‘‘मून्ध ए-न पटा नू अरगोन अदि गहि ख़ो-ख़ा नाम संगे -
संगे ककड़ो कप्पोत बा।’’

‘‘बरा - बरा अरगा खतर’ओय होले बलदन ए-न।’’

अन्ति एन्देर ननोस आस गहि हटिठन ए-रर आस आसिन पटा नू
अरग’आ लगियस। पटा मईयाँ हूँ अरगिका खो-खा चुपे - चुपे मल
र’आ लगियस। उपुड़ - चुपुड़ मन्त्रेम र’आ लगियस। ओंगहोन -
ओंगहोन गा पटा ती किय्या खतर’आ काला लगियस पहें एलचा हूँ
मल एलचा लगियस। खनेम गा अड़डो गहि खोलन धर’आ लगियस,
अड़डोद लत्थ’आ लगिया अब्रू हूँ मल एलचा लगियस। पटा चूगना
मुंज्जना गूटी बोलवस गा चोतोर ती लट - पट मना काला लगियस।

‘‘ए-रा तो भुड़इर किस्स बेसे मंज्जकय केरकय।’’

‘‘गुचा बा ककड़ो कप्पोत।’’

‘‘इदा हो इसन ए-रा तो मनख़ा ककड़ोद र’ई किका।’’

‘‘नीनिम धर’आ बा एंगागे इलचका लग्गी।’’

‘‘एन्ने कोहाँ र’ई बा, ईद गा ओण्टा एकला दिम ओन अमख़ी
मनो कालो।’’

“bahrim ra'ā hō, mahlē cotor nū laṭpaṭar'oy holē ēn baldan.
āṛī hubṛastī kakṛō guṭṭhin beddā, niṅgā ge amxī irtton ci'on.”

“goṇgrā saṅgē irtkē ci'kē bā anbhaniyā embā laggī.”

“nīnim axday endrā saṅgē embā laggī adin.”

“sukō ajjī cicckī rahcā bā, goṇgrā saṅgē mesā nañjā darā,
bēs embā laggkī rahcā.”

“kalā hō cotor nū ambā kor'ā, xappā dharcā holē ax'oy.”

“mallā xappā bā.”

“nīnim axday xappā raī ka malā adin.”

“mūndh ēn paṭā nū argon adi gahi xōxā nām saṅgē -
saṅgē kakṛō kappot bā.”

“barā-barā argā khatr'oy holē baldan ēn.”

anti ender nanos ās gahi haṭṭhin ērar ās āsin paṭā nū arg'ā lagiyas.
paṭā maẏyā hū argikā xōxā cupē-cupē mal ra'ā lagiyas.
upur-cupur mantem ra'ā lagiyas. oṅg'hon-oṅg'hon ga paṭā tī
kiyyā khatr'ā kālā lagiyas pahē elcā hū mal elcā lagiyas. khanem
ga adđō gahi xolan dhar'ā lagiyas, adđod latth'ā lagiyā annū hū
mal elcā lagiyas. paṭā cūgnā muñjnā gūñi bolwas ga cotor tī
lat-paṭ manā kālā lagiyas.

“ērā tō bhuṛair kiss bese mañjkay kerkay.”

“gucā bā kakṛō kappot.”

“idā hō isan ērā tō manxā kakṛod raī kikā.”

“nīnim dhar'ā bā eṅgāge ilckā laggī.”

“ennē kohā raī bā, īd ga oṇṭā eklā dim ḥn amxī manō
kālō.”

“इदा जोकक दुदही ककड़ोन धरचका र‘अदन।”

“इदा बा बूची ककड़ोद हूँ र‘ई। दुदही ककड़ोन धर‘ओन बा।”

“हुबड़ा सन्नी र‘ई, अरगी परदागे, अम्बा धर‘आ। इन्ना खँों-द मंज्जा केरा गुचा निंगन एमत‘आदन चि‘इदन।”

“नोहोर‘ओन होले मल बन‘ओ बा।”

“गोट्टा देह नू चोतोर मंज्जका केरका र‘अदय तेकल नोहोर‘ओन ब‘अदय, गुचा एम्त‘आदन चि‘इदन। ए घड़ी इसानुम उक्का र‘अके ए-न नगड़ा खँज्ज ओन्दरा बर‘आ लगदन, निंग्हय कुककन खँज्जोन चि‘ओन।”

“पझ्याँ लग्गो होले बा।”

“मल लग्गो, अवंगेम जुन चोतोर नू अम्बा कोर‘आ बाचकन, खने गा चोतोर नू लटपटर‘आ गे कोरचकय।”

“idā jokk dud'hī kakṛon dharckā ra'dan.”

“idā bā būcī kakṛod hū̄ ra'ī. dud'hī kakṛon dhar'on bā.”

“hubṛā sannī ra'ī, argī pardāge, ambā dhar'ā. innā xōnd mañjjā kerā gucā niñgan emt'ādan ci'dan.”

“nohor'on holē mal ban'ō bā?”

“goṭṭā dēh nū cotor mañjkā kerkā ra'day tekal nohor'on ba'day, gucā emt'ādan ci'dan. ē ghaṛī isanum ukkā ra'kē ēn nagrā xajj ondrā bar'ā lagdan, niñg'ay kukkan xajjon ci'on.”

“pañyā laggō holē bā.”

“mal laggō, awīgem jun cotor nū ambā kor'ā bāckan, khanē ga cotor nū latpaṭr'ā ge korckay.”

आसिन नो-डर मूझर दरा लोहाड़ी मना लगिया खने मण्डी
ओना गे एडपा हो'आ काला लगियस, ओण्टा गोला अड्डो रहचा
अन्नु गा घोड़ो अरिगका ती हूँ मल लत्थ'आ लगिया, अवंगे बोलवस
अड्डो मईयाँ घोड़ो अरगा लगियस दरा टोंका तरतिक एडपा काला
लगियस। अड्डोन गा एका - एका उल्ला टोंका तरम उल्ला बीरी
अम्बा चि'आ लगियस। अरा मण्डी औंडडका खो-ख़ा अडती बीरी
बोलवासिन हो'अर अड्डो तरा काला लगियस। बोलवस अड्डो तरा
काला लगियस खने तंग्हय गुलाइर नन धर'आ गे मल मो-धर'आ
लगियस। चेंग'आ गे गा ओंगा हूँ पोल्ला लगियस पहें खेंसेर
नू टंगरकम र'आ लगियस। माखा बीरी हूँ रबड़ नन खेंसेर ती मल
ओथर'आ लगियस। तनिक परदियस खने गा अम्बा आना, टोंका
तरा कालो बीरी डहरे कूटी ता मन्न नू खनेम झूँड नू ओ-डा खोतन
ए-रते काला बर'आ लगियस। इन्दरइम ओ-डा गहि बी ख़खर'ओ
आस अदिन एडपा हो'अर दरा अतखा नू मेकखा मो-खा लगियस।
एक'अम दरंगा तरा काला लगियस दरा सुया खोतन बेद्वा लगियस।
सुया गा सन्नी लाता नू खोता अट्टी अवंगे आस चुपे - चुपे सुयद
कोरचकी र'ओ होले काला लगियस दरा लातन उट'अर दरा रफ ले
धर'आ लगियस, अरा एडपा कालर दरा अदिन मो-चर, अतखा नू
टिप'अर दरा अँगोर नू माड़ा लगियस। बिच्चका खो-खा अन्नु इसुंग,
बे-क मरिचा सज'अर दरा अदिन सन'आ मो-खा लगियस। एका -
एका उल्ला गा सुयद हूँ मल कोरचका र'ओ होले हूँ कालर दरा
लातन खेकखा ती उट'अर दरा नूता लगियस पहें ठकर'आ काला
लगियस। खनेम गा सन्नी - सन्नी खद्वर संग्गे चोट्टोन अरखा
लगियस। चोट्टोद ख़खरा होले ठुड़ही गहि चरी नू अदिन खुट'आ
लगियस दरा चोतोर नन हिडहोड़'अर दरा अदिन मझही नू गड़'आ
लगियस। अदि गहि कूटी - कूटी हूँ ठुड़ही गहि चरिन गड़'आ
लगियस दरा बकिलन बझहाब'आ लगियस। बोलवस उरमी उल्ला
इन्दरइम अहड़ा मो-खा लगियस।

āsin nōrār mūjhar darā lohārī manā lagiyā khanē maṇḍī onā ge erpā ho'ā kälā lagiyas, oṇṭā golā aḍdō rahcā annū ga ghorō arigkā tī hū mal latthā lagiyā, awīge bolwas aḍdō maīyā ghorō argā lagiyas darā ṭoṇkkā taratik erpā kälā lagiyas. aḍdon ga ekā-ekā ullā ṭoṇkkā taram ullā bīrī ambā ci'ā lagiyas. arā maṇḍī oṇḍkā xōxā aṛtī bīrī bolwasin ho'ar aḍdō tarā kälā lagiyas. bolwas aḍdō tarā kälā lagiyas khanē taṅ'hay gulāir nan dhar'ā ge mal mōdhrā lagiyas. ceṅgā ge ga oṅggā hū pollā lagiyas pahē xēser nū taṅgarkam ra'ā lagiyas. māxā bīrī hū rabar nan xēser tī mal otthrā lagiyas. tanik pardiyas khanē ga ambā ānā, ṭoṇkkā tarā kälō bīrī ḍahrē kūtī tā mann nū khanem jhūr nū oṛā khotan ērtē kälā barā lagiyas. indr'im oṛā gahi bī xakhr'ō ās adin erpā ho'ar darā atxā nū mekkhā mōxā lagiyas. eka'am daraṅgā tarā kälā lagiyas darā suyā khotan beddā lagiyas. suyā ga sannī lātā nū khotā atṭī awīge ās cupē-cupē suyad korckī ra'ō holē kälā lagiyas darā lātan uṭ'ar darā raph lē dhar'ā lagiyas, arā erpā kālar darā adin mōcar darā, atxā nū ṭip'ar darā aṅgor nū mārā lagiyas. bicckā xōxā annū isuṅg, bēk maricā saj'ar darā adin san'ā mōxā lagiyas. ekā-ekā ullā ga suyad hū mal korckā ra'ō holē hū kālar darā lātan xekkhā tī uṭ'ar darā nūtā lagiyas pahē ṭhakr'ā kälā lagiyas. khanem ga sannī-sannī xaddar saṅggē cotṭon arxā lagiyas. cotṭod xakhrā holē ṭhurhī gahi carī nū adin khuṭ'ā lagiyas darā cotor nan hiḥhor'ar darā adin majhhī nū gaṛ'ā lagiyas. adi gahi kūtī-kūtī hū ṭhurhī gahi carin gaṛ'ā lagiyas darā bakilan bajhhāba'ā lagiyas. bolwas urmī ullā indr'im ahrā mōxā lagiyas.

आस गहि झुला थइला नू तीखिल अरा मासी दाली उर्मी बीरी र'आ लगिया, आस अदिन फकते र'आ लगियस। तम्बस आसिन तीखिल मो-ख़ना गे अनभनियाँ केबर'आ लगियस पहें बोलवस हाँ गा ब'आ लगियस अन्ती तीखिल मो-ख़नन अम्बा गे हूँ पोल्ला लगियस। चटर - चटर मो-ख़ते र'आ लगियस।

'उर्मी बीरी तीख़लन मो-ख़ते र'अदय। लिण्डन चुर्ना मो-ख़ो होले एंगन अमके ब'आ, ए-न निंगा गे मंदर मल कम'ओन चिओन। अउर निंगन ए-न तीख़लन मो-ख़त'ओन।'

'इन्हा ती मल मो-ख़ोन बा।'

'इन्हा ती मोक्कय होले ए-रके इदा इसन औँरची टेम्पन भीत नू खेरा लगदन।'

लिण्डन चुरना मोक्खा होले तम्बासिन तेंगा लगियस।

'इदा बा लिण्डन चुरना मो-ख़ा लगी, इदा बा लिण्डन चुरना मो-ख़ा लगी।'

'अवंगेम जुन तीख़लन अमके मो-ख़ा ब'अदन खने गा एंगहय कथन मेना हूँ मल मेन्दय। बरा इज्जगो मन्दर कमदन चिइदन।'

अन्ती एन्देर ननोस। चुर्ना मो-ख़ो होले लेदरन बस्सर दरा चिच्च केच्चा होले अदिन गुड़अर दरा बोलवस गहि लिण्डी नू सज'आ लगियस। अन्ती ए-रा तो ए - घड़ी ख़ो-ख़ा आस गहि लिण्डी ता चिलगा बोंगा काला लगिया।

'इदा बा एंगहय लिण्डी ता चुरना बोंगा केरा।'

'ओन्दा हो अउर तीखिल मो-ख़ा।'

'मला बा।'

अन्ती बोलवस इवरम ब'अर दरा असतेक बोंगा काला लगियस। औंद एंड उल्ला तीखिल मो-ख़नन अम्बर दरा अउर मो-ख़ा गे ओ-रे नना चिआ लगियस। केबर'आ गा लगियस पहें अत्तुक बग्गे गा लोला - चोनहाँ नना लगियस अरा तान घोख'आ लगियस :

ās gahi jhulā thailā nū tīxil arā māsī dālī urmī bīrī ra'ā lagiyā, ās adin phaktē ra'ā lagiyas. tambas āsin tīxil mōxnā ge anbhaniyā kebr'ā lagiyas pahē bolwas hā ga ba'ā lagiyas antī tīxil mōxnān ambā ge hū pollā lagiyas. caṭar-caṭar mōxtē ra'ā lagiyas.

“urmī bīrī tīxlan mōxtē ra'day. liṇḍin curnā mōxō holē eingga amkē ba'ā, ēn niṅgā ge mandar mal kam'on ci'on. aur niṅgan ēn tīxlan mōxt'on.”

“innā tī mal mōxon bā.”

“innā tī mokkay holē ērkē idā isan ̄arcī tempan bhīt nū xerrā lagdan.”

liṇḍin curnā mokkhā holē tambasin teṅgā lagiyas.

“idā bā liṇḍin curnā mōxā lagī, idā bā liṇḍin curnā mōxā lagī!”

“awṅgem jun tīxlan amkē mōxā ba'dan khanē ga eṅg'hay katthan menā hū mal menday. barā ijgō mandar kamdan ci'dan.”

antī ender nanos. curnā mōxō holē ledran bassar darā cicc keccā holē adin guṛ'ar darā bolwas gahi liṇḍī nū saj'ā lagiyas. antī ērā tō ēghaṛī xōxā ās gahi liṇḍī tā cilgā boṅggā kālā lagiyā.

“idā bā eṅg'hay liṇḍī tā curnā boṅggā kerā.”

“ondā hō aur tīxil mōxā.”

“malā bā.”

antī bolwas iwram ba'ar darā astek boṅggā kālā lagiyas. ōnd ̄eṛ ullā tīxil mōxnān ambar darā aur mōxā ge ūrē nanā ci'ā lagiyas. kebr'ā ga lagiyas pahē attuk baggē ga lolā-conhā nanā lagiyas arā tān ghokh'ā lagiyas—

“नन्नर गहिन गा खड्ड’आ मो-ख्हा गे मालिम कादस, एङ्गपा नू
र’ई अवंगे जुन मो-ख्हदस, एङ्गपा नू मल रहचका होले नन्नर गहि
बझ्यन ए-रा टक’ओस पहें।”

“nannar gahin ga xaṛ'ā mōxā ge mālim kādas, eṛpā nū raṭ
awṅge jun mōxdas, eṛpā nū mal rahackā holē nannar gahi baiyan
ērā ṭak'os pahē.”

अककु करम परब हूँ अंड्सा काला लगी। एकासे ननोस अजला ओरमर गुया असमा बि'ओ रोपनस असमा मल मेकखोस होले बोलवस एसन मो-खागे कालोस। ओ-न्द पे-ठ गहि खो-खम गा मंगर उल्ला करम परब र'ई। पे-ठ गा कानम मनो।

"अना बबु इन्ना ए-न पे-ठ काला लगदन, बरना मंगर नम्हय करम परब ब'आ लगनर। इसुंगद हूँ मूंज्जरकी किरकी र'ई। एकासे असमा मेकखोन अवंगे इदा तनिक मगहद र'ई अदिन पीखत'ओन अरा जोकक पे-ठ सवदा ननोन बर'ओन।"

"एंगागे किचरी मल ओन्दर'ओय चि'ओय बा।"

"खद्दीनुम गा खिन्दका रहचकन हो, अदिन अत्तोय होले मल बन'ओ का।"

"ओरमर पुना-पुना अत्तोर होले ए-न एकला पच्चा अत्तोन का बा।"

"ए-रोन अन्ती बबु।"

अन्ती रोपनस पे-ठ कालर दरा बोलवस गे किचरी, असमा मेकखा खतरी इसुंग अरा बोलवस गे मो-खा गे मिठाई खेन्ददस चि'इदस। इन्दरइम आलोन खेन्ददस खने खेन्दना ती मून्ध आस उरमी बीरी ढिबन गिन'आँ लगियस। आस ए-रा लगियस का ढिबद पूर'ओ का मला। आस इनद्रइम आलोन खेंदोस ओण्टा रुपया आलो गनिका जुककी नन्त'आ लगियस। जुककी मल नंज्जर होले आस नन्ना अड्डा खेन्दागे काला लगियस एसन ओण्टा रुपया केम जुककी नना लगियर।

8 akkū karam parab hū āṛsā kālā lagī. ekāse nanos aulā ormar guyā asmā bi'ō ropnas asmā mal mekkhos holē bolwas esan mōxāge kālos. ōnd pēṭh gahi xōxam ga maṅgar ullā karam parab raī. pēṭh ga kānam manō.

“anā babū innā ēn pēṭh kālā lagdan, barnā maṅgar namhay karam parab ba'ā lagnar. isuṅgad hū muñjrkī kirkī raī. ekāse asmā mekkhon awṅge idā tanik mag'had raī adin pīxt'on arā jokk pēṭh sawdā nanon bar'on.”

“eīggāge kicrī mal ondr'oy ci'oy bā.”

“xaddīnum ga xindkā rahackan hō, adin attoy holē mal ban'ō kā.”

“ormar punā-punā attor holē ēn eklā paccā atton ka bā.”

“ēron antī babū.”

antī ropnas pēṭh kālar darā bolwas ge kicrī, asmā mekkhā khatrī isuṅg arā bolwas ge mōxā ge miṭhāī xēnddas ci'das. indr'im ālon xēnddas khanē xēndnā tī mūndh ās urmī bīrī ḫhiban gin'ā lagiyas. ās ērā lagiyas ka ḫibad pūr'ō ka malā. ās indr'im ālon xēndos oṇṭā rupyā ālō ganikā jukkī nant'ā lagiyas. jukkī mal nañijjar holē ās nannā addā xēndāge kālā lagiyas esan oṇṭā rupyā kem jukkī nanā lagiyar.

रोपनस पे-ठ काला लगियस खने बोलवस एङ्गपा अबङ्गसतिम
बे-चा लगियस। आसिन ब'आ लगियस का बलिन एन्दरअम आलोन
ओत्थरका खो-खा मुच्चके चि'इके। एका - एका उल्ला गा बोलवस
बलिन मुच्चागे मो-धर'आ काला लगियस। अल्लद एङ्गपा नू बच्छरका
उरमी मण्डिन ओना चि'आ लगिया। आस चाँडे - चाँडे इन्दरइम
आलोन ओत्थर'अर दरा बे-चा गे उरखा काला लगियस। अन्ने गा
आस बग्गे बे-चा गे नन्हा तरा मल काला लगियस। आस गा तंगहय
संगियर गने बे-चते कीड़ा अम्म ओनकन मो-धर'आ काला लगियस।
जोकक संगियर बे-चा गे बर'आ लगियर खने गा अम्बा आना,
झितकी खनेम नखल नू धूलिन मण्डी अमखी खट'आ लगियर। पुटुस
अतखन ढिबा कम'आ लगियर। खनेम गा जूड़ी - पाँती खनेम गा
बैंज्जा - बैंज्जा बे-चा लगियर। पाही ननोर दरा ताम - ताम चटुवन
अस्सा - अस्सा अनभनियाँ नला तो-का लगियर। एकासे बीङ्गिद पुत्ता
काला लगिया अदिन हूँ बल्ला लगियर। रोपनस पे-ठ ती किरका
खो-खा बोलवासिन एङ्ग'आ लगियस।

'बोलवा बरा हो एङ्गपा, हूरम बे-चा।'

'काला लगदन बा।'

एन्ने ब'अर दरा बोलवस नलते तो-कते उच्छलारनुम एङ्गपा
काला लगियस। खेड़ड खेकखा उरमी भुसुड़ भुंड़ड मना काला
लगिया बोलवस गहि।

'पे-ठ ती एन्देरा ओन्दरका चिच्चका र'अदय बा। करम गे पुना
किचरी ओन्दरका चिच्चकादय बा।'

'एन्दरन ओन्दर'ओन नीन गा एंगहय कत्थन हूँ मल मेन्दय।'

'एन्दरा मंज्जा दरा बा।'

'एन्दरा मनो का हुदा एरा तो बलिन तिसगदय दरा बे-चा गे
कादय।'

'मो-धरका केरका रहचकन बा, बलिन मुच्चागे।'

'मण्डिन नीन ओण्डकय का।'

ropnas pēṭh kālā lagiyas khanē bolwas erpā abṛastim bēcā lagiyas. āsin ba'ā lagiyas ka balin endra'am ālon ottharkā xōxā mucckē ci'ke. ekā-ekā ullā ga bolwas balin mucčāge mōdhr'ā kālā lagiyas. allad erpā nū baccharkā urmī maṇdin onā ci'ā lagiyā. ās cāṛē-cāṛē indr'im ālon otthr'ar darā bēcā ge urkhā kālā lagiyas. annē ga ās baggē bēcā ge nannā tarā mal kālā lagiyas. ās ga taṅg'hay saṅggiyar gane bēctē kīrā amm-onkan mōdhr'ā kālā lagiyas. jokk saṅggiyar bēcā ge bar'ā lagiyar khanē ga ambā ānā, jhitkī khanem nakhal nū dhūlin maṇdī amxī khat'ā lagiyar. putus atxan ḥibā kam'ā lagiyar. khanem ga jūṛī-pātī khanem ga beñjā-beñjā bēcā lagiyar. pāhī nanor darā tām-tām caṭuwan assā-assā anbhaniyā nalā tōkā lagiyar. ekāse bīrid puttā kālā lagiyā adin hū ballā lagiyar. ropnas pēṭh tī kirrkā xōxā bolwasin er'ā lagiyas.

“bolwā barā hō erpā, hūram bēcā.”

“kālā lagdan bā.”

ennē ba'ar darā bolwas naltē tōktē ucchlārnūm erpā kālā lagiyas. xedđ xekkhā urmī bhusuṛ bhunđđ manā kālā lagiyā bolwas gahi.

“pēṭh tī endrā ondrkā cicckā ra'day bā. karam ge punā kicrī ondrkā cicckāday bā.”

“endran ondr'on nīn ga eṅg'hay katthan hū mal menday.”

“endrā mañjjā darā bā.”

“endrā manō ka hudā erā tō balin tisigday darā bēcā ge kāday.”

“mōdhrkā kerkā rahackan bā, balin mucčāge.”

“maṇdin nīn oṇḍkay kā.”

“मला बा डेडे गरही भंवरा अल्ला कुरचकी रहचा होत’अन ।”

“इदा ए-रा तो हुरमी मण्डिन जुट्ठा नंज्जा चिच्चा ।”

“होले हेबड़दन चि’इदन बा ।”

“एन्देर ननोय अन्ती, हुदिन ओनोय! कला चोतोर गड्ढी नू तुंदके बरके ।”

“चोतोर गड्ढी नू मला बा, कठुत नू तुंदा चि’आ लगदन ।”

“कला अन्ती ।”

अन्ती बोलवस अन्नेम नन्दस। कोको - रोम्बो मनर दरा कट्टु चाकी तुंदा गे हो’ओदस। रोपनस पे-ठ गनिका एन्दर’आनुम बोलवस गे मो-ख़ा गे ओन्दर’आ चि’आ लगियस।

“एखोन बा एंगागे एन्दरा ओन्दरका चिच्चका र’अदय?”

“एन्दरन ओन्दरत’आदय हो। इदा झुला अरा पेंठ!”

“मो-ख़ा गे जुन ब’आ लगदन बा ।”

“इदा ओन्दा मूडही लड्डुन ओन्दरका चिच्चका र’अदन। मे-द’आ - मे-द’आ मो-ख़के ।”

“तनीबुड़ा गा ओनद्रदय बा तेकल मे-द’आ - मे-द’आ मो-ख़ा गे ब’अदय ।”

“एवंदा बग्गे ओन्दर’आ गे ब’अदय हो! डिर्ना बेसे मो-ख़ोय का!”

“अन्ने निंगन ओन्दर’आ गे मल्ला ब’अना बा। मे-द’आ - मे-द’आ मो-ख़ा गे ब’अदय अवंगे जुन ब’आ लगदन बा ।”

“होन्ने ब’अदय होले बरना पे-ठ ती एन्दरा हूँ मल ओन्दर’ओन चि’ओन ।”

“ओनद्रके चि’इके बा, होन्ने मल ब’ओन!”

अन्ति बोलवस अन्नेम नना लगियस। नीकइम हूँ आस गे मो-ख़ा गे चिच्चर होले मे-द’आ - मे-द’अम मो-ख़ा लगियस नना ख़दर बेसे हहरारका बेसे मल मो-ख़ा ओना लगियस। ख़दर एन्देर’आनुम मो-ख़ोर होले ब’आ लगियस:-

“malā bā ɋeđe garhī bhāwrā allā kurckī rahcā hot'an.”

“idā ērā tō hurmī mañđin jułthā nañjā ciccā.”

“holē hebrđan ci'dan bā.”

“ender nanoy antī, hudin onoy! kalā cotor gađđī nū tundkē barkē.”

“cotor gađđī nū malā bā, kaļhut nū tunddā ci'ā lagdan.”

“kalā antī.”

antī bolwas annem nandas. kokō-rombō manar darā kaļtū cākī tunddā ge ho'das. ropnas pēth ganikā endr'ānum bolwas ge mōxā ge ondr'ā ci'ā lagiyas.

“ekhon bā eñggāge endrā ondrkā cicckā ra'day?”

“endran ondrt'āday hō. idā jhulā arā peñth!”

“mōxā ge jun ba'ā lagdan bā.”

“idā ondā mūřhī laddun ondrkā cicckā ra'dan. mēđ'ā-mēđ'ā mōxkē.”

“taniburā ga ondrday bā tekal mēđ'ā-mēđ'ā mōxā ge ba'day.”

“ewndā baggē ondr'ā ge ba'day hō! Ʉirrnā bese mōxoy kā!”

“annē niñggan ondr'ā ge mallā ba'nā bā. mēđ'ā-mēđ'ā mōxā ge ba'day awnge jun ba'ā lagdan bā.”

“honnē ba'day holē barnā pēth tī endrā hǔ mal ondr'on ci'on.”

“ondrkē ci'kē bā, honnē mal ba'on!”

anti bolwas annem nanā lagiyas. nīk'im hǔ ās ge mōxā ge ciccar holē mēđ'ā-mēđ'am mōxā lagiyas nannā xaddar bese hahrārkā bese mal mōxā onā lagiyas. xaddar endr'ānum mōxor holē ba'ā lagiyas—

“इदा ए-रा तो एंग्हय झुला नू हूँ अडडा र’ई।”

अन्ति आस तंग्हय झुला ता थइलन ए-द’आ लगियस। पहें चि’आ मल ब’आ लगियस। आस ने’आं मो-खा गे बल्ला लगियस, आस गे लग्गा लगिया का नेचका ती हूँ मल चिच्वर होले एकासे लग्गो, अवंगे आस मल ने’आं लगियस। मल चिच्वर होले आस गहि जिया कया एत्ता काला लगिया। आस असन ने-कन हूँ एन्देर हूँ मल ब’आ लगियस। एडपा कालर दरा तम्बासिन तेंगा लगियस।

‘बा नीन ब’अदय का एन्देर’आनुम हूँ खटर’आ - खटर’आ मो-खा खने कूल चाँडे उड’ई अरा बग्गे एम्बा लग्गी, ए-न गा ओरमर गे खट्टदन पहें एंगागे ने- हूँ मल चि’इनर। बा एन्देर आर गहि कूलद उड्डई होत’अन।’’

‘आर गहि कूलद मल उड’ई, बबु।’’

‘होले गा ए-न उरमिन खट्टा - खट्टा मो-खोन।’’

‘निंगागे हूँ बच्छाब’अके, उरमिन अमके मुंज्जा चि’आगे।’’

‘नीनिम गा खट्टा मो-खागे ब’अदय बा।’’

‘उरमिन खट्टागे थोरे आना लगदन।’’

तंगदस गहि कत्थन मेनर दरा आसिन रफ ले पाकदस अरा ब’अदस:-

‘नीन गा उर्मिन अखदय, पहें नीन अन्ने अमके नना। चि’ओर होले इंझिरके मल चि’ओर होले अमके ने’आं।’’

‘ए-न ने-खय ती हूँ मल ने’एदन बा। पहें एंग्हय हेद्दे र’ई खने ओरमर गे खट्टदन मो-खदन।’’

अककु करम गे दुई उल्ला बच्छरकी र’ई। रोपनस गुण्डा हूँ मल खूँसका र’अदस।

‘अना बा नाम करम उल्ला असमा मल मेकखोत? ’’

‘गुण्डा हूँ मल्ला खूँसका हो।’’

‘होले असमा बा।’’

“idā ērā tō eṅg’hay jhulā nū hū aḍḍā ra’ī.”

anti ās taṅg’hay jhulā tā thailan ēd’ā lagiyas. pahē ci’ā mal ba’ā lagiyas. ās ne’ā mōxā ge ballā lagiyas, ās ge laggā lagiyā ka nēckā tī hū mal ciccar holē ekāse laggō, awṅge ās mal ne’ā lagiyas. mal ciccar holē ās gahi jiyan̄a kayā ettā kālā lagiyā. ās asan nēkan hū ender hū mal ba’ā lagiyas. eṛpā kālar darā tambasin teṅggā lagiyas.

“bā nīn ba’day ka endr’ānum hū xatr’ā-xatr’ā mōxā khane kūl cārē ur’ī arā baggē embā laggī, ēn ga ormar ge xat̄dan pahē eṅggāge nē hū mal ci’nar. bā ender ār gahi kūlad ur’ī hot’an.”

“ār gahi kūlad mal ur’ī, babū.”

“holē ga ēn urmin xat̄ā-xat̄ā mōxon.”

“niṅgāge hū bacchāba’kē, urmin amkē muñjā ci’āge.”

“nīnim ga xat̄ā mōxāge ba’day bā.”

“urmin xat̄āge thorē ānā lagdan.”

taṅgas gahi katthan menar darā āsin raph lē pākdas arā ba’das—

“nīn ga urmin axday, pahē nīn annē amkē nanā. ci’or holē ījhirkē mal ci’or holē amkē ne’ā.”

“ēn nēkhay tī hū mal ne’dan bā. pahē eṅg’hay heddē ra’ī khanē ormar ge xat̄dan mōxdan.”

akkū karam ge duī ullā baccharkī ra’ī. ropnas guṇḍā hū mal xūskā ra’das.

“anā bā nām karam ullā asmā mal mekkhot?”

“guṇḍā hū mallā xūskā hō.”

“holē asmā bā.”

‘‘ਮੇਕਖੋਤ, ਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਨਗਦ ਬਿੜ’ਆ ਲਗੀ ਆਬਦਾ ਖੈਦ’ਆਦਨ।
ਨੇ-ਲਾ ਸੋਮਮਰ ਹਿਕੇ, ਨੇ-ਲਾ ਪਈਈ ਚੁੱਜਜੋਤ ਦਰਾ ਨੇ-ਲਮ ਪੁਤਬੀਰੀ ਗੁਣਡਾ
ਖੋਂਸੋਤ।’’

‘‘ਹੋਲੇ ਈ ਪਾਲੀ ਅਸਮਾ ਬਾਰੋਤ ਬਾ।’’

‘‘ਅੰਨ੍ਹੇਮ ਜੁਨ ਘੋੜਾ ਆ ਲਗਦਨ ਹੋ।’’

‘‘ਈ ਪਾਲੀ ਗਾ ਏ-ਨ ਹੁੱ ਕਰਮ ਖਣਡ੍ਡਾ ਗੇ ਕਾਲੋਨ ਬਾ।’’

‘‘ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਕਰਮ ਖਣਡ੍ਡਾ ਗੇ ਕਾਨਰ ਹੋ ਏਕਾਸੇ ਕਾਲੋਧੀ।’’

‘‘ਏ-ਨ ਏਕਲਾ ਥੋਰੇ ਕਾਲੋਨ ਕਾ ਬਾ।’’

‘‘ਕਰਮ ਖਣਿਕਾ ਖੋ-ਖਾ ਏਡ਼ਪਾ ਕਿਰਾ ਗੇ ਮਲ ਏਲਚੋਧ ਹੋ।’’

‘‘ਮਾਖਾ ਬੀਰੀ ਏਡ਼ਪਾ ਮਲ ਬਰ’ਓਨ ਬਾ ਭਵਰ ਮਾਖਾ ਕਰਮ
ਨਲੋਨ।’’

‘‘ਅਜਮ ਰਸਿਕਾ ਰ’ਅਦਦ ਹੋ।’’

‘‘ਓਰਮਰ ਨਲੋਰ ਹੋਲੇ ਮਲ ਨਲੋਨ ਕਾ ਬਾ।’’

‘‘ਕਾਲੋਧੀ ਜੁਨ ਅੰਤੀ। ਬਰਨਾ ਬਚ਼ਰ ਓਣਟਾ ਨਿੰਗਾਗੇ ਖੇ-ਲ
ਕਮਤ’ਓਨ ਚਿ’ਓਨ।’’

‘‘ਖੇ-ਲ ਕਮਤਾਚਕਦ ਹੋਲੇ ਗਾ ਬਾ ਅਖੜਾ ਤਾ ਧੂਲਿਨ ਚੋ-ਦ’ਓਨ
ਚਿ’ਓਨ।’’

‘‘ਛੋਟੇ ਬੁੜਾ ਰ’ਅਦਦ ਪਹੋਂ ਅਨਾਇਤ ਕੋਹੱ - ਕੋਹੱ ਕਚ਼ਨਖਰਦਦ
ਹੋ।’’

‘‘ਰਿੜਾ ਲਗਗੇ ਹੋਲੇ ਮਲ ਨਲੋਧੀ ਤੋ-ਕੋਧ ਕਾ ਬਾ।’’

‘‘ਮਾਨਿਮ ਬਬੁ ਨਿੰਗਾਗੇ ਬਰਨਾ ਬਚ਼ਰ ਸਨੀ ਏਸਨ ਖੇ-ਲ ਕਮਤ’ਓਨ
ਚਿ’ਓਨ।’’

“mekkhōt, idā innā nagad bīr'ā lagī ābdā xaid'ādan. nēlā sommar hike, nēlā pairī cuñjjot darā nēlam putbīrī gunḍā xōsot.”

“holē ī pālī asmā bārot bā!”

“annem jun ghokh'ā lagdan hō.”

“ī pālī ga ēn hū karam khaṇḍdā ge kālon bā.”

“māxā bīrī karam khaṇḍdā ge kānar hō ekāse kāloy!”

“ēn eklā thorē kālon ka bā.”

“karam khaṇḍikā xōxā erpā kirrā ge mal elcoy hō.”

“māxā bīrī erpā mal bar'on bā bhair māxā karam nalon.”

“ajam rasikā ra'day hō.”

“ormar nalor holē mal nalon ka bā.”

“kāloy jun antī. barnā bacchar oṇṭā niṅgāge xēl kamt'on ci'on.”

“xēl kamtāckay holē ga bā akhrā tā dhūlin cōd'on ci'on.”

“choṭe burā ra'day pahē anāit kohā-kohā kacchnakhrday hō.”

“rijh laggō holē mal naloy tōkoy ka bā.”

“mānim babū niṅgāge barnā bacchar sannī esan xēl kamt'on ci'on.”

अन्ती ए-रते - ए-रते करम परब अङ्गिया केरा। एका -
एकासे बीड़ी पुता लगिया का करम चन्दो गहि अरगना मना लगिया।
एवंदा दव एन्ने लगा लगिया का चन्दो करम बे-चा गे सपड़ारा दरा
अरगा लगी। एकासे बीड़िद पुतिया चन्दो अरगर दरा गोट्टा सौंसेन
बिल्ली नना लगिया। बीड़ी पुतका खो-ख़ा केरमे - केरमे पद्धन्ता
जोंख़र खे-ल, डम्बुवा अरा घंट नन ओथर'आ लगियर। नन्ना तरा
चेंड़ा कुकेर पूँप तोकखा गे काला गे सपड़ार'आ लगियर। ओरमर
गुया पुतबीरितिम छिरका असमा खनेम बारिका असमा मेक्खा
लगियर। पद्धन्ता मे-तर तंग'आ - तंग'आ खे-लनन सिंगर'आ
लगियर। होरमर गुया करम पाही बरचका रहचर। पहें रोपना गर
गुया ने- हूँ पाही मल बरचका रहचर।

“अना बा नम्हय गुया पाही ने- हूँ मल बर'ओर!”

‘ने- बर'ओर हो पाहियर दिम मलिकर तो, र'अनर आर हूँ गा
निन अज्जी गर तेरम कानर।’

‘होले नम्हय तरा अन्ती।’

‘ने-ला बर'ओर जुन हो।’

“ओरमर गुया गा इन्नम बरचर बा।”

ओरमर गुया पहियारिन ए-रा लगियस अवंगे बोलवस गे दव
मल लगा लगिया। आस गे लगा लगिया का ओण्ट'आकेम पाहियर
आर गहि एङ्गपा नू बरचका होले आस गे कोड़े लग्गो पहें। गोट्टा
पद्धा ता कुक्कोर - कुकेर गा ओरमर तम्हय - तम्हय पाहियर संगे
कुद्धा नुंगा लगियर, पहें बोलवस एन्देर ननोस। आस अउला ने-खय
गने बे-चोस का कुद्दोस। बोलवा तड़िग्योद रहचका होले पाहिर
बर'ओर जुन पहें। पाहियर हूँ बर'ओर होले आरगे ने- सुसुर'ओ
चि'ओ। अवंगे आर गुया पाही ने- हूँ मल बरचर। बोलवस पुतबीरी
गूठी पाहियर गहि आसेपैङ्गा ए-रा लगियस। नन्नर गहि पाहियारिन
ए-रा लगियस खने आस गे लगा लगिया का एम्हय गुयम बर'आ
लगनर। अन्ती अबङ्गर हूँ आर गहि एङ्गपा तरकूँटी ती कट्टा काला
लगियर। बोलवस गे गा दव मल लगा लगिया पहें एन्देर ननोस,
पाहियर गहि आसेपैङ्गा ए-रते बीड़िद पुतिया केरा।

antī ērtē-ērtē karam parab āṛsiyā kerā. ekā-ekāse bīṛī puttā lagiyā ka karam candō gahi argnā manā lagiyā. ewndā daw ennē laggā lagiyā ka candō karam bēcā ge saprārā darā argā lagī. ekāse bīṛid puttiyā candō argar darā goṭṭā saūsen billī nanā lagiyā. bīṛī puttakā xōxā kermē-kermē paddantā jōxar xēl, ḳambuwā arā ghaṇṭ nan othr'ā lagiyar. nannā tarā cēṛā kuker pūp tokkhā ge kālā ge saprār'ā lagiyar. ormar guyā putbīṛītim chirkā asmā khanem bārikā asmā mekkhā lagiyar. paddantā mētar taṅgg'ā-taṅgg'ā xēlnan siṅgr'ā lagiyar. hormar guyā karam pāhī barckā rahcar. pahē ropnā gar guyā nē hū pāhī mal barckā rahcar.

“anā bā namhay guyā pāhī nē hū mal bar'or!”

“nē bar'or hō pāhiyar dim malikar tō, ra'nar ār hū ga nin ajjī gar taram kānar.”

“holē namhay tarā antī.”

“nēlā bar'or jun hō.”

“ormar guyā ga innam barcar bā.”

ormar guyā pahiyārin ērā lagiyas awṅge bolwas ge daw mal laggā lagiyā. ās ge laggā lagiyā ka onṭ'ākem pāhiyar ār gahi erpā nū barckā holē ās ge korē laggō pahē. goṭṭā paddā tā kukkor-kuker ga ormar tamhay-tamhay pāhiyar saṅggē kuddā nuṅggā lagiyar, pahē bolwas ender nanos. ās aulā nēkhay gane bēcos ka kuddos. bolwā taṅgiyod rahackā holē pāhir bar'or jun pahē. pāhiyar hū bar'or holē ār ge nē susur'ō ci'ō. awṅge ār guyā pāhī nē hū mal barcar. bolwas putbīṛī gūṭī pāhiyar gahi āsēpaīṛā ērā lagiyas. nannar gahi pāhiyārin ērā lagiyas khanē ās ge laggā lagiyā ka emhay guyam bar'ā lagnar. antī abṛar hū ār gahi erpā tarkūṭī tī kaṭṭā kālā lagiyar. bolwas ge ga daw mal laggā lagiyā pahē ender nanos, pāhiyar gahi āsēpaīṛā ērtē bīṛid puttiyā kerā.

“अना बा ए-न इन्नम पुना किचरिन अत्तोन का!”

“अककुन अत्तोय होले निंगन ने- हर ए-रोर हो।”

“होले ने-ला एका बीरी अत्तोन बा!”

“पईरी चाँडे बरके, पुना किचरिन आ बीरिम अत्तोय।”

“बन’ओं बा।”

“अदा काला लगनर किका बबु, खे-लद - डम्बुवद ख्वरख्वा
लगी।”

“होले ए-न कालोन अन्ती बा!”

“कला जुन अन्ती, ए-न असमा मिक्खका र’ओन।”

इवरम बाचस का मला बोलवस एङ्गपा ती चिच्चयारते उरखस।
बोलवस ब’आ लगियस:-

“चन्दो बिल्ली टह - टह,

गजङ्ग गुर्ज पह - पह।”

एन्ने ब’अते बोलवस उच्छलारनुम बोंगते करम खण्ड्डु कुककोर
तरा चाईल केरस। अरा आर संगे नला तो-का गे ओ-रे नंज्जस
चिच्चस। गोट्टा माखा बोलवस अखडा तरम रहचस। बीड़ी अरगना
ती मूँच्ध बोलवस एङ्गपा किरियस।

“बा बलिन तिसा’आ।”

“anā bā ēn innam punā kicrin atton kā!”

“akkun attoy holē niñggan nē har ēror hō.”

“holē nēlā ekā bīrī atton bā!”

“paírī cārē barkē, punā kicrin ā bīrim attoy.”

“ban'ō bā.”

“adā kālā lagnar kikā babū, xēlad-đambuwad xarxā lagī.”

“holē ēn kālon antī bā!”

“kalā jun antī, ēn asmā mikkhkā ra'on.”

iwram bācas ka malā bolwas erpā tī ciccyārtē urkhas.

bolwas ba'ā lagiyas—

“candō billī ṭah-ṭah,

gajaṛ gurr pah-pah.”

ennē ba'te bolwas ucchlārnūm boñggtē karam khañḍḍū
kukkor tarā cāil keras. arā ār sañggē nalā tōkā ge ḥorē nañijas
ciccas. gotṭā māxā bolwas akhrā taram rahcas. bīrī argnā tī
mündh bolwas erpā kirriyas.

“bā balin tisg'ā.”

९ रोपनस खँन्दर'आ लगियस अवंगे ओगहोनुम जंजकरका केरका रहचस। अरा खँन्दरका ती बोलवस गहि गूलनन मेनर दरा निजिडियस केरस। रोपनस गा अदहा अदही माख्खा गूटी असमा मेकखा लगियस अवंगे तनिक दिरी ती चूतका रहचस। अवंगे आस ख़े-रद चीखिया अदिन हूँ बल्लस। बोलवस गहि कत्थन मेनर दरा ओरखआगे पोलदस अरा ओंगहोनुम ब'अदस।

“ने- हिककदर हरो।”

“ए-न हिकदन बा।”

“अककुन बर'आ लगदय अन्ती बबु।”

“गोट्टा माख्खा नलिकन अन्ती, चिआ बा पुना किचरिन ए-न अउर अखड़ा कालोन।”

“जोकक बेड़ा खँन्दर'आ हो।”

“मला बा ए-न अखड़ा कालोन।”

“इदा ओन्दा।”

बोलवस पुना किचरिन अत्तर दरा अखड़ा तरा उरखदस कादस। नला गे गा मल नलियस। आस गा गोट्टा माख्खा नलियस कि उच्छियस केरस। अखड़ा गहि तरकूटी नू कालर दरा नलू आलारिन ए-रदस, खनेम गा नन्ना ख़द्दर गहि अत्तिका पुन्दरका किचरिन ए-रदस। खनेम गा तंगहय किचरिन ए-रदस। बोलवस गे लग्गा लगी का आस गहि पुना किचरी बेसे ने-खय किचरिद हूँ मलकी।

9 ropnas xandr'ā lagiyas awnge oñg'honum jañjkarkā kerkā rahcas. arā xandrkā tī bolwas gahi gūlnan menar darā nijriyas keras. ropnas ga ad'hā ad'hī māxā gūtī asmā mekkhā lagiyas awnge tanik dirī tī cūtkā rahcas. awnge ās xērad cīxiyā adin hū ballas. bolwas gahi katthan menar darā orkh'äge poldas arā oñg'honum ba'das.

“nē hikdar harō.”

“ēn hikdan bā.”

“akkun bar'ā lagday antī babū.”

“goṭṭā māxā nalikan antī, ci'ā bā punā kicrin ēn aur akhṛā kālon.”

“jokk berā xandr'ā hō.”

“malā bā ēn akhṛā kālon.”

“idā ondā.”

bolwas punā kicrin attar darā akhṛā tarā urkhdas kādas. nalā ge ga mal naliyas. ās ga goṭṭā māxā naliyas ki ucchiyas keras. akhṛā gahi tarkūtī nū kālar darā nalū ālarin ērdas, khanem ga nannā xaddar gahi attikā pundarkā kicrin ērdas. khanem ga tañg'hay kicrin ērdas. bolwas ge laggā lagī ka ās gahi punā kicrī bese nēkhay kicrid hū malkī.

इत्तरा रोपनस गे गा नला काला गा तुक्का लगी पहें अड्डोन हूँ गा ए-रना र'ई। ने- आस गहि अड्डोन खापो चिओ। अखड़ा हूँ आस गे काना र'ई। पईरी बीरी रोपनस फुसरा गहि पादा नू अड्डोन जो-ड़ा ती खुट'अर दरा अदी गे खोस्सका घाँसिन चिइदस। मालिम सहारा खने गा रोपनस ओण्टा दंती कूमनन किचरी ती मे-ढचस चिच्चस दरा अनु टंगना कमचस। अदि गहि खो-ख्या आस नला गे अखड़ा चाईल केरस। ओरमर खेलन डम्बुवन अस्सा लगनर खने रोपनस कूमन खेल अस्सना बेसे मंज्ज - मंज्ज अनभनियाँ नलियस तो-कियस। अरगी उच्छना गूठी आस अखड़ा नू नलियस दरा नलिका बिच्चका खो-ख्या बोलवासिन एडपा होच्चस दरा केरस। बोलवस असमा मो-ख्वर दरा अड्डोन बिच्छरस दरा टोंकका तरा होच्चस केरस। इत्तरा रोपनस नन्नर गहि एडपा नू काला - काला झरा ओना लगियस। रोपनासिन ए-रा खने गा लग्गा लगिया का एडपा नू आस गे एन्दरा गहि हूँ घोक मलकी। निफिकिर कुद्दा - कुद्दा झरन ओना लगियस अरा डण्डिन पाड़ा लगियस।

"अड्डोन एन्ने चाँडे ओन्दर'आ लगदय हो।"

"लोहाड़ी मंज्जा बा।"

"ओण्डका बौड़हा ती एन्दरन हूँ बल्ला लगदन हो।"

"एसन ओण्डकय दरा बा।"

"एन्ने मे ने-खय मला ने-खय गुया कालर दरा ओण्डकन हो, इन्ना करम बासी हिके खने झरा - झरा मल खखर'ओ।"

"होन्ने अमके ओना बा।"

"बड़ेत नू करम बर'ई हो खने अमके ओना ब'अदय। उरमी उल्ला गा मालिम ओन्दन।"

"ए-न असमा मो-ख्या लगदन बा।"

"मो-ख्या जुन अन्ती हो, डौड़ा नू एरके बरिका असमा हूँ र'ई।"

"एवंदा बग्गे मो-खोन बा, इदा छिरका असमा हूँ र'ई।"

ittrā ropnas ge ga nalā kālā ga tukkā lagī pahē ađđon hū ga ērnā ra'ī. nē ās gahi ađđon xāpō ci'ō. akhṛā hū ās ge kānā ra'ī. pairī bīrī ropnas phusrā gahi pādā nū ađđon jōṛā tī khuṭ'ar darā adi ge xosskā ghāsin ci'das. mālim sahārā khanē ga ropnas oṇṭā dantī-kūmnān kicrī tī mēṛhcas ciccas darā annū ṭaṅgnā kamcas. adi gahi xōxā ās nalā ge akhṛā cāil keras. ormar xēlan ḳambuwan assā lagnar khanē ropnas kūman xēl assnā bese mañj-mañj anbhaniyā naliyas tōkiyas. argī ucchnā gūtī ās akhṛā nū naliyas darā nalikā bicckā xōxā bolwasin erpā hoccas darā keras. bolwas asmā mōxar darā ađđon bicchras darā ṭoṇkkā tarā hoccas keras. ittrā ropnas nannar gahi erpā nū kālā-kālā jharā onā lagiyas. ropnasiñ ērā khanē ga laggā lagiyā ka erpā nū ās ge endrā gahi hū ghok malkī. niphikir kuddā-kuddā jharan onā lagiyas arā ḳaṇḍin pāṛā lagiyas.

“ađđon ennē cāṛē ondr'ā lagday hō.”

“lohāṛī mañjjā bā.”

“oṇḍkā bauṛhā tī endran hū ballā lagdan hō.”

“esan oṇḍkay darā bā.”

“ennem nēkhay malā nēkhay guyā kālar darā oṇḍkan hō, innā karam bāsī hike khanē jharā-jharā mal xakhr'ō.”

“honnē amkē onā bā.”

“baṛet nū karam bar'ī hō khanē amkē onā ba'day. urmī ullā ga mālim ondan.”

“ēn asmā mōxā lagdan bā.”

“mōxā jun antī hō, ḳauṛā nū ērkē barikā asmā hū ra'ī.”

“ewndā baggē mōxon bā, idā chirkā asmā hū ra'ī.”

“उरमिन मुंज्जा ओङ्गोय का हो, ओङ्गना भईर जुन
ओत्थर‘आ।”

“ने-ला गे तिस्सो कालो होले!”

“मल तिस्सो हो।”

बोलवस कूल उड़ना गूटी असमन मो-ख्रदस। खनेम बारिका
असमन खनेम छिरका असमन। नन्ना उल्ला हूँ असमन दिम
मोक्खस। असमा गहि र‘अना गूटी गा बोलवस मण्डी दिम मल
ओण्डस।

“urmin muñjā oñgoy ka hō, oñgnā bhair jun otthr'ā.”

“nēlā ge tissō kālō holē!”

“mal tissō hō.”

bolwas kūl uṛnā gūṭī asman mōxdas. khanem bārikā asman
khanem chirikā asman. nannā ullā hū asman dim mokkhas. asmā
gahi ra'nā gūṭī ga bolwas maṇḍī dim mal oṇdas.

१० अक्कु बोलवस सय बछर गहि मंज्जस केरस। आस अख्खदस का आस गहि हुर्मी संगियर लूरकुड़िया कानर। बोलवस गे हूँ काला गा तुककी पहें तम्बस सन्नी र'अदस ब'अर आसिन लूरकुड़िया काला गे मल चिआ लगियस। एन्देरगे का बेन्दड़ा पद्दा ती लूरकुड़िया नाख़ कोस गेच्छा रहचा।

‘बबू निंगन ए-न बरना बच्छर ती लूरकुड़िया तइय्योन इदना खें-द अम्बा कला।’

‘ओर्मा खद्दर लूरकुड़िया कानर, एतवा अरा बुधवासिन ए-रा तो, बुधवस गा एंहय ती सन्नी र'अदस, अन्नु हूँ आस लूरकुड़िया कादस।’

‘बुधवासिन एतवस हो’ओते कादस अवंगे बुधवस गे काला बर'आ गे बेङ्हा मल लग्गी। निंगन ने- धर'ओ हो'ओ।’

‘होले ए-न बुधवस गहि खेक्खन ओन तरा धर'ओन दरा कालोन। पहें इद्नातिम कालोन बा।’

‘ने-ला बिफाइ हिके ए-न ने-ला पे-ठ कालोन दरा निंगागे पटी अरा पिलसुर ओन्दर'ओन चिआन, पहें हुर्मी उल्ला निंगागे लूरकुड़िया काना मनो।’

‘ए-न कालोन बा।’

अन्ति बिफाइ उल्ला रोपनस पे-ठ नू बोलवस गे झुला, पेंठ अरा पटी पिलसुर खिंन्दियस। अरा बोलवस गे मूङ्हही गहि ढेंबन हूँ खें-दा गे मल मो-धरस। बोलवस अउला एड्पा अबड़ातिम बुधवा गर संगे बे-चा लगियस। ओरमारिन तेंगा लगियस का:-

‘इन्ना एम्बस एंगा गे पटी, पिलसुर अरा झुला पेंठ ओन्दर'ओस चिआस। अरा ए-न ने-ला ती लूरकुड़िया कालोन।’

अउला बोलवस पे-ठ काना डहरे तरम बे-चा लगियस। अरा तम्बस गहि बरना गहि आसेपैङ्गा ए-रा लगियस। अन्ति रोपनस पुत्तना बेङ्हा नू ओण्टा बौंस गहि सोट्टा नू खो-खा तरा थइलन चेड़‘अर दरा एड्पा किर्रियस। बोलवस आसिन ए-रियस दरा बोंगगते - बोंगगते केरस-

10 akkū bolwas say bachar gahi mañjjas keras. ās axdas ka ās gahi hurmī sañggiyar lūrkuriyā kānar. bolwas ge hū kālā ga tukkī pahē tambas sannī ra'das ba'ar āsin lūrkuriyā kālā ge mal ci'a lagiyas. enderge ka bendrā paddā tī lūrkuriyā nāx kōs gecchā rahcā.

“babū niñggan ēn barnā bacchar tī lūrkuriyā taiyyon idnā xōnd ambā kalā.”

“ormā xaddar lūrkuriyā kānar, etwā arā budhwasin ērā tō, budhwas ga eñg'hay tī sannī ra'das, annū hū ās lūrkuriyā kādas.”

“budhwasin etwas ho'te kādas awīge budhwas ge kālā bar'ā ge berhā mal laggī. niñggan nē dhar'ō ho'ō.”

“holē ēn budhwas gahi xekkhan ḥn tarā dhar'on darā kālon. pahē idnātim kālon bā.”

“nēlā biphāi hike ēn nēlā pēth kālon darā niñggāge paṭī arā pilsur ondr'on ci'on, pahē hurmī ullā niñggāge lūrkuriyā kānā manō.”

“ēn kālon bā.”

anti biphāi ullā ropnas pēth nū bolwas ge jhulā, pen̄th arā paṭī pilsur xinddiyas. arā bolwas ge mūrhī gahi ḫhemban hū xēdā ge mal mōdhras. bolwas aulā erpā abṛātim budhwā gar sañggē bēcā lagiyas. ormarin teñggā lagiyas kā—

“innā embas eñggā ge paṭī, pilsur arā jhulā pen̄th ondr'os ci'os. arā ēn nēlā tī lūrkuriyā kālon.”

aulā bolwas pēth kānā ḫahrē taram bēcā lagiyas. arā tambas gahi barnā gahi āsēpañrā ērā lagiyas. anti ropnas putnā berā nū onṭā bās gahi soṭṭā nū xōxā tarā thailan cer'ar darā erpā kirriyas. bolwas āsin īriyas darā boñggtē-boñggtē keras—

‘‘बा एखो एंगहय पटी पिलसुर ?’’

‘‘इदा थइला नू र’ई, निंगागे झुला अरा पेन्ठ हूँ ओन्दरका
चिच्चका र’अदन। मून्ध ओन्दा मूङ्ही लड्डुन मोक्ख लिघह’आ।’’

‘‘मुन्ध एंगा पटी अरा पिलसुर चि’आ। मूङ्ही लड्डुन खो-खा
मो-खोन।’’

‘‘इदा ए-रा तो निंगागे पुना किचरी।’’

‘‘इवंदा दव र’ई बा, झुला नू गा छपा हूँ र’ई।’’

‘‘अत ए-रा तो कोहाँ मनी का सन्नी मनी।’’

‘‘बन’ओ हुइत बा।’’

‘‘अत ए-रा ब’आ लगदन खने।’’

‘‘इदा गा बंचा बा।’’

‘‘एवंदा दव ए-तथर’आ लगदय बबु।’’

‘‘सच्छेम बा।’’

‘‘मानिम बबु। अककुन ओत्थर’आ चि’आ महले मङ्गखो कालो।’’

‘‘ए- घडी अत्ता चि’आ बा।’’

‘‘ने-ला अत्तोय हो।’’

‘‘ओत्थर’आ लगदन अन्ती।’’

‘‘चि’आ उइदन चि’इदन।’’

‘‘ओन्दा बा।’’

‘‘ओन्दा हो मूङ्ही मोक्ख लिघह’आ।’’

‘‘मला बा ए-न अककुन मल मो-खोन।’’

‘‘एका बीरी मो-खोय अन्ती।’’

‘‘मो-खोन जुन, एक’अम बीरी।’’

‘‘एन्ने अख्ना होले मल ओन्दर’ओन चि’ओन पहें।’’

‘‘मो-खोन बा उइय्या चि’आ। इदा पटी पिलसुर हूँ अनाइत दव
र’ई बा, पिलसुर नन हूँ रंग बिरंग मदहे ओन्दरका र’अदय बा।’’

“bā ekhō eīg'hay paṭī pilsur?”

“idā thailā nū raī, niñggāge jhulā arā penṭh hū ondrkā cicckā ra'dan. mūndh ondā mūṛhī laḍḍun mokkh liñghi'ā.”

“mūndh eīggā paṭī arā pilsur ci'ā. mūṛhī laḍḍun xōxā mōxon.”

“idā ērā tō niñggāge punā kicrī.”

“iwndā daw raī bā, jhulā nū ga chapā hū raī.”

“att ērā tō kohā manī ka sannī manī.”

“ban'ō huit bā.”

“att ērā ba'ā lagdan khanē!”

“idā ga bañcā bā.”

“ewndā daw ētthr'ā lagday babū.”

“sacchem bā.”

“mānim babū. akkun otthar'ā ci'ā mahlē maṛxō kālō.”

“ē ghaṛī attā ci'ā bā.”

“nēlā attoy hō.”

“otthar'ā lagdan antī.”

“ci'ā uidan ci'dan.”

“ondā bā.”

“ondā hō mūṛhī mokkh liñghh'ā.”

“malā bā ēn akkun mal mōxon.”

“ekā bīrī mōxoy antī.”

“mōxon jun, eka'am bīrī.”

“ennē axnā holē mal ondr'on ci'on pahē.”

“mōxon bā uiyyā ci'ā. idā paṭī pilsur hū anāit daw raī bā,
pilsur nan hū raṅg biraṅg madhhē ondrkā ra'day bā.”

अन्ति बोलवस पटी नू ओ-ड़ा खनेम एन्दरा मला एन्दरा
कम'आ हेलरस। इन्ना बोलवस मूङ्ही लड्डुन मल मो-खोस। आस
गहि कूलद गा पटी पिलसुर नन ए-रा खनेम रिझ ती उड़चा केरा।
इन्ना बोलवस गहि रिझ नन्नम ए-थर'आ लगिया। एन्देरगे का बोलवस
ने-ला ती लुरकुड़िया काला गे ओ-रे ननोस चिओस। तम्बस खुड़ती
बीरी ता मण्डिन खट'आ गे चाँडे - चाँडे चिच्च ओद्दस दरा कट्टुन
लदचस।

“इकिया केरकय बा इदा कट्टूद चड़किया।”

“बर'आ लगदन हो, इदा कचरा कंकक जुन ओन्दर'आ गे
केरका रहचकन।”

“झुरिद मुंज्जरा का बा।”

“मुंज्जरा अवंगेम जुन कचरा कंकक नन ओन्दर'आ गे केरका
रहचकन।”

“एन्देर अमखिन इरतोय अन्ती बा।”

“तनिक सरला सुकटी र'ई, इदीनुम अम्बड़ी सजदन किका।”

“सरला सुकटी ती एकला मनो बा?”

“अंगोर नन इरचा तो गोड़ नाख़ ठू अलुवन माड़दन
चि'इदन।”

“अलुवा नू गा बा बेरख़द इरख़की र'ई।”

“ई बेरख़ा गे हूँ एरख़ागे अड्डा हूँ मल ख़क्खर'ई किका।”

“ए-न गा मण्डी मल ओनोन बा।”

“एन्देरगे हो, बेरख़ा इरख़की र'ई अवंगे।”

“नो-ड़ोन दरा कुड़ोन हो।”

“मला बा एंगा कीड़ा मल लगा लगी।”

“इदा मण्डिद बिच्चा केरा हो। गुच्छर'आ तो तनिक, ए-न
मण्डिन पीसदन।”

“हुसानुम पीसा नी बा एंगा चो'आ मल तुक्का लगी।”

“गुच्छर'आ चप्पा महले इदा मण्डी गिला मनो कालो।”

“इदा अलुवद हूँ गा बिच्चा केरा बा।”

“ओत्थर'आ हो महले ओ-लो कालो।”

anti bolwas paṭī nū ḍorā khanem endrā malā endrā kam'ā helras. innā bolwas mūrhī laḍdun mal mōxos. ās gahi kūlad ga paṭī pilsur nan ērā khanem rijh tī uṛcā kerā. innā bolwas gahi rijh nannam ētthrā lagiyā. enderge ka bolwas nēlā tī lurkuriyā kālā ge ḍorē nanos ci'os. tambas xuṛtī bīrī tā maṇḍin khaṭā ge cāṛē-cāṛē cicc oddas darā kaṭṭun ladcas.

“ikyā kerkay bā idā kaṭṭūd căṛkiyā.”

“bar'ā lagdan hō, idā kacrā kaṇkk jun ondr'ā ge kerkā rahackan.”

“jhurid muñjrā ka bā.”

“muñjrā awīgem jun kacrā kaṇkk nan ondr'ā ge kerkā rahackan.”

“ender amxin irtoy antī bā.”

“tanik sarlā suktī raṭī, idinum ambrī sajdan kikā.”

“sarlā suktī tī eklā manō bā?”

“aṅgor nan ircā tō gor-nāx ṭhū aluwan māṛdan ci'dan.”

“aluā nū ga bā berxad irxkī raṭī.”

“ī berxā ge hū erxāge aḍḍā hū mal xakkhrī kikā.”

“ēn ga maṇḍī mal onon bā.”

“enderge hō, berxā irxkī raṭī awīnge.”

“nōṛon darā kuṛon hō.”

“malā bā eṅgā kīṛā mal laggā lagī.”

“idā maṇḍid biccā kerā hō. gucchrā tō tanik, ēn maṇḍin pīsdan.”

“husanum pīsā nī bā eṅgā co'ā mal tukkā lagī.”

“gucchrācappā mahlē idā maṇḍī gilā manō kālō.”

“idā aluwad hū ga biccā kerā bā.”

“otthrā hō mahlē ōlō kālō.”

“इदा बा ओण्टा अलुवा गा उल्लिया दरा खोरखोरा मंज्जा
केरा।”

“अवंगेम जुन चाँडे - चाँडे ओत्थर’आ ब’आ लगदन हो।”

“ए-न अलुवन सनदन बा।”

“सन’आँ पहें बे-कन बग्गे अमके सज’आ, महले खड़ख्वो
कालो।”

“ए-न अख्व’आ लगदन बा।”

“बरा इदा मण्डी ओत्थर’आ लगदन।”

“एंगा बग्गे मण्डी अमके चिंआ बा। सरला अमखिन हूँ मल
मो-ख्वोन।”

“तनी बुड़ा मोक्ख ए-रा तो एकासे लगी।”

“मला बा ए-न अलुवा संग्गे एकला ओनोन।”

“नीन मो-खोय बाचकन दरा सरला नू बग्गे अमड़ी
सज्जकन।”

अन्ती बोलवस खुड़ती बीरी मण्डिन बग्गे मल ओण्डस। चूतो
बीरी हूँ आस पटिन अरा पिलसुरनन तंग्हय पखवा तरा उझ्यस अरा
अउला माख्वा खंदरस। आस गे लग्गा लगिया का एका बीरी पैझी
मनो का आस लूरकुड़िया कालोस। आ माख्वा आस बिज्जा खनेम
एज्जरस केरस, अरा मेसगा तरा मुटुर - मुटुर ए-रदस का मेसगा
गहि भोंकका ती बिल्ली कोर’आ लगी का मला।

“एन्देर गे मल खन्दरदय हो! उपुड़ - चुपुड़ मंज्जका
कुददय।”

“खन्दर’आ लगदन जुन बा।”

“खे-रद हूँ मल्ला चींखका किका।”

“चीखिया बा।”

“एखोन ए-न मेना हूँ मल्ला मेंज्जका।”

“अदा गा बा मेंज्जकय।”

“हं’आँ हो, बिज्जिया केरा।”

“ए- घड़ी खन्दर’आ हो। पईरी अरगी मना।”

“खन्दर’आ हूँ मल तुक्का लगी बा।”

“idā bā oṇṭā aluwā ga ulliyā darā khorkhorā mañjjā kerā.”

“awṅgem jun cārē-cārē ottharā ba'ā lagdan hō.”

“ēn aluwan sandan bā.”

“san'ā pahē bēkan baggē amkē saj'ā, mahlē xaṛxō kālō.”

“ēn ax'ā lagdan bā.”

“barā idā maṇḍī otthrā lagdan.”

“eṅgā baggē maṇḍī amkē ci'ā bā. sarlā amxin hū̄ mal mōxon.”

“tanī buṛā mokkh ērā tō ekāse laggī.”

“malā bā ēn aluā saṅggē eklā onon.”

“nīn mōxoy bāckan darā sarlā nū baggē amṛī sajjkan.”

antī bolwas xurtī bīrī maṇḍin baggē mal oṇḍas. cūtō bīrī hū̄ ās paṭin arā pilsurnan taṅ'hay pakhwā tarā uiyyas arā aulā māxā xandras. ās ge laggā lagiyā ka ekā bīrī pairī manō ka ās lūrkuṛiyā kālos. ā māxā ās bijjā khanem ejjras keras, arā mesgā tarā muṭur-muṭur ērdas ka mesgā gahi bhoṇkkā tī billī kor'ā lagī ka malā.

“ender ge mal xandrday hō! upuṛ-cupuṛ mañjkā kudd'day.”

“xandrā lagdan jun bā.”

“xērad hū̄ mallā cīxkā kikā.”

“cīxiyā bā.”

“ekhon ēn menā hū̄ mallā meñjkā.”

“adā ga bā meñjkay.”

“hā'ā hō, bijjiyā kerā.”

“ē ghaṛī xandrā hō. pairī argī manā.”

“xandrā hū̄ mal tukkā lagī bā.”

‘‘ख़न्नन मिक्खा तो एकासे ख़न्दर’आ मल तुक्की।’’

‘‘इदा गा बिल्ली मना लगी बा, मेसगन ए-रा तो भोंका ती
बिल्ली कर’आ लगी।’’

‘‘हं’ओँ हो।’’

पैइरी मंज्जा केरा खने बोलवस चाँडेम चो-चस अरा चाँडे -
चाँडे खें-सो पुटुस गहि कडिकन चबचस, चोतोर गड्डी हेद्दे उइका
अम्म ती नोढ़रस मूझरस दरा भंवारी नू उइका टट्ठी ता कोरोंजो
इसुंग नन नलभरस।

‘‘एकासे नलभरका र’अदय खेड्डन ए-रा तो।’’

‘‘घसर’ओन बा अक्कुन गा ओण्टा एकला खेड्ड नू घसरका
र’अदन।’’

‘‘इज्जगो बरा नलबदन चि’इदन।’’

‘‘अलुवन कुड़ा चि’आ बा बासी मण्डी संगे मो-खोन। होले
एका बीरी कालोत अन्ती बा।’’

‘‘बेड़ा मनो होले जुन बबू।’’

‘‘होले बेड़ा अरगी मना।’’

‘‘नीन मण्डी ओण्ड लिघ’आ।’’

‘‘मण्डी हूँ ओना मल तुक्का लगी बा।’’

‘‘चेरो हूँ मल ओण्डका रहचक्य, तनिक’ओकेम ओना।’’

‘‘खोल्ला चि’आ अन्ती बा।’’

‘‘एकासे मण्डी ओन्दय हो। सखडिन ए-रा तो उर्मी तरा बीजा
लगदय।’’

‘‘उर्मिन पेसोन बा।’’

अउला बोलवस उला बहरी - उला बहरी मना लगियस। आस गे गा
लग्गा लगिया एका बीरी लूरकुडिया कालोन। खनेम गा बुधवा गारिन
ए-रा गे कादस, उर्खर का मला ब’अर दरा।

“xannan miňkkhā tō ekāse xandr'ā mal tukkī.”

“idā ga billī manā lagī bā, mesgan ērā tō bhoňkkā tī billī kor'ā lagī.”

“hā!ň hō.”

pairī maňjjā kerā khanē bolwas cārem cōcas arā cārē-cārē xěsō puťus gahi kařikan cabcas, cotor gađđī heddē uikā amm tī nōřhras mūjhras darā bhāwārī nū uikā ṭaṭhī tā koroňjō isuňg nan nalbhras.

“ekāse nalbhrkā ra'day xedđan ērā tō.”

“ghasar'on bā akkun ga oňtā eklā xedđ nū ghasarkā ra'dan.”

“ijgō barā nalbdan ci'dan.”

“aluwan kuřā ci'ā bā bāsī maňđī saňggē mōxon. holē ekā bīřī kālot antī bā.”

“berā manō holē jun babū.”

“holē berā argī manā.”

“nīn maňđī oňđ líňghh'ā.”

“maňđī hū onā mal tukkā lagī bā.”

“cerō hū mal oňđkā rahackay, tanik'ōkem onā.”

“xollā ci'ā antī bā.”

“ekāse maňđī onday hō. sakhrin ērā tō urmī tarā bījā lagday.”

“urmin peson bā.”

aulā bolwas ulā bahrī-ulā bahrī manā lagiyas. ās ge ga laggā lagiyā ekā bīřī lürkuřiyā kālon. khanem ga budhwā garin ērā ge kādas urkhar ka malā ba'ar darā.

“ए बा बोलवा गर लूरकुडिया केरर किका ।”

“काला चि’आ हो, इन्ना गा निंगह्य नामेन एकला अरगत’आना र’ई ।”

“होले इन्ना ए-न मल बच’ओन बा ।”

“इन्ना निंगा बचना मलकी, इन्ना संगेम किरीत। ने-ला ती नीन बुधवा गर संगे कालोय ।”

पईरी बीरी रोपनस अड्डोन बटगी हेदे खुटदस चि’इदस दरा अड्डो गे घाँसिन चि’इदस। अरा एङ्गा किर्का खो-खा बोलवस संगे टोंगो काला गे सपडारदस। अन्ति बोलवस गहि नामे टोंगो ता सन्नी लूरकुडिया नू अरगताचस चिच्वस। नामे अरगताचका खो-खा बोलवस गे एवंदा दव लग्गा लगिया।

“एकासे लगिया हो टोंगो ता लूरकुडिया? ”

“दव लगिया बा ।”

“अक्कु लण्डी अमके मनागे ।”

“मल मनोन बा उरमी उल्ला लूरकुडिया कालोन ।”

“ē bā bolwā gar lūrkur̄iyā kerar kikā.”

“kālā ci'ā hō, innā ga niñg'hay nāmen eklā argt'ānā rañi.”

“holē innā ēn mal bac'on bā.”

“innā niñggā bacnā malkī, innā sañggem kirrot. nēlā tī nīn budhwā gar sañggē kāloy.”

pairī bīrī ropnas ađđon baṭgī heddē khuṭdas ci'das darā ađđō ge ghāsin ci'das. arā erpā kirrkā xōxā bolwas sañgge ṭoñggō kālā ge saprārdas. anti bolwas gahi nāmē ṭoñggō tā sannī lūrkur̄iyā nū argtācas ciccas. nāmē argtāckā xōxā bolwas ge ewndā daw laggā lagiyā.

“ekāse lagiyā hō ṭoñggō tā lūrkur̄iyā?”

“daw lagiyā bā.”

“akkū lañđī amkē manāge.”

“mal manon bā urmī ullā lūrkur̄iyā kālon.”

੧੧ ਨਨਾ ਉਲਲਾ ਤੀ ਬੋਲਵਸ ਉਮੰਨ ਉਲਲਾ ਲੂਰਕੁਡਿਆ ਕਾਲਾ
ਲਗਿਯਸ। ਆਸ ਏਕਾ ਉਲਲਾ ਹੁੱਣ ਨਗ ਮਲ ਨਨਾ ਲਗਿਯਸ। ਆਸ ਉਮੰਨ
ਉਲਲਾ ਬਾਸੀ ਮਣਿਨ ਓਨੇਰ ਦਰਾ ਸਨੀ ਲੂਰਕੁਡਿਆ ਕਾਲਾ ਲਗਿਯਸ।
ਏਕਾ - ਏਕਾ ਉਲਲਾ ਗਾ ਅਮਖਿਦ ਹੁੱਣ ਮਲ ਬਚਛਰ'ਆ ਲਗਿਆ। ਅਨੇਮ
ਬੈ-ਕ ਮਣਡੀ ਓਨੇਰ ਦਰਾ ਕਾਲਾ ਲਗਿਯਸ। ਆਸ ਅਮਖੀ ਮਣਡੀ ਗੇ
ਬੜਵਾਰੀ ਮਲ ਮਨਾ ਲਗਿਯਸ। ਏਕਾਸੇ ਖੜਖਰ'ਆ ਲਗਿਆ ਅਨੇਮ ਓਨਾ
ਮੋ-ਖਾ ਲਗਿਯਸ। ਤਮਕਸ ਏਕਾਸੇ ਬ'ਆ ਲਗਿਯਸ ਅਨੇਮ ਨਨਾ ਲਗਿਯਸ।

'ਬ੍ਰੂ ਇਨ੍ਨਾ ਗਾ ਅਮਖਿਦ ਹੁੱਣ ਮਲ ਬਚਕੀ ਰ'ਈ, ਇਦਾ ਇਸਨ ਅਲੁਵਾ
ਰ'ਈ, ਕੁਝਕੇ ਦਰਾ ਮਣਡੀ ਸਂਗੇ ਮੋ-ਖਕੇ। ਏ-ਨ ਅਡ੍ਡੋਨ ਬਿਚਿਹਿਰ'ਆ
ਲਗਦਨ। ਓਨਕੇ ਦਰਾ ਬੁਧਵਾ ਗਰ ਸਂਗੇ ਕਾਲਕੇ।'

'ਉਮੰਨ ਉਲਲਾ ਗਾ ਅਲੁਵਨ ਕੁਝਦਨ ਮੋ-ਖਵਦਨ, ਇਨ੍ਨਾ ਚੌ-ਚ ਸੁਕਟੀਨ
ਸਨ'ਓਨ ਦਰਾ ਮਣਡੀ ਓਨੋਨ। ਓਥਰ'ਆ ਚਿ'ਆ ਤੋ ਪੋਟੋਂਗਨ। ਅਗ
ਰਸਡਿਨ ਏਕਸਨ ਉਝਕਾ ਰ'ਅਦਦ ਬਾ, ਬਾਸੀ ਮਣਡੀ ਤਾ ਅਸ਼ ਸਂਗੇ
ਸਨ'ਓਧ-ਮੋ-ਖੋਧ ਹੋਲੇ ਅਨਭਨਿਯੋਂ ਏਮਾ ਲਗਗੀ।'

'ਕਥਨ ਗਾ ਅਨਾਇਤ ਦਵ ਫੁਰਚ'ਆਦਦ, ਚਾੱਡੇ - ਚਾੱਡੇ ਓਨਾ
ਚਪਾ। ਏਕਾ ਉਲਲਾ ਨੀਨ ਪਰਦੋਧ ਪੋਟੋਂਗਨ ਹੁੱਣ ਔਂ-ਸਡ'ਆ ਪੋਲਦਦ।'

'ਅਚਂਗਾ ਨੂ ਟੰਗਦਦ ਉਝਦਦ ਦਰਾ ਏਂਗਨ ਓਤਥਰ'ਆ ਗੇ ਬ'ਅਦਦ,
ਔਂਗੋਨ ਓਤਥਰ'ਆ ਗੇ।'

'ਏਨਦਰਨ ਹੁੱਣ ਗਾ ਬੇਦਾ ਪੋਲਦਦ ਉਮੰਨੁਸ ਗਾ ਏਂਗਾਨੁਸ ਬੇਵਤ'ਆਦਦ।
ਅਡ੍ਡੋਨ ਹੁੱਣ ਬਿਚਿਹਿਰਨਾ ਰ'ਈ, ਏ-ਰਾ ਤੋ ਏਕਾ ਬੀਰੀ ਬਿਚਿਹਿਰ'ਓਨ, ਲਣਡੀ
ਲੋਹਾਡੀ ਮਨਾ ਕਾਲਾ ਲਗਗੀ।'

'ਨੀਨ ਕਲਾ ਅਡ੍ਡੋਨ ਹੋ'ਆ ਏ-ਨ ਬਲਿਨ ਮੁਚਵੋਨ ਦਰਾ
ਲੂਰਕੁਡਿਆ ਕਾਲੋਨ।'

'ਲੂਰਕੁਡਿਆ ਤੀ ਕਿਰਕਾ ਖੋ-ਖਾ ਚਾੱਡਾ ਗਡ੍ਡੀ ਹੇਵੇ ਕਾਲਕੇ ਏ-ਨ
ਅਸਾਨੁਸ ਅਡ੍ਡੋਨ ਖਾਪੋਨ ਨੀਨ ਅਡ੍ਡੋਨ ਏ-ਰੋਏ ਹੋਲੇ ਏ-ਨ ਘੱਲਿਨ
ਖੋਧੋਨ।'

11 nannā ullā tī bolwas urmī ullā lürkuriyā kālā lagiyas. ās ekā ullā hū nagā mal nanā lagiyas. ās urmī ullā bāsī maṇḍin onar darā sannī lürkuriyā kālā lagiyas. ekā-ekā ullā ga amxid hū mal bacchr'ā lagiyā. annem bēk maṇḍī onar darā kālā lagiyas. ās amxī maṇḍī ge baṛwārī mal manā lagiyas. ekāse xakhr'ā lagiyā annem onā mōxā lagiyas. tambas ekāse ba'ā lagiyas annem nanā lagiyas.

“babū innā ga amxid hū mal bachrkī ra'ī, idā isan aluwā ra'ī, kurkē darā maṇḍī saṅggē mōxkē. ēn addon bicchir'ā lagdan. onkē darā budhwā gar saṅggē kālkē.”

“urmī ullā ga aluwan kuṛdan mōxdan, innā cēc suktīn san'on darā maṇḍī onon. othr'ā ci'ā tō poṭoṅgan. arā rasṛin eksan uikā ra'day bā, bāsī maṇḍī tā amm saṅggē san'oy-mōxoy holē anbhaniyāñ embā laggī.”

“katthan ga anāit daw phurc'āday, cāṛē-cāṛē onā cappā. ekā ullā nīn pardoy poṭoṅgan hū ūṣr'ā polday.”

“acaṅgā nū ṭaṅgday uiday darā eṅggan otthar'ā ge ba'day, ongon otthar'ā ge.”

“endran hū ga beddā polday urmīnum ga eṅggānum beddt'āday. aḍdon hū bicchirnā ra'ī, ērā tō ekā bīrī bicchir'on, laṇḍī lohāṛī manā kālā lagī.”

“nīn kalā aḍdon ho'ā ēn balin muccon darā lürkuriyā kālon.”

“lürkuriyā tī kirrkā xōxā cāṛā gaḍḍī heddē kālkē ēn asanum aḍdon xāpon nīn aḍdon ēroy holē ēn ghāsin xoyon.”

लूरकुड़िया कालो बीरी बोलवस तंगहय थइला नू ओ-न्द मुटठी
तीख़लन धर'आ लगियस। एका - एका उल्ला बोलवस कोदय
असमन हो'आ लगियस। अरा लूरकुड़िया ती किर्रो बीरी अदिन
फकते मो-ख़ते बर'आ लगियस। उन्दुल - उन्दुल गा घघहारि ढोङ्हा
ता चलकुर नू चींयन कालो बीरी तंगहय संगियर संगे माड़ा
लगियस अरा लूरकुड़िया ती किर्रो बीरी ओपरका र'आ लगिया खने
अदिन मो-ख़ते - मो-ख़ते किर्रा लगियस। खनेम गा पखनन पेसर
दरा मन्न मझ्याँ लेबद'आ लगियस, खनेम गा एन्देर ननोस कोदय
असमन किच्चा - किच्चा मन्न गहि डाँड़ा नू लूरकुड़िया कालो
बीरी टंग'आ लगियस अरा किर्रो बीरी अदिन मो-ख़ा लगियस।

“ई मन्न नू एंगहय असमा र'ई, बुधवा नीन पोलोय अरगा”

“एंगहय असमन हूँ ओथरके चि'इके।”

“बुधवा नीन मन्न नू अरगा पोलदय ने-ला ती नाम सैना
खैद'ओत अरा खटर'ओत मो-ख़ोत।”

“बोलवा एतवासिन मल मेस'ओत एंदेरगे का एतवस चाँडे -
चाँडे मन्न अरगदस।”

“बुधवा ओंदा।”

“अनभनियाँ एम्बा लग्गी बोलवा।”

“आँदे ए-रा तो हू मन्न नू कोहाँम असमा र'ई।”

“बोलवा हुदिन एंगा गे हूँ चि'इके।”

“ईद गा किच्चिर'आ हूँ मल किच्चिर'ई, पखना बेद्दा तो बुधवा
कुच्च'ओत इदिन।”

“ईद गा बग्गे एम्बा लग्गी बोलवा।”

“हौँ'ओँ”

lūrkurīyā kālō bīrī bolwas taṅg'hay thailā nū ōnd muṭṭhī tīxlan dhar'ā lagiyas. ekā-ekā ullā bolwas koday asman ho'ā lagiyas. arā lūrkurīyā tī kirrō bīrī adin phaktē mōxtē bar'ā lagiyas. undul-undul ga ghaghhārī ḫhorhā tā calkur nū cīyan kālō bīrī taṅg'hay saṅggiyar saṅgē māṛā lagiyas arā lūrkurīyā tī kirrō bīrī oprkā ra'ā lagiyā khanē adin mōxte-mōxtē kirrā lagiyas. khanem ga pakhnān pesar darā mann maīyyā lebd'ā lagiyas, khanem ga ender nanos koday asman kiccā-kiccā mann gahi ḫāṛā nū lūrkurīyā kālō bīrī taṅg'ā lagiyas arā kirrō bīrī adin mōxā lagiyas.

“ī mann nū eṅg'hay asmā ra'ī, budhwā nīn polloy argā.”

“eṅg'hay asman hū othrkē ci'ke.”

“budhwā nīn mann nū argā polday nēlā tī nām sainā xaid'ot arā xatr'ot mōxot.”

“bolwā etwasin mal mes'ot enderge ka etwas cāṛē-cāṛē mann argdas.”

“budhwā ondā.”

“anbhaniyā embā laggī bolwā.”

“āde ērā tō hū mann nū kohām asmā ra'ī.”

“bolwā hudin eṅgā ge hū ci'ke.”

“īd ga kiccir'ā hū mal kiccir'ī, pakhnā beddā tō budhwā kucc'ot idin.”

“īd ga baggē embā laggī bolwā.”

“ha'ā.”

एन्ने म ननते - ननते आस उर्मी उल्ला लूरकुड़िया काला बर'आ लगियस। लूरकुड़िया नू बोलवासिन गा ओर्मा खद्दर एलगत'आ लगियर। पहें बोलवस ने-कन हूँ एन्दरा हूँ मल ब'आ लगियस। ओर्मा बचऊ खद्दर कोहाँ चौंकी नू ओकका लगियर अरा बोलवस मुन्धभारे खेखेल नू। उन्दुल गा एन्ने मंज्जा, आ सन्नी लूरकुड़िया नू कोहाँ सहेबस लूरकुड़ियन ए-रा खो-जा गे बरचस। बोलवस अउला हूँ खेखेलनुम उकका रहचस। आ बीरिम आरिन बचतऊ सहेबस बरचस अरा बोलवासिन बाचस:-

"अना हो बोलवा एंदेरगे नीन किया उकका र'अदय, इन्ना कोहाँ सहेबस बरचका र'अदस नीन इन्ना दिगहा चौंकी नू ओकक'के।"

बाचस दरा उरखस केरस। अन्ती बोलवस आ बीरी ओण्टा तंग'आ संगियस हेद्दे ओकका गे केरस। पहें आस आसिन बाचस

"नीन उरमी उल्ला मुन्धभारे ओककदय, अक्कुन इसन, कला खेखेल नुम ओककके।"

"सहेबस बरचका र'अदस अवंगे जुन मेस'आ गे ब'आ लगदन।"

"सहेबस बरचकस तो ए-न एन्देर ननोन।"

"कला - कला किया, मुन्धभारे ओककके।"

"एंगन केबर'ओस ले।"

"ए-न एन्देर ननोन अन्ती।"

"होन्ने ब'अदय होले काला लगदन अन्ती। केबर'ओस होले ए-रना लग्गो।"

ennem nantē-nantē ās urmī ullā lūrkuriyā kālā bar'ā lagiyas. lūrkuriyā nū bolwasin ga ormā xaddar elgt'ā lagiyar. pahē bolwas nēkan hū endrā hū mal ba'ā lagiyas. ormā bac'ū xaddar kohā caūkī nū okkā lagiyar arā bolwas mundhbhāre xēxel nū. undul ga ennē mañjjā, ā sannī lūrkuriyā nū kohā sahebas lūrkuriyan ērā xōjā ge barcas. bolwas aulā hū xēxelnum ukkā rahcas. ā bīrim ārin bact'ū sahebas barcas arā bolwasin bācas—

“anā hō bolwā enderge nīn kiyyā ukkā ra'day, innā kohā sahebas barckā ra'das nīn innā dig'hā caūkī nū okk'kē.”

bācas darā urkhas keras. antī bolwas ā bīrī oṇṭā taṅgg'ā saṅggiyas hedde okkā ge keras. pahē ās āsin bācas—

“nīn urmī ullā mundhbhāre okkday, akkun isan, kalā xēxel num okk'kē.”

“sahebas barckā ra'das awṅge jun mes'ā ge ba'ā lagdan.”

“sahebas barcas tō ēn ender nanon.”

“kalā-kalā kiyyā, mundhbhāre okk'kē.”

“eniggan kebr'os lē.”

“ēn ender nanon antī.”

“honnē ba'day holē kālā lagdan antī. kebr'os holē ērnā laggō.”

बोलवस मुन्धभारे केरस खने ओरमर आसिन ईरियर दरा
अलखा हेलरर। बोलवस ने-कन हूँ एन्दरा हूँ मल बाचस। अन्ती
बोलवस अउर खेखेलनुम ओकागे मुन्धभारे केरस दरा उकियस।
आ बीरिम आ कोहाँ सहेबस बरचस दरा बोलवासिन केप्पस अरा
बचतऊ सहेबासिन हूँ केप्पस। आस गहि उरखका खो-खा बोलवस
बचतऊ सहेबस ती अनभनियाँ मौर मोक्खस। बोलवस गहि मे-द नु
कोहाँ-कोहाँ बोबरा चूचकी किरकी रहचा। आस अउला अनभनियाँ
चींखयस। एडपा अंडसना ती मून्ध आस भन्दरस। पहें आस अउला
तम्बासिन मल तिंगयस। आस घोख'आ लगियस का तम्बासिन
तेंग्गोस होले नन्हा उल्ला ती आसिन लुरकुडिया मल तइयोस।
अउला आस तंग्हय अत्तिका किचरिन हूँ मल ओत्थरस, आस
घोख'आ लगियस का तम्बस ए-रोस होले मेनोस का- एन्देरगे निंग्हय
मे-द नु एन्हे कोहाँ-कोहाँ बोबरा मंज्जकी किरकी र'ई। आस बासी
मण्डी ओनर दरा टॉकका तरा केरस।

'चाँडे - चाँडे बर'ओय का। इदा अड्डोन ए-रके, ए-न घाँसी
खोया काला लगदन। बीड़ी पुत्तो होले एडपा हो'ओके, अरा चिच्चन
ओद्दका र'अके। ए-न कालोन दरा तीख़लन सज'ओन।'

'कट्टुन हूँ मल्ला नूङ्का किका बा।'

'बतरे खंधर'आके जुन।'

'चड़को कालो होले।'

'अवंदागे ए-न अंडसोन कालोन।'

'ने-ला गोला अड्डो नू ठंकू टंगके चि'इके, खेस्स ख़ल तरा
अनभनियाँ बुंगी।'

'ए-न उर्मी उल्ला खापा लगदन बोंगा हूँ मल बुंगी नीन
खापदय खनेम बुंगी।'

'होन्हे ब'अदय बा ने-ला ती अड्डो तरा बर'आ हूँ मल
बर'ओन।'

bolwas mundhbhāre keras khanē ormar āsin īriyar darā alkħā helrar. bolwas nēkan hū endrā hū mal bācas. antī bolwas aur xēxelnum okkāge mundhbhāre keras darā ukkiyas. ā bīrim ā kohā sahebas barcas darā bolwasin keppas arā bact'ū sahebasin hū keppas. ās gahi urkhkā xōxā bolwas bact'ū sahebas tī anbhaniyā maur mokkhas. bolwas gahi mēd nū kohā-kohā bobrā cūckī kirkī rahcā. ās aulā anbhaniyā cīxyas. erpā āl̄snā tī mūndh ās bhandras. pahē ās aulā tambasin mal tiṅggyas. ās ghokh'ā lagiyas ka tambasin teṅgos holē nannā ullā tī āsin lūrkuriyā mal taiyyos. aulā ās taṅ'hay attikā kicrin hū mal otthras, ās ghokh'ā lagiyas ka tambas ēros holē menos kā enderge niṅ'hay mēd nū ennē kohā-kohā bobrā mañjkī kirkī ra'ī. ās bāsī maṇḍī onar darā ṭoñkkā tarā keras.

“cārē-cārē bar'oy kā. idā addon ērkē, ēn ghāsī xoyā kālā lagdan. bīrī puttō holē erpā ho'ke, arā ciccan oddkā ra'ke. ēn kālon darā tīxlan saj'on.”

“kaṭṭun hū mallā nūrkā kikā bā.”

“batrē khaṅghr'ākē jun.”

“carkō kālō holē.”

“awndāge ēn āl̄son kālon.”

“nēlā golā aḍḍō nū ṭhañkkū ṭaṅkē ci'ke, xess xall tarā anbhaniyā buṅgī.”

“ēn urmī ullā xāpā lagdan boṅgā hū mal buṅgī nīn xāpday khanem buṅgī.”

“honnē ba'day bā nēlā tī aḍḍō tarā bar'ā hū mal bar'on.”

“आँरची टेम्पन ईरका र’अदय? लण्डी अड्डोद हूँ सोझ मनी काली।”

“नीन गा पसनन एकला अख्खदय। कला, कला बा चाँडे धाँसिन खोयके।”

“कालोन जुन बबु।”

“बा ने-ला एंगहय किचरिन नो-ड़के चि’इके।”

“ने-ला मला हो नेलबेंज्जा एत्तवार हिके चिंद संग्गे किचरिन लद’ओन मडिख़कद बडिहय’आँ उरखी।”

लूरकुडिया ती एडपा किरका खो-ख्वा बोलवस बासी मण्डी ओनर दरा उर्मी उल्ला टोंक्का तरा तम्बस हेद्दे काला लगियस। अमखिंद बच्छर’आ लगिया ख्वन्ने बोलवस अमख्वी संग्गे ओना लगियस महले बे-क मण्डी ओना लगियस। रोपनस पुतबीरी टोंक्का तरतिक एडपा किरा लगियस दरा मण्डी बीत’आ लगियस। नन्ना कुडिया नू बोलवस ढिबरिन दग’अर दरा बच’आ लगियस। रोपनस गे एन्ने बग्गे नलख मना लगिया का बोलवस संग्गे कच्छनखर’आ गे हूँ बेड़ा मल ख़खर’आ लगिया। बोलवासिन ए-रना - खो-जना, एडपा ता नलख का टोंक्का तरता उर्मी नलखन रोपनस गेम नन्ना मना लगिया। आस उर्मी बीरी घोख’आ लगियस।

“एन्ने नू एकासे मनो एडपा का टोक्का तरता उर्मी नलखन एंगा गेम नन्ना मनी। एन्ने नू बोलवासिन एकासे बचत’ओन। पद्धन्ता ओर्मा ख़द्दर लूरकुडिया कानर।”

“ārcī ṭempān īrkā ra'day? laṇḍī aḍḍod hū sōjh manī kālī.”

“nīn ga pasnan eklā axday. kalā, kalā bā cārē ghāsin xoykē.”

“kālon jun babū.”

“bā nēlā eñg'hay kicrin nōṛkē ci'ke.”

“nēlā malā hō nelbeñjā etwār hike cind sañggē kicrin lad'on mařixkad bařhiy'ā urkhī.”

lūrkuriyā tī eṛpā kirrkā xōxā bolwas bāsī maṇḍī onar darā urmī ullā ṭoṇkkā tarā tambas hedde kālā lagiyas. amxid bacchr'ā lagiyā khanē bolwas amxī sañggē onā lagiyas mahlē bēk maṇḍī onā lagiyas. ropnas putbīrī ṭoṇkkā tartik eṛpā kirrā lagiyas darā maṇḍī bīt'ā lagiyas. nannā kuṛiyā nū bolwas ḥhibrin dag'ar darā bac'ā lagiyas. ropnas ge ennē baggē nalakh manā lagiyā ka bolwas sañggē kacchnakhr'ā ge hū berā mal xakhr'ā lagiyā. bolwasin ērnā-xōjnā, eṛpā tā nalakh ka ṭoṇkkā tartā urmī nalkhan ropnas gem nannā manā lagiyā. ās urmī bīrī ghokh'ā lagiyas.

“ennē nū ekāse manō eṛpā ka ṭoṇkkā tartā urmī nalkhan eñggā gem nannā manī. ennē nū bolwasin ekāse bact'on. paddantā ormā xaddar lūrkuriyā kānar.”

१२ रोपनस गहि नलखन ए-रर पद्धत्ता आलर आसिन उर्मी बीरी
ब'अते र'आ लगियर। उन्दुल रोपनस गहि चोल्ला मुन्दभारे एडपा ता
सुको पच्चो रोपना गरही मेसगा मइय्याँ ता तुम्बा खंज्जकन ए-रिया
दरा आर गुझ्या केरा।

"एन्देर नना लगदर को बोलवा, एडपा नू र'अदर का मला?"

"इन्ना एका तरतिक बीड़ी अरगिया अयो, डहरेन मो-धोरकी
केरकी का। एका उल्ला हूँ मल बरदी, पहें इन्ना डहरे बेडारका
बेसे!"

"गोट्टा उल्ला गा टोंकका तरा र'अदर तेकेल बर'आ गे
ब'अदर। एडपा हेवे र'अनुम एन्देर मनो नत्तियस गने हूँ मल
खँखरदन। अवंगे जुन कुद्धा बर'आ लगदन!"

"एन्दरा नना लगदय को बोलवा, इन्ना लूरकुड़िया मल
केरकय?"

"इन्ना एतवार हिकके अज्जी, उर्मी उल्ला लूरकुड़िया कालोन
का!"

"निन अज्जी गे कण्डोन ओन्दरा चिआ बबू"

"हुकन हूँ ओन्दरके को। चिलम नू गोड़ दुइ ठू अंगोर नन
सजके चिइके!"

"इदा ओंदय हुका अरा कण्डो।"

"पिनी तंककुन अरा अंगोर नन निम्बस ओन्दर'ओस चिआओस।"

"इदा, मो-धरकन केरकन अज्जी, ओन्दर'आ चिआ लगदन।"

"ओण्टा खपरन ओथर'आ चिआ तो बा अंगोर नन चुलहा ती
ओथर'ओन चिआओन।"

"इदा ओन्दा।"

"ओन्दय अज्जी अंगोरन सज'अय दरा ओनय।"

"ओन्दा को नत्ती ओंगहोन नीन हूँ सुरप ए-रा। नतिया हिकदय
अवंगे जुन अलखदन को!"

"अना बबू मेसगा नू गा अनभनियाँ तुम्बन खंज्जताचका
र'अदय।"

12 ropnas gahi nalkhan ērar paddantā ālar āsin urmī bīrī ba'te ra'ā lagiyar. undul ropnas gahi collā mundhbhāre erpā tā sukō paccō ropnā garhī mesgā maïyyā tā tumbā xañjkan īriyā darā ār guiyā kerā.

“ender nanā lagdar kō bolwā, erpā nū ra'dar ka malā?”

“innā ekā tartik bīrī argiyā ayō, ḫahren mōdhrkī kirkī kā. ekā ullā hū mal bardī, pahē innā ḫahrē berārkā bese.”

“goṭṭā ullā ga ṭonkkā tarā ra'dar tekel bar'ā ge ba'dar. erpā heddē ra'num ender manō nattiyas gane hū mal xakhrdan. awñge jun kuddā bar'ā lagdan.”

“endrā nanā lagday kō bolwā, innā lürkuṣiyā mal kerkay?”

“innā etwār hike ajjī, urmī ullā lürkuṣiyā kālon kā.”

“nin ajjī ge kaṇdon ondrā ci'ā babū.”

“hukan hū ondrkē kō. cilam nū gor-duū ṭhū aṅgor nan sajkē ci'ke.”

“idā onday hukā arā kaṇḍō.”

“pinī taṇkkun arā aṅgor nan nimbas ondr'os ci'os.”

“idā, mōdhrkan kerkan ajjī, ondr'ā ci'ā lagdan.”

“oṇṭā khapran othr'ā ci'ā tō bā aṅgor nan culhā tī othor'on ci'on.”

“idā ondā.”

“onday ajjī aṅgoran saj'ay darā onay.”

“ondā kō nattī oṅg'hon nīn hū surup ērā. natiyā hikday awñge jun alkhdan kō.”

“anā babū mesgā nū ga anbhaniyā tumban xañjtāckā ra'day.”

‘कालोय होले ओण्ट’आकेम हो’आ गे अमके मो-धर’आ गे यो।’’

‘टोंका तरा कादन खने गा तुम्बन हूँ खड़नर हो’ओनर, निन नत्सि स हूँ लूरकुड़िया कादस एडपा नू ने- हूँ मला।’’

‘अवंगेम जुन अगुवा मनोन चि’ओन ब’अदन बबु।’’

‘नीन गा ब’ओय एकला जुन, बेदोन दरा ओन्दर’ओन चि’ओन गा मल ब’अदी।’’

‘नीन ब’आ नी ए-न कत्थन अंडसत’आदन चि’इदन।’’

‘एका अइया ए-रकी र’अदी का निंगा गेम सगई नना गे मुक्कर खखरनर।’’

‘किरतो पद्धन्ता करमिन अखदय अदि गहि तन मे-तस मलिकस। अदि गहि गा खद्धर हूँ मलिकर नीन एन्देर ब’अदय।’’

‘एंगा गेम गा चि’ओर अन्ने कोहाँ एडपा तर।’’

‘नीन ब’आ एकला कत्थन ए-न अंडसत’ओन। तम्बस ब’आ लगियस अवंगे जुन ब’आ लगदन बबू। एवंदा उल्ला एन्नेम र’ओय। नलख गे गा अम्बा आना अजम कमिया र’ई।’’

‘तेंगके चि’इके अन्ती यो, एन्दरा ब’अनर होले ए-रना लग्गो। पहें निन नत्सि।’’

‘नीन निफिकिर र’आ, ए-न कत्थन अंडसत’ओन उर्मिद बन’ओ।’’

‘कला तो ओंटटा तुम्बन मेसगा ती एत्त’आके चि’इके निन अज्जी काला बेदा लगी।’’

‘कोहाँ बेसेन एत्त’आके को गोड़ दुझ-सांझ मल मो-खोम होले एकासे नामे ननोन।’’

तुम्बन एकला मो-खोय का अज्जी, मण्डी मल ओनोय।’’

‘चोख’ओस चप्पोस खने, निंगदस गा कत्थन अनाईत टभिय’आदस।’’

‘ओन्दय झोक’अय, लोकके महले पलकरो कालो अन्ती।’’

‘अम्बा टिड़’आ को केरमे - केरमे एत्त’आ।’’

“kāloy holē ont'ākem ho'ā ge amkē mōdhr'ā ge yō.”

“ṭonkkā tarā kādan khane ga tumban hū xarñar ho'nar kānar, nin nattis hū lürkuriyā kādas eṛpā nū nē hū malā.”

“awngem jun aguwā manon ci'on ba'dan babū.”

“nīn ga ba'oy eklā jun, beddon darā ondr'on ci'on ga mal ba'dī.”

“nīn ba'ā nī ēn katthan āṛst'ādan ci'dan.”

“ekā aiyā īrkī ra'dī ka niṅgā gem sagaī nanā ge mukkar xakhrmar.”

“kirtō paddantā karmin axday adi gahi tan mētas malikas. adi gahi ga xaddar hū malikar nīn ender ba'day.”

“enḡā gem ga ci'or annē kohā eṛpā tar.”

“nīn ba'ā eklā katthan ēn āṛst'on. tambas ba'ā lagiyas awṅge jun ba'ā lagdan babū. ewndā ullā ennem ra'oy. nalakh ge ga ambā ānā ajam kamiyā ra'ī.”

“teṅkē ci'kē antī yō, endrā ba'nar holē ērnā laggō. pahē nin nattis!”

“nīn niphikir ra'ā, ēn katthan āṛst'on urmid ban'ō.”

“kalā tō onṭṭā tumban mesgā tī ett'ākē ci'kē nin ajjī kālā beddā lagī.”

“kohā besen ett'ākē kō gor-duī sāñjh mal mōxom holē ekāse nāmē nanon.”

tumban eklā mōxoy ka ajjī, maṇḍī mal onoy.”

“cox'os cappos khanē, niṅgas ga katthan anāit ṭabhiy'ādas.”

“onday jhok'ay, lokkē mahlē palkrō kālō antī.”

“ambā ṭiṛ'ā kō kermē-kermē ett'ā.”

१३ अन्ती सुको पच्चो नम्रा उल्ला रोपनस गहि कत्थन करमी तम्बस हेदे अंड़सताचा चिच्चा। करमी तम्बस हूँ गच्छरस। अरा सगई गहि उल्ला उइय्यस। रोपनस हूँ घोख'आ लगियस का अकु एडपा का टोंका तरता उर्मी नलखद नेब्बा मनो। का बोलवस हूँ दव ती बच'आ औंगोस। रोपनस तंग्हय सगई नू गोट्टा पद्धियारिन मे-खियस। ओन्ताचस मो-खऱ्ताचस। ओरमर ओण्डर - मोक्खर नलियर तो-कियर। सगई गहि खो-खऱ्ता ओरमर ब'आ लगियर ने- अख'ई बोलवासिन दव ननो का मला?। पहें बोलवस गहि खऱ्ली अयड्ग बोलवासिन अकय बगे चोनहाँ नना लगिया। एन्ने लग्गा लगिया का अदि गहि कूल तिम बोलवस कुन्दुरका र'अदस। पहें बोलवस अदिन उन्दल हूँ अयो मल बाचस। आस गे तंग्डियो गहि चोनहाँ मल खऱ्खरकी रहचा अवंगे आस बल्ला लगियस का अयड्ग गहि चोनहाँ एकासे मनी। एन्देरगे का तंग्डियो आस बोलोम रहचस खनेम मुंज्जरा। आद इन्दर'इम बाचा होले ब'आ लगियस :-

'बरचकी र'अदी सोतड़एंग एम्हय गुया खऱ्तारा गे।' आस गहि एन्ने मन्ना तम्बस गे दव मल लग्गा लगिया।

"होन्ने मल ब'अनर बबू। निड्गियो जुन हिके।"

"अवंदा उल्ला इड्गियो मल रहचा इन्नम इड्गियो बंच्या केरा।"

रोपनस गहि सगई मंज्जका खो-खऱ्ता सुको पच्चो उर्मी उल्ला आर गुइया हुका नंगू कुद्वा बर'आ लगिया।

"अना अयो निन नतिस एन्देर गे होन्ने मन्दस।"

"अकुन सन्नी र'अदस मई। परदोस होले होन्ने मनोस का।"

"अना को नती एन्देरगे होन्ने मनदय।"

"ए-न एन्दरा मना लगदन दरा। नीनिम हुदिन ओन्दरकी र'अदी।"

"ए-रय तो अयो धोन्ने गा मन्दस।"

"एन्दरन तेंगा लगदी, नीन गा घोख'आ लगदी होत'अन ए-न मल मेना लगदन।"

13 antī sukō paccō nannā ullā ropnas gahi katthan karmī tambas heddē ārstācā ciccā. karmī tambas hū gacchras. arā sagaī gahi ullā uiyyas. ropnas hū ghokh'ā lagiyas ka akkū eṛpā ka ṭonkkā tartā urmī nalkhad nebbā manō. ka bolwas hū daw tī bac'ā oṅgos. ropnas taṅ'hay sagaī nū goṭṭā paddiyarin mīxiyas. ontācas mōxtācas. ormar oṇḍar-mokkhar naliyar tōkiyar. sagaī gahi xōxā ormar ba'ā lagiyar nē ax'ī bolwasin daw nanō ka malā. pahē bolwas gahi xallī ayaṅg bolwasin akay baggē conhā nanā lagyā. ennē laggā lagiyā ka adi gahi kūl tim bolwas kundurkā ra'das. pahē bolwas adin undul hū ayō mal bācas. ās ge taṅgiyō gahi conhā mal xakhrkī rahcā awnige ās ballā lagiyas ka ayaṅg gahi conhā ekāse manī. enderge ka taṅgiyō ās bōlom rahcas khanem muñjrā. ād indr'im bācā holē ba'ā lagiyas—

“barckī ra'dī sotar'eṅg emhay guyā xārā ge.” ās gahi ennē mannā tambas ge daw mal laggā lagiyā.

“honnē mal ba'nar babū. niṅgiyō jun hike.”

“awndā ullā iṅgiyō mal rahcā innam iṅgiyō bañccā kerā.”
ropnas gahi sagaī mañjkā xōxā sukō paccō urmī ullā ār guiyā hukā naṅggū kuddā bar'ā lagiyā.

“anā ayō nin nattis ender ge honnē mandas.”

“akkun sannī ra'das maī. pardos holē honnē manos kā.”

“anā kō nattī enderge honnē manday.”

“ēn endrā manā lagdan darā. nīnim hudin ondrkī ra'dī.”

“ēray tō ayō dhonnē ga mandas.”

“endran teṅggā lagdī, nīn ga ghokh'ā lagdī hot'an ēn mal menā lagdan.”

“अम्बय चींखय मई, उर्मी कोडे मनो कालो। परदोस होले
उर्मिन बुझर’ओस जुन।”

‘इन्हेला मल बुझुर’ओस होले एका उल्ला बुझुर’ओस यो। ई
कोडहे ती अउर एवंदा कोडहे दव ननोन ईसिन।’’

खळ्ली अयङ्ग गहि बरचका खो-ख्वा ने- अख्व’आ लगिया का
बोलवस एन्हे मनोस। अदि गहि लोला चोनहन ए-रा ख़ने लगा
लगिया का बोलवस अदि गहि कूल तिम कुन्दुरका र’अदस। आस गे
लूरकुडिया ती किर्रियस होले मण्डी ओना गे अमखिन अतखा नू
टिप’अर दरा उइय्या चिआ लगिया। आस लूरकुडिया ती किरका
खो-ख्वा मण्डी ओना लगियस दरा टोंक्का तरा तम्बस हेदे काला
लगियस।

जेटठे गहि उल्ला गा बोलवा गरही पझरी लूरकुडिया मना
लगिया। जेटठे गहि उल्ला नू आस उरमी उल्ला तुम्बा नू अम्म
हो’अर दरा काला लगियस। उन्दुल बोलवस तुम्बन धर’आ गे
मो-धरस केरस। कुक्कोर एका बीरी छुटी मंज्जर आ बीरिम कुकेर
गहि हूँ लूरकुडिया छुटी मंज्जा। बोलवस गे अम्म ओना तुकिया, पहें
एन्देर ननोस हुकुड़ पम्प हेदे कुकेर मून्ध तिम अम्म ओना लगियर।
पहें बोलवस कुकेर अम्म ओना लगियर अवंगे बोलवस लज्जे ती
ओना गे मल केरस। आस अन्नेम बुधवा गर संगे ए-कते - ए-कते
एङ्गपा किर्रा लगियस। अम्म ओनकद मल सहारा खने गा बोलवस
तंग्हय संगियस ती अम्म ने’एदस।

‘चिआ ले अम्म मेलखा ख़यना बेसे लग्गा लगी’’

अन्तीले आस बोलवस गे अम्म मल चिइदस। बोलवासिन
ब’अदस का:-

‘ख़ेक्खा नोहर’आ गे अम्म उइका र’अदन।’’

“ambay cīxay maī, urmī koṛē manō kālō. pardos holē urmin bujhr'os jun.”

“innēlā mal bujhr'os holē ekā ullā bujhr'os yō. ī koṛhē tī aur ewndā koṛhē daw nanon īsin.”

xallī ayaṅg gahi barckā xōxā nē ax'ā lagiyā ka bolwas ennē manos. adi gahi lolā conhan ērā khanē laggā lagiyā ka bolwas adi gahi kūl tim kundurkā ra'das. ās ge lürkuṛiyā tī kirriyas holē maṇḍī onā ge amxin atxā nū ṭip'ar darā uiyyā ci'ā lagiyā. ās lürkuṛiyā tī kirrkā xōxā maṇḍī onā lagiyas darā ṭonkkā tarā tambas heddē kālā lagiyas.

jetṭhē gahi ullā ga bolwā gar hī pairī lürkuṛiyā manā lagiyā. jetṭhē gahi ullā nū ās urmī ullā tumbā nū amm ho'ar darā kālā lagiyas. undul bolwas tumban dhar'ā ge mōdhras keras. kukkor ekā bīrī chuṭī mañijjar ā bīrim kuker gahi hū lürkuṛiyā chuṭī mañjjā. bolwas ge amm onā tukkiyā, pahē ender nanos hukur pamp heddē kuker mūndh tim amm onā lagiyar. pahē bolwas kuker amm onā lagiyar awnge bolwas lajjē tī onā ge mal keras. ās annem budhwā gar saṅggē ēktē-ēktē eṛpā kīrrā lagiyas. amm onkad mal sahārā khanē ga bolwas taṅg'hay saṅggiyas tī amm ne'das.

“ci'ā lē amm melkhā xainā bese laggā lagī.”

antile ās bolwas ge amm mal ci'das. bolwasin ba'das kā—

“xekkhā nohr'ā ge amm uikā ra'dan.”

अन्तिले आस बोलवस गे अम्म मल चि'अर दरा खेक्खन
नोहोरदस। अरा तीख़लन ख़ट्टदस। पहें बोलवस गे अम्म ओनका
ती एकासे लग्गा लगी खने आस तीख़लन हूँ मल मोक्खस। जोकक
गेच्छा केरका खो-ख्वा ओण्टा घघहारी ढोड्हा ख़खरा बोलवस असन
अम्म ओनोन बाचस पहें जेठ गहि उल्ला रहचा उरमी अम्मद बत्तकी
किरकी रहचा। बोलवस ए घड्डी खो-ख्वा संगियर ती तीरियस
केरस। ओरमर आसिन अम्बर दरा चाईल केरर। बोलवस अम्म
ओनका ती ओण्टा मन्न किय्य चूतियस चिच्चस। ए-खरा खने आस
एड्पा केरस। एकासे आस एड्पा अड्डिसयस खत्तरस केरस। रोपनस
अरा बोलवा तड्डियो आसिन अम्म ओन्ताचर, अरा टटख्न अंगोर नू
कुट्टर दरा अत्तुक आसिन नलबियर, अन्तिले बोलवस कोडे मंज्जस
केरस। अउला ती आस एका उल्ला हूँ अम्म धर'आ गे मल
मो-धरस।

antile ās bolwas ge amm mal ci'ar darā xekhan nohordas. arā tīxlan xat̄das. pahē bolwas ge amm onkā tī ekāse laggā lagī khanē ās tīxlan hū mal mokkhas. jokk gecchā kerkā xōxā oṇṭā ghaghħārī ḥorħā xakhra bolwas asan amm onon bācas pahē jeṭṭhē gahi ullā rahcā urmī ammad battkī kirkī rahcā. bolwas ē għaṛī xōxā saṅggiyar tī tīriyas keras. ormar āsin ambar darā cāil kerar. bolwas amm onkā tī oṇṭā mann kiyyā cūtiyas ciccas. ēxrā khanē ās erpā keras. ekāse ās erpā ariſyas khattras keras. ropnas arā bolwā tānġiyō āsin amm ontācar, arā tātxan āngor nū kuttar darā attuk āsin nalbiyar, antile bolwas koře mañjas keras. aulā tī ās ekā ullā hū amm dhar'ā ge mal mōdhras.

१४ ख़ल्ली अयङ्ग गहि बरचका ख़ो-खा बोलवस गे बगे बेड़ा बच'आ गे ख़खर'आ लगिया पहें बोलवस मल बुझुर'आ लगियस। आस अदी संगे उर्मी बीरी हेड़ेग'आना बेसे कच्छनखर'आ लगियस। बोलवस बचना नू तेजगर रहचस। आस अक्कु मेट्रिक गहि बिझनन कट्टा गे चिहुट नना लगियस। तम्बस उर्मी बीरी आसिन आना लगियस -

“अना हो बोलवा नीन एन्दर’अम नलखन ननोय होले हूँ ओण्टा मला ओण्टा पुथिन धरचकम र’अके। बेड़ा ख़खर’ओ होले बचके। एन्देरगे का मेट्रिक गहि बिझनन निंगागे दव ती कटना र’ई।”

“नलखन ननो बीरी हूँ गा बच’आ गे ब’अदय बा आलर ए-रोर होले एंगन एन्दरा ब’ओर।”

“ने- निंगन एन्दरा ब’ओर अउर आलर गहि ख़द्दारिन मल ए-रदय का, इन्ना गूठी नम्हय पद्धा नू ने- मेट्रिक गहि बिझनन कट्टकी र’ई।

“नीन ब’आ लगदय होले अन्नेम ननोन बा।”

अन्ती ए-रा तो बोलवस अउला ती अन्नेम नना लगियस। एक’अम चिरखिन हूँ चेड़’ओस होले आस ओण्टा मला ओण्टा पुथिन तंगहय संगे धरचका र’आ लगियस। बेड़ा ख़खर’आ लगिया खने आस अदिन बचते र’आ लगियस। एड़पा नू हूँ आस खुड़ती ता मण्डी ओन्ना ती मून्ध गूठि ढिवरी बिल्ली नू बचते र’आ लगियस।

अन्ती ए-रते - ए-रते मेट्रिक गहि बिझना अड़सिया केरा।

“अना बा इन्ना ए-न एम्हय लूरकुड़िया केरका रहचकन बचतज सहेबस ब’आ लगियस का मेट्रिक गहि बिझनन कट्टा गे पतरा टुली ता लूरकुड़िया नू काना मनो।”

“अना हो एंगहय हेद्दे ढिबा हूँ मल्ला। अदा नम्हय फुट्टलंगो खूरकी र’ई, अदिन ने-ला निडिगयोन पे-ठ हो’आ गे ब’अदन जोक्क ढिबा मनो होले अदिन नेलबेंज्जा हो’ओय दरा कालोय।”

“ए-न ने-लम कालोन थोड़े ब’आ लगदन का बा तेंगा जुन लगदन।”

14 xallī ayaṅg gahi barckā xōxā bolwas ge baggē berā bac'ā ge xakhr'ā lagiyā pahē bolwas mal bujhr'ā lagiyas. ās adi saṅgge urmī bīrī herēng'anā bese kacchnakhr'ā lagiyas. bolwas bacnā nū tējgar rahcas. ās akkū meṭrik gahi biṛnan kaṭṭā ge cihut nanā lagiyas. tambas urmī bīrī āsin anā lagiyas—

“anā hō bolwā nīn endra'am nalkhan nanoy holē hū onṭā malā onṭā puthin dharckam ra'ke. berā xakhr'ō holē backē. enderge ka meṭrik gahi biṛnan niṅgāge daw tī kaṭnā ra'ī.”

“nalkhan nanō bīrī hū ga bac'ā ge ba'day bā ālar ēror holē en̄ggan endrā ba'or.”

“nē niṅgan endrā ba'or aur ālar gahi xaddārin mal ērday kā, innā gūtī namhay paddā nū nē meṭrik gahi biṛnan kaṭṭkī ra'ī.”

“nīn ba'ā lagday holē annem nanon bā.”

antī ērā tō bolwas aulā tī annem nanā lagiyas. eka'am cirkhin hū cer'os holē ās onṭā malā onṭā puthin taṅg'hay saṅgē dharckā ra'ā lagiyas. berā xakhr'ā lagiyā khanē ās adin bactē ra'ā lagiyas. erpā nū hū ās xuṛtī tā maṇḍī onnā tī mūndh gūtī ḫhibrī billī nū bactē ra'ā lagiyas.

antī ērtē-ērtē meṭrik gahi biṛnā ārsiyā kerā.

“anā bā innā ēn emhay lürkuṛiyā kerkā rahackan bact'ū sahebas ba'ā lagiyas ka meṭrik gahi biṛnan kaṭṭā ge patrā ṭulī tā lürkuṛiyā nū kānā manō.”

“anā hō en̄g'hay hedde ḫibā hū mallā. adā namhay phuṭṭalṅgō xūrkī ra'ī, adin nēlā niṅgiyon pēth ho'ā ge ba'dan jokk ḫibā manō holē adin nelbeñjā ho'oy darā kāloy.”

“ēn nēlam kālon thoṛē ba'ā lagdan ka bā teṅgā jun lagdan.”

“हुदा हुसन कचरा कंकद र’ई। हुदिन सन्नी - सन्नी, टोंग’ए ती खण्डके दरा कोरा एं-प ती हें’एके। फड़ा कंकक रहचका होले अदीनुम मण्डी खट’आगे तइयोन पहें।”

“इदा बबू जोकक तीख़लन अरा ओण्टा पोटोंग नन हो’ओते कला निंगागेम फुट्टलंगो गहि सुकटिन हें-चका चिच्चका र’अदन। भिजरी ख़खर’ओ होले खें-दके दरा सनके मो-ख़के।”

“मण्डी बीत’आगे एका डिगचिन हो’ओन बा।”

“हुदा सन्नी डिगचिन हो’आ। अरा सन्नी तवन हो’आ।”

“लेगा अन्ती ए-न काला लगदन बा।”

“कला दव ले कालके। अरा दव ती बचके टूड़के। धरमेस ए-रा लगदस उर्मी कोड़े मनो कालो।”

अन्ती बोलवस तम्बा-तड़िगयो गहि खेड़न कप्पर दरा मौज्जरा नंज्जस अरा पतरा टुली काला गे उरखस केरस। आर आसिन एन्हे ए-रा लगियर का एक’अम पुना बिज्जरऊ कुकेन बिदा चिव्वा लगनर।

“एन्देर गे ख़ंज्जलखोन चुरख़दी बोलवा तड़िगयो। बोलवस मल किर्रोस बर’ओस का।”

“भले एंगन अयो मल ब’अदस पहें एंगहय जिया नू आस गे एवंदा बग्गे अड़डा र’ई अदिन नीन अख़दय।”

“ए-न उर्मिन अख़दन बोलवा तड़िगयो, निंगहय जिया नू आस गे एन्दरा र’ई अदिन।”

अन्ती बोलवस मेट्रिक गहि बिड़नन कट्टा गे टूड़ियस मुंजियस। आस तंगहय संगियर संगे एं-ड़ हपता ख़ो-ख्वा एड़पा किर्रदस।

“बा होय! बखड़े बलिन तिसग’आ।”

“अदा ने- हर बरचका र’अनर किका, बखड़े बलिन मुच्चकी र’अदी का।”

“अदा डेडे गरही मनख़ा बर’ई दरा कठुत ता अम्मन उनी चिव्वी, अवंगे जुन बलिन हुड़का लगाबाचका र’अदन।”

“hudā husan kacrā kañkkad ra'ī. huden sannī-sannī, ṭoñg'e tī khañdkē darā korrā ẽp tī hē'ke. phařā kañkk rahackā holē adinum mañđī khaṭ'äge taiyyon pahē.”

“idā babū jokk tīxlan arā oñtā poṭong nan ho'tē kalā niñggāgem phuṭṭalingō gahi suktin hēckā cicckā ra'dan. bhijrī xakhr'ō holē xēdkē darā sankē mōxkē.”

“mañđī bīt'äge ekā ḋigcin ho'on bā.”

“huddā sannī ḋigcin ho'ā. arā sannī tawan ho'ā.”

“legā antī ēn kālā lagdan bā.”

“kalā dawle kālkē. arā daw tī backē tūrkē. dharmes ērā lagdas urmī kořē manō kālō.”

antī bolwas tambā-tañgiyō gahi xedđan kappar darā moñjrā nañjas arā patrā tulī kālā ge urkhas keras. ār āsin ennē ērā lagiyar ka eka'am punā biñjr'ū kuken bidā ci'lā lagnar.

“ender ge xañjalxon curxdī bolwā tañgiyō. bolwas mal kirros bar'os kā.”

“bhalē eingga ayō mal ba'das pahē eñg'hay jiyā nū ās ge ewndā baggē addā ra'ī adin nīn axday!”

“ēn urmin axdan bolwā tañgiyō, niñg'hay jiyā nū ās ge endrā ra'ī adin.”

antī bolwas metrik gahi biñnan katṭā ge tūriyas muñjiyas. ās tañg'hay sañgiyar sañgge ẽr haptā xoxā eṛpā kirrdas.

“bā hoy! bakhřē balin tisg'ā.”

“adā nē har barckā ra'nar kikā, bakhřē balin mucckī ra'dī kā.”

“adā ḫeđē garhī manxā bar'ī darā kaṭhut tā amman unī ci'ī, awnge jun balin huřkā lagābāckā ra'dan.”

“इदा बबुस बरचस केरस, पिटरिन अट्टय दरा खेड्भन नो-डय चि’ई।”

“साडेन हूँ मल इरका र’अदन बबु तनी बुडा एरा चि’आ तेकेल ओकोय।”

इरका खो-खा उला कुर’ई अदि गहि खो-खा ओण्टा कंसा लोटा नू अम्म, कंसा थरिया अरा खुरिया नू मनी इसुंगन ओन्दर’ई दरा बोलवस गहि खेड्भन नूडी चि’ई। अदि गहि खो-खा नूडका अम्मन मेसगा नू हिबडी दरा सडी गहि अचरा नू झुक’ई।

“होले एकासे रहचकय बबु, अम्मन ओण्ड लिघआ।”

“कोडेम रहचकन बा। मेटरिक गहि बिडनन कट्टा गे अनाईत दव टूड़कन। उर्मी दिम सेब्बा-सेब्बा रहचा। टूड़ा गे गा दव लग्गा लगिया। पहें बेडा मल पूर’आ लगिया।”

“सुको निन अज्जी मेना लगिया, बोलवस एका उल्ला किर्रेस। कालके ए घडी ख्रख्वरके वि’इके।”

“हू पच्चोद गा ...। कादन अन्ती ए घडी ख्रख्वरदन बरदन।”

“मण्डी चि’ओ होले अमके ओना बबु, निम्बस इन्ना एडपा नुम निंगह्य नामे ती ओण्टा खे-रन पिटोस।”

“हं’आ! चाँडे बर’ओन, मण्डी आर गुया मल ओनोन।”

“ओण्ट’आकेम झरन सज’अय अन्ती, बोलवस गहि नामे ती नाम जुन ओनोत।”

“चखना गे गा एन्दरद हूँ मल्ला।”

“रहडी कोनोन पूख’अय।”

“उरमी रहडिन गा खोसोद मोक्खा। इदा तनिक बटिडा र’ई।”

“अदीनुम इडयय अन्ती।”

“एन्ने चाँडे बरचकय बबु, निन अज्जी मल रहचा का।”

“रहचा जुन, ओकका गे बाचा मल उक्ककन।”

“मेख्योय जुन पहें निन अज्जिन।”

“एन्दरा हूँ मल बाचकन।”

“idā babus barcas keras, piṭrin aṭṭay darā xedđan nōray ci'ī.”

“sāren hū mal irrkā ra'dan babū tanī buṛā errā ci'ā tekel okkoy.”

irrkā xōxā ulā kur'ī adi gahi xōxā oṇṭā kāsā loṭā nū amm, kāsā thariyā arā khuriyā nū manī isuṅgan ondrī darā bolwas gahi xedđan nūṛī ci'ī. adi gahi xōxā nūṛkā amman mesgā nū hibrī darā sarī gahi acrā nū juk'ī.

“holē ekāse rahackay babū, amman oṇḍ liṅgh'ā.”

“koṛem rahackan bā. meṭrik gahi bīnan kaṭṭā ge anāit daw tūrkan. urmī dim sebbā-sebbā rahcā. tūrā ge ga daw laggā lagiyā. pahē berā mal pūr'ā lagiyā.”

“sukō nin ajjī menā lagiyā, bolwas ekā ullā kirros. kālkē ē ghaṛī xakhrkē ci'ke.”

“hū paccod gā..... kādan antī ē ghaṛī xakhrdan bardan.”

“maṇḍī ci'ō holē amkē onā babū, nimbas innā erpā num niṅ'hay nāmē tī oṇṭā xēran piṭos.”

“hā'ā! cāṛē bar'on, maṇḍī ār guyā mal onon.”

“onṭ'ākem jharan saj'ay antī, bolwas gahi nāmē tī nām jun onot.”

“cakhnā ge ga endrad hū mallā.”

“rahṛī kōnon pūx'ay.”

“urmī rahṛin ga xossod mokkhā. idā tanik baṭirā ra'ī.”

“adinum iṛyay antī.”

“ennē cāṛē barckay babū, nin ajjī mal rahcā kā.”

“rahcā jun, okkā ge bācā mal ukk'kan.”

“mēxoy jun pahē nin ajjin.”

“endrā hū mal bāckan.”

“इदा बबुस गहि खेड्ड नू झरा अम्मन चुरख्र’अय चिर्ई।”
“ओ-न्द खेता केम ओनोय का बबु।”
“मला - मला।”
“इदा ओन्दा हो बटिडा चखना मो-ख़ा।”
“पूखका होले मो-खोन पहें, इडकद गा अनभनियाँ चबतर्ई।”
“मून्ध गा मल बाचकय पूख्र’ओ चिर्ओ पहें।”
“र’आ चिर्आ बा मल मो-खोन।”
“कला अन्ती मण्डी ओनके, बबुस गे मण्डी खोलय चिर्ई।”
“बरा बबु खेकर्खन नोहर’आ इदा मण्डी ओथर’आ लगदन।”
“जुकिम खोल्लके।”
“एन्दर’अम मोकका रहचकय का बबु।”
“एन्दरन मो-खोय का एन्दरा हूँ मल्ला मोकका, पहें बग्गे कीड़ा
मल लग्गा लगी।”

“idā babus gahi xeđđ nū jharā amman curx'ay ci'ī.”

“ōnd xētā kem onoy ka babū.”

“malā malā.”

“idā ondā hō batıřā cakhnā mōxā.”

“pūxkā holē mōxon pahē, iṛkad ga anbhaniyā cabt'ī.”

“mūndh ga mal bāckay pūx'ō ci'ō pahē.”

“ra'ā ci'ā bā mal mōxon.”

“kalā antī maṇḍī onkē, babus ge maṇḍī xolay ci'ī.”

“barā babū xekkhan nohr'ā idā maṇḍī otthr'ā lagdan.”

“jukkim xollkē.”

“endra'am mokkā rahackay ka babū.”

“endran mōxoy ka endrā hū mallā mokkā, pahē baggē kīrā
mal laggā lagī.”

१५ अन्ती मून्द चन्दो खो-खा बोलवस गहि टूङ्का गहि खंज्जपा
उरखा केरा। गोट्टा पद्धा नू ओरमर कच्छनखर'आ लगियर का
बोलवस गहि नामे राजिन्ता कोहाँ अतखा नू छपरकी र'ई।
बोलवासिन अम्बर दरा पद्धा ता एका कुक्कोर हूँ मेट्रिक गहि बिड्नन
कट्टा गे पोलका रहचर। बोलवस गहि नामे मून्द ता जोक्खा नुम
रहचा। रोपनस अरा करमी अउला नन्नम ए-त्थर'आ लगियर। अउला
लग्गा लगिया का आर गहि एड्पा नू इन्ना बीझी इत्तकी किरकी र'ई।
आर उर्मी दुक्खन मो-धरर केरर। बोलवस गहि मुंहिद हूँ बिलचा
लगिया। गोट्टा पद्धियर बोलवस गहि पत्त नुम अउला कच्छनखर'आ
लगियर। एका-एका एड्पा ता कुक्कोर बिड्नन कट्टा गे पोलका
रहचर आर गुया गा एव्वे लग्गा लगिया का ने-क'आनुम खऱ्ज्ज
चिच्चर दरा किरका र'अनर। ओरमर चुपे - चुपे ओनुम कों-डा -
कों-डा उकियर चिच्चर। बोलवा तम्बस ओरमर गुया काला - काला
आना लगियस, का इन्ना खुड़ती बीरी ता मण्डी एड्पा नु,
बोलवस गहि बिड्नन कट्टना गहि नामे ती ओन्त'ओन अवंगे ओरमर
बरके। तीखिल दाली ओन्दरना गहि चाड मलकी।

'अना बबु कला तो जोक्क जों-खारिन मे-ख़के।'

'एंदेरगे बा।'

'कोहाँ किस्सन इन्ना पिटोत।'

'ईदिम एकला गा बच्छरकी र'ई बा।'

'ए-न गोट्टा पद्धियारिन एड्चका र'अदन। ओरमर इन्ना नम्हय
एड्पा नू खुड़ती बीरी ता मण्डी ओनोर।'

'नीन ब'आ लगदय होले काला लगदन बा। ने-कन - ने-कन
एड'ओन?'

'कला मुडा खूँझी तरा बर'ओर जुन जोक्क जों-ख़र।'

'एन्दरा ब'ओन अन्ती बा।'

'ब'अके किस्सन पिटना र'ई।'

15 antī mūnd candō xōxā bolwas gahi tūrkā gahi xañjpā urkhā kerā. gotṭā paddā nū ormar kacchnakhrā lagiyar ka bolwas gahi nāmē rājintā kohā atxā nū chaprkī raī. bolwasin ambar darā paddā tā ekā kukkor hū meṭrik gahi bīrnan kattā ge polkā rahcar. bolwas gahi nāmē mūnd tā jokkhā num rahcā. ropnas arā karmī aulā nannam ētthrā lagiyar. aulā laggā lagiyā ka ār gahi erpā nū innā bīrī ittkī kirkī raī. ār urmī dukkhan mōdhrar kerar. bolwas gahi mūhid hū bilcā lagiyā. gotṭā paddiyar bolwas gahi patt num aulā kacchnakhrā lagiyar. ekā-ekā erpā tā kukkor bīrnan kattā ge polkā rahcar ār guyā ga ennē laggā lagiyā ka nēk'ānum xajj ciccar darā kirrkā ra'nar. ormar cupē-cupē ūnum kōṛā-kōṛā ukkiyar ciccar. bolwā tambas ormar guyā kālā-kālā ānā lagiyas, ka innā xuṛtī bīrī tā maṇḍī emhay erpā nū, bolwas gahi bīrnan kattnā gahi nāmē tī ont'on awṅge ormar barkē. tīxil dālī ondrnā gahi cār malkī.

“anā babū kalā tō jokk jōxarin mēxkē.”

“enderge bā.”

“kohā kissan innā piṭot.”

“īdim eklā ga bacchrkī raī bā.”

“ēn gotṭā paddiyārin eṛckā ra'dan. ormar innā namhay erpā nū xuṛtī bīrī tā maṇḍī onor.”

“nīn ba'ā lagday holē kālā lagdan bā. nēkan-nēkan eṛ'on?”

“kalā muṛā khūṛī tarā bar'or jun jokk jōxar.”

“endrā ba'on antī bā.”

“ba'kē kissan piṭnā raī.”

अन्ती एका - एकासे बीड़िद पुत्ता हेल्लरा अन्नेम पद्धियर बोलवा
गर गुया बर'आ हेलरर। बोलवा तम्बस कौंहम किस्सन पिटियस।
अन्ति आदिम एकला गा एडपा नू बच्छरकी रहचा। आ किस्सन हूँ
पिटयस चिच्चस। जोकक मुक्कर मून्ध बरचका रहचर आर मक्का
अतख़ा गहि पतंगाली अरा ओरा अतख़ा गहि सोङ्गा ओज्जा लगियर।
जोकक कुकको - कुकेर मण्डी खट'आ लगियर। मण्डी बिच्चका
खो-खा ओरमर मण्डी ओण्डर दरा ओरमर कच्छनखर'आ लगियर
का वोलवस दिम ई पहा गहि नामेन चो-द'ओस। ओरमर अकु
ब'ओर बाप रे बोलवा। अकु आस कोहाँ आल बन'ओस। बोलवा
तम्बस हूँ ब'आ लगियस का बोलवस एंवदा गूटी बच'आ बेद्दोस ए-न
बचत'ओन। अरा कोहाँ आल कम'ओन। बोलवस गे बच'आ गे बनी -
भूति नन्ना मनो ए-न ननोन। अन्ति गोट्टा पद्धियर ओण्डर मोखर अरा
अनभनियाँ नलियर तो-कियर। पाड़ियर - बिच्चियर। ब'आ हेल्लरर
बाप रे रोपना एन्ने दव ओन्ताचकय - मो-खताचकय। मानिम नीन
निंगदासिन कोहाँ आल कम'आ। ओ-न्द चन्दो खो-खा बोलवासिन
आस गहि बचतऊ सहेबस तिंगियस का राँची ता संत जेवियर्स
कोलेज नू पुना - पुना कुकको - कुकेर गहि नामे अरग'आ लगनर।
अन्ति बोलवस तम्बासिन तेंगदस -

“अना बा राँची ता संत जेवियर्स नू पुना - पुना कुककोर गहि
नामे अरग'आ लगनर किका।”

“ने- हर ब'आ लगियर दरा हो।”

“ने- ब'ओर का एमन बचतऊ सहेबस जुन ब'आ लगियस।”

“एकासे ननोन हो अकुन गा ढिबा हूँ मल्ला।”

“किस्सन गा पिटकय चिच्चकय बा अदिन मल पिटका होले
ढिबा मल मनो पहें का।”

“एवंदा बग्गे ढिबा लग्गो दरा बबु?”

“बल्लोन एंगगन मल्ला तिंगका।”

“एकासे ननोन तेंगोय होले जुन, ने-ख'ऐम गुसतेक ढिबा गहि
उधरा पईचा ननोन।”

antī ekā-ekāse bīṛid puttā hellrā annem paddiyar bolwā gar guyā bar'ā helrar. bolwā tambas koham kissan piṭiyas. anti ādim eklā ga erpā nū bacchrkī rahcā. ā kissan hū pityas ciccas. jokk mukkar mūndh barckā rahcar ār makkā atxā gahi pataṅgālī arā orrā atxā gahi sōṛā ojjā lagiyar. jokk kukkō-kuker maṇḍī khaṭā lagiyar. maṇḍī bicckā xōxā ormar maṇḍī oṇḍar darā ormar kacchnakhr'ā lagiyar ka bolwas dim ī paddā gahi nāmen cōd'os. ormar akkū ba'or bāp rē bolwā. akkū ās kohā āl ban'os. bolwā tambas hū ba'ā lagiyas ka bolwas ewndā gūtī bacc'ā beddos ēn bact'on. arā kohā āl kam'on. bolwas ge bacc'ā ge banī-bhūti nannā manō ēn nanon. anti goṭṭā paddiyar oṇḍar mokkhar arā anbhaniyā naliyar tōkiyar. pāriyar-bicciyar. ba'ā hellrar bāp rē ropnā ennē daw ontāckay-mōxtāckay. mānim nīn niṅgasin kohā āl kam'ā. ōnd candō xōxā bolwasin ās gahi bact'ū sahebas tiṅggiyas ka rācī tā sant jeviyars kolej nū punā-punā kukkō-kuker gahi nāmē arg'ā lagnar. antī bolwas tambasin teṅgas—

“anā bā rācī tā sant jeviyars nū punā-punā kukkor gahi nāmē arg'ā lagnar kikā.”

“nē har ba'ā lagiyar darā hō.”

“nē ba'or ka eman bact'ū sahebas jun ba'ā lagiyas.”

“ekāse nanon hōakkun ga ḫhibā hū mallā.”

“kissan ga piṭkay cicckay bā adin mal piṭkā holē ḫhibā mal manō pahē kā.”

“ewndā baggē ḫhibā laggō darā babū?”

“ballon en̄ggan mallā tiṅgkā.”

“ekāse nanon teṅgoy holē jun, nēkh'aim gustek ḫhibā gahi udhrā paīncā nanon.”

“नीन एङ्गपा नुम र’आ ए-न अक्कुनुम ढिबा बेदा गे काला
लगदन। पईचा होच्चका खो-खा किरत’ओन जुन।”

अन्ति रोपनस अक्कु घोख’आ लगदस का किस्सन बछाबाचका
होले अदिन बीसोन दरा ढिबा मनो अतुक बोलवस गहि नामे कोहाँ
लूरकुडिया नू अरगत’ओन चि’ओन पहें। ढिबा हूँ बेद्दोस होले एसतेक
बेद्दोस ने- आस गे ढिबा चि’ओर। बोलवस बिड्डनन कटिट्यस खने
गा गोट्टा पद्धियर आर गुया आस गहि नामे ती ओण्डर मोक्खर,
नलियर - तो-कियर, पाडियर - बिच्चियर। पहें ने- आस गहि नामे
ती पईचा चि’ओर। ने-क’आनुम मेन्दस खने गा ब’अनर :- इन्ना गा
ढिबा चि’ओम पहें एका उल्ला नीन किरत’ओय। जोक्क आलर गा
आस गहि पत्त नू कच्छनक्खर’आ लगियर का रोपनस गहि एङ्गपा नू
ओना मो-खा गे गा मल जूङ्गर’आ लगी, ढिबा चिच्चका ती हूँ
किरत’ओस का मला।

एका बीरी बोलवस बिड्डनन कटिट्यस आ बीरी गा ओरमर आर
गुया ओण्डर मोक्खर पहें बोलवस गहि नामे कोहाँ लूरकुडिया नू
अरगत’आना गहि बेडा अडिसया खने अक्कु ओरमर नन्ना - नन्ना
कच्छनक्खर’आ लगनर। ने- हूँ रोपनस गे ढिबा चि’आ गे मल
गच्छरर। बोलवस गहि नामे ती ओनो मो-खो बीरी एन्ने लग्गा लगिया
का गोट्टा पद्धियर बोलवासिन संगे चि’ओर। पहें अन्ने मल मंज्जा,
ओरमर खो-खा किर्रयर केरर।

“nīn eṛpā num ra'ā ēn akkunum ḥibā beddā ge kālā lagdan.
paiñcā hocckā xōxā kirt'on jun.”

anti ropnas akkū ghokh'ā lagdas ka kissan bachābāckā holē
adin bīson darā ḥibā manō attuk bolwas gahi nāmē kohā
lürkuriyā nū argt'on ci'on pahē. ḥibā hū beddos holē estek
beddos nē ās ge ḥibā ci'or. bolwas biñnan kaṭiyas khanē ga
goṭṭā paddiyar ār guyā ās gahi nāmē tī onḍar mokkhar,
naliyar-tōkiyar, pāriyar-bicciyar. pahē nē ās gahi nāmē tī paiñcā
ci'or. nēk'ānum mendas khanē ga ba'har—innā ga ḥibā ci'om
pahē ekā ullā nīn kirt'oy—. jokk ālar ga ās gahi patt nū
kacchnakkhr'ā lagiyar ka ropnas gahi eṛpā nū onā mōxā ge ga
mal jūṛ'ā lagī, ḥibā cicckā tī hū kirt'os ka malā.

ekā bīrī bolwas biñnan kaṭiyas ā bīrī ga ormar ār guyā
onḍar mokkhar pahē bolwas gahi nāmē kohā lürkuriyā nū
argt'ānā gahi berā ariṣyā khanē akkū ormar nannā-nannā
kacchnakhr'ā lagnar. nē hū ropnas ge ḥibā ci'ā ge mal gacchrar.
bolwas gahi nāmē tī onō mōxō bīrī ennē laggā lagiyā ka goṭṭā
paddiyar bolwasin saṅggē ci'or. pahē annē mal mañjjā, ormar
xōxā kirryar kerar.

रोपनस गहि मेद्दोद गा नलख हूँ मल नना लगी। एन्देर ननोस आस गहि जिया उज्जा - उज्जम उरखा काला लगी बेसे लगा लगी। अकु ने-खय हेदे कालोस घोख'आ हूँ पोल्ला लगदस। गोट्टा उल्ला कुद्धियस पहें आस गे ने- हूँ ढिबा मल चिच्वार। रोपनस गे लगा लगी का खेख्खेल नुकुर खच्चा लगी। आस गे आ बेड़ा याइद बर'आ लगी का एका बीरी बोलवा तडिगयो नोकसान मनी काली। आ बीरी हूँ कफन किचरी मल जूऱर'आ लगिया। कफन किचरी गे हूँ आलर ती पईचा ने-च ईरियस पहें आ बीरी हूँ आस गे ने- हूँ ढिबा मल चिच्वका रहचर। आस गहि खन्न ती खंज्जलखो बत्ता हूँ मल बत्ता लगिया। रोपनस गहि खतरका थीरमलका लेडपोयाँ जियन गोट्टा पद्धियर ए-रा लगनर पहें ने- हूँ आसिन धीरीजा चिआ गे मल बरचर। ओरमर अलखा लगनर। जोककर गा एन्ने हूँ ब'आ लगनर का :- हुदा रोपनस अकु तंगदासिन बचत'ओस, लूरकुड्धिया नू अकुन गूटी नामेन मल अरगका र'अदस कुककन कप्पा लगदस, एकासे जे ननोस। अरे बोलवस गहि नामे ती किस्सन गा मो-ख्रताचस अकु तान एन्देर नन्दस तान अख'ओस।

ropnas gahi meddod ga nalakh hũ mal nanā lagī. ender nanos ās gahi jiyā ujjā-ujjam urkhā kälā lagī bese laggā lagī. akkū nēkhay heddē kālos ghokh'ā hũ pollā lagdas. gotṭā ullā kuddiyas pahē ās ge nē hũ ḥhibā mal ciccar. ropnas ge laggā lagī ka xēxel nukur xaccā lagī. ās ge ā beṛā yāid bar'ā lagī ka ekā bīrī bolwā taṅgiyō noksān manī kälī. ā bīrī hũ kaphan kicrī mal jūṛr'ā lagiyā. kaphan kicrī ge hũ ālar tī paiñcā nēc īriyas pahē ā bīrī hũ ās ge nē hũ ḥhibā mal cicckā rahcar. ās gahi xann tī xañjalxō battā hũ mal battā lagiyā. ropnas gahi khatarkā thīr malkā lerpoyā jiyan gotṭā paddiyar ērā lagnar pahē nē hũ āsin dhīrjā ci'ā ge mal barcar. ormar alkā lagnar. jokkar ga ennē hũ ba'ā lagnar ka— hudā ropnas akkū taṅg dasin bact'os, lürkuṛiyā nū akkun gūtī nāmen mal argkā ra'das kukkan kappā lagdas, ekāse jē nanos. arē bolwas gahi nāmē tī kissan ga mōxtācas akkū tān ender nandas tān ax'os.

१६ “अना को बोलवा एङ्गपा नू र'अदर का! इकिया केरस बबु ए-न नतियस?”

“इदा अकुनुम एका तरा उरखस यो निन नतियस।”

“तान जे इकिया केरा?”

“र'ई उला, मण्डी - अमख्ती नना लगी।”

“मेना लगदी इदा तन अज्जी बरचकी र'ई, हुकन ओन्दरके चि'इके।”

“ओन्दय यो।”

“कण्डोन र'आ चि'ई, इदा पिण्डानुम बन'आँ लगी।”

“अना बबु होले अकु नतियासिन एकसन बचत'ओय?”

“बचत'आ गे गा घोख'आ लगदन पहें ढिबा दिम गा मल मना लगी यो।”

“ने-ख'ऐम गुस्तेक पईचा हो'ओय जुन पहें बबु।”

“ओरमर हेद्दे केरकन यो ने-खय हेद्दे हूँ मल खकखरा। निंग्हय हेद्दे तनिक'ओकेम र'ई का यो।”

“एंग्हय गुसन एसता ढिबा र'ओ बबु र'अना होले निंग्गन ब'आ गे मोका चि'ओन पहें का।”

“ए-रदन ओन कों-डा बटगिन बीसदन किका। ए-रके तो यो नीकइम खें-दनर होले।”

“नन्वर गे ने-का चि'ओए, एमागेम चि'आ, निम्हय बटगी हेद्दे एम्हय खल्ल र'ई अवंगे जुन ब'आ लगिकन। खल्लन गा भॅटना हूँ मल मनो, घोरनन एकला जुन एस्तेक गूठी बीसा लगदय अईय्या गुठी तुककना मनो, अन्नू हूँ गा एंग्गा लग्गी निम्हय तरम एम्हय खल्ल कोरचकी र'ई; ए-र लिंधिओन बबु एङ्गपा नू पच्चा खेस्स एवंदा बग्गे बछरकी र'ई अदिन। पहें एवंदा बग्गे ब'आ लगिकय दरा?”

“निम्हय तरा कोरचका खल्लन गा बीसो बीरिम ओथोरना मनो। एंग्गा लग्गी तनिक'ओकेम कुरचकी र'ई होत'अन।”

16 “anā kō bolwā erpā nū ra'dar kā! ikiyā keras babū en natiyas?”

“idāakkunum ekā tarā urkhas yō nin natiyas.”

“tān jē ikiyā kerā?”

“raī ulā, maṇḍī-amxī nanā lagī.”

“menā lagdī idā tan ajjī barckī raī, hukan ondrkē ci'ke.”

“onday yō.”

“kaṇḍon ra'ā ci'ī, idā piṇḍānum ban'ā lagī.”

“anā babū holē akkū natiyasin eksan bact'oy?”

“bact'ā ge ga ghokh'ā lagdan pahē ḍhibā dim ga mal manā lagī yō.”

“nēkh'aim gustek paiñcā ho'oy jun pahē babū.”

“ormar hedde kerkan yō nēkhay hedde hū mal xakkhrā. niṅghay hedde tanik'ōkem raī ka yō.”

“eṅg'hay gusan estā ḍhibā ra'ō babū ra'nā holē niṅggan ba'ā ge mōkā ci'on pahē kā.”

“ērdan ūn kōṛā batgin bīsdan kikā. ērkē tō yō nīk'im xēndnar holē.”

“nannar ge nēkā ci'oy, emāgem ci'ā, nimhay batgī hedde emhay xall raī awīnge jun ba'ā lagikan. xallan ga bhāṭnā hū mal manō, ghornan eklā jun estek gūṭī bīsā lagday aiyā guṭī tukknā manō, annū hū ga eṅgā laggī nimhay taram emhay xall korckī raī; ēr liṅghi'on babū erpā nū paccā xess ewndā baggē bachrkī raī adin. pahē ewndā baggē ba'ā lagikay darā?”

“nimhay tarā korckā xallan ga bīsō bīrim othornā manō. eṅgā laggī tanik'ōkem kurckī raī hot'an.”

‘‘तनिक’ओकेम एन्देरगे? ओ-न्द आंतरी खळ्ल कुरचकी र’ई।

‘इबडा कत्थन अम्बय यो खळ्लन जोकखा ननो बीरी उरमी खळ्ल दिम उरखो।’’

‘होले एवंदा बग्गे ब’आ लगदय दरा बघु?’’

‘एवंदा बग्गे ब’ओन का यो, निन नतियस गहि नामे टूझ्त’आना नू एवंदा बग्गे लग्गो अन्ती, आद गा नामे अरग’ओ बीरिम जुन अख़तार’ओ। चाँडे ढिबा गहि चाड़ र’ई यो, अवंगे जुन ब’आ लगदन।’’

‘ढिबा दिम जुन लग्गो जोगाड़ी मल मनो का ओ-न्द छटका ख़ेस्सन बीसका ती ढिबा दिम ढिबा। इतिंगाली मला मुनाईन ता ख़ेस्सानुम गा इन्ना गूठी ओना लगदम।’’

‘होन्ने ब’आ लगदी होले चाँडे ननके अन्ती यो।’’

‘ओ-न्द ए-ड उल्ला बेड़ा मल चि’ओय का रोपना।’’

‘चाँडे ननके अन्ती यो।’’

‘एकासे ढिबा गहि जोगाड़ी मनो ए-न निंगा गे ढिबा चि’ओन।’’

अन्ति रोपनस ओन कों-डा बटगिन बीसयस चिच्चस। अक्कु रोपनस गे दव लग्गा लगिया। अरा आस घोख’आ लगियस का बोलवासिन बचत’ओन होले आस कोहाँ आल बन’ओस अरा इन्ना गा ए-न सन्नी खळ्लन बीसका र’अदन ने-ला आस कोहाँ खळ्ल ख़े-दोस।

“tanik'ōkem enderge? ōnd ātrī xall kurckī raī.

“ibrā katthan ambay yō xallan jokkhā nanō bīrī urmī xall dim urkhō.”

“holē ewndā baggē ba'ā lagday darā babū?”

“ewndā baggē ba'on ka yō, nin natiyas gahi nāmē tūrt'ānā nū ewndā baggē laggō antī, ād ga nāmē arg'ō bīrim jun axtār'ō. cārē dhibā gahi cār raī yō, awngé jun ba'ā lagdan.”

“dhibā dim jun laggō jogārī mal manō ka ōnd chaṭkā xessan bīskā tī dhibā dim dhibā. itiṅgālī malā munāin tā xessanum ga innā gūtī onā lagdam.”

“honnē ba'ā lagdī holē cārē nankē antī yō.”

“ōnd ēr ullā berā mal ci'oy ka ropnā.”

“cārē nankē antī yō.”

“ekāse dhibā gahi jogārī manō ēn niṅggā ge dhibā ci'on.”

anti ropnas ôn kōrā batgin bīsyas ciccas. akkū ropnas ge daw laggā lagiyā. arā ās ghokh'ā lagiyas ka bolwasin bact'on holē ās kohā āl ban'os arā innā ga ēn sannī xallan bīskā ra'dan nēlā ās kohā xall xēndos.

१७ "अना बा एन्देर नीन नम्हय बटगिन सुको पच्चो गर गे बीसकय का।"

"ने- निंगन ब'आ लगिया दरा बबु?"

"ने- ब'ओ का, सुको ए-न अज्जी दिम तेंगा लगिया।"

"मानिम बीसकन बबु। गोट्टा बटगिन मला पहें ओन कों-ड़न जुन।"

"ए-न नेख्खेम चौका अरख्खा गे कालोन जुन पहें बा।"

"चौका अरिख्खका ती हूँ एवंदा बग्गे ढिबा मनो बबु। नामे अरग'आगे एकला ढिबा थोरे लग्गो निंगगागे र'आ खतरी हूँ ढिबा लग्गो। एकासे मनो अवंगे जुन बीसकन।"

"ओ..... |"

अन्ति बोलवस गहि नामेन अरग'आ खतरी ढिबा गहि जोगाड़ गा मंज्जा केरा। पहें रोपनस ओ-न्द पे-ठ ए-र लिंघओस अदि गहि ख्खो-ख्खा बोलवासिन राँची ता कोहाँ लूरकुड़िया संत जेवियर्स नू हो'ओस चि'ओस।

"अना बोलवा तडिग्यो ए-रके तो ने-ला बटगी नू एन्दरा - एन्दरा खंज्जकी र'ई।"

"एन्दरद हूँ गा मल्ला खंज्जका। एन्दरन हो'ओय दरा बीसा गे।"

"अरे ने-ला ओण्ट'आकेम किचरी जुन खें-दोन चि'ओन ब'आ लगदन, बोलवस गे।"

"हुदा कोरोंजोन जब्बिका र'अदन, ओ-न्द आँड़को बेसे र'ई, इदीनुम हो'ओके।"

"होले गा किचरी खें-दागे मनो कालो।"

17 “anā bā ender nīn namhay baṭgin sukō paccō gar ge bīskay kā.”

“nē nīnggan ba'ā lagiyā darā babū?”

“nē ba'ō kā, sukō en ajjī dim tēnggā lagiyā.”

“mānim bīskan babū. goṭṭā baṭgin malā pahē ōn kōṛan jun.”

“ēn nēkh'aim caukā arxā ge kālon jun pahē bā.”

“caukā arixkā tī hū ewndā baggē ḫhibā manō babū. nāmē arg'āge eklā ḫhibā thorē laggō nīnggāge ra'ā khatrī hū ḫhibā laggō. ekāse manō awñge jun bīskan.”

“ō.....”

anti bolwas gahi nāmen arg'ā khatrī ḫhibā gahi jogāṛ ga mañjjā kerā. pahē ropnas ōnd pēṭh ēr liñgh'os adi gahi xōxā bolwasin rācī tā kohā lürkuriyā sant jeviyars nū ho'os ci'os.

“anā bolwā tañgiyō ērkē tō nēlā baṭgī nū endrā-endrā xañjkī ra'ī.”

“endrad hū ga mallā xañjkā. endran ho'oy darā bīsā ge.”

“arē nēlā onṭākem kicrī jun xēdon ci'on ba'ā lagdan, bolwas ge.”

“hudā koroñjon jabbikā ra'dan, ōnd āṛkō bese ra'ī, idīnum ho'ke.”

“holē ga kicrī xēdāge manō kālō.”

पे-ठ गहि उल्ला रोपनस गोहला कुड़ी ननर दरा चाँडे एड़पा
किर्रदस। लण्डी लोहाड़ी मंज्जा आ बीरिम आस अउला गोहलन
बिच्छिरस चिच्चस। अरा तूसा नू एम'अर ख़जर'अर दरा एड़पा
कादस। ख़जरना ख़ज्ज आ तूसा हेद्देम उरखा लगिया। रोपनस
अत्तुकिम उर्मी उल्ला ख़जर'आ लगियस। नन्ना - नन्ना आलर हूँ
असता ख़ज्जन अजम पइतार'आ लगियर। जोकक कुके ख़द्दर गा
अदिन सोन्दहा लग्गा लगी बाच - बाच मो-ख़ा हूँ लगियर।

"अड्डोन अककुन इबड़तिम छेकके, अरा लोहाड़ी मनो होले
एड़पा हो'ओके। अड़ती बीरी ए-ख़र'ओ होले अड्डोन चाँडे
बिच्छिरके।"

"पे-ठ ती ओण्टा खरपा ओन्दरके चि'इके बा।"

"दिबा मनो होले ए-रोन।"

"होले एन्दरन अत्तोन दरा कालोन बा।"

"ओन्दर'ओन हो।"

रोपनस गहि पे-ठ काना ती मून्ध बोलवा तड़िगयो पे-ठ हो'ओना
आलोन ओण्टा बोरा नू सज्जा चिच्चा।

"इदा एन्दरा-एन्दरन हो'ओदय उर्मिन सज्जका चिच्चका
र'अदन।"

"मून्ध एंगगा बासी मण्डन चि'ई तो अदि गहि खो-ख़ा नन्ना
नलख ननते र'ओए।"

"इदा ओन्दा लोटा नू अम्म नो-ढोर लिघह'आ।"

"जुकिम मण्डी ओत्थरके। अम्म मण्डी र'ई होले अम्म मण्डी
चि'इके। ए-कते पे-ठ काना मनो।"

pēṭh gahi ullā ropnas gohlā kuḍḍī nanar darā cāṛē erpā kirrda. laṇḍī lohāṛī mañjjā ā bīrim ās aulā gohlan bicchiras ciccas. arā tūsā nū em'ar xajr'ar darā erpā kādas. xajrnā xajj ā tūsā heddem urkhā lagiyā. ropnas attukim urmī ullā xajr'ā lagiyas. nannā-nannā ālar hū astā xajjan ajam paittār'ā lagiyar. jokk kuke xaddar ga adin sond'hā laggā lagī bāc-bāc mōxā hū lagiyar.

“aḍdon akkun ibrātim chekkē, arā lohāṛī manō holē erpā ho'ke. aṛtī bīrī ēxr'ō holē aḍdon cāṛē bicchirkē.”

“pēṭh tī oṇṭā kharpā ondrkē ci'kē bā.”

“dhibā manō holē ēron.”

“holē endran atton darā kālon bā.”

“ondr'on hō.”

ropnas gahi pēṭh kānā tī mūndh bolwā taṅgiyō pēṭh ho'nā ālon oṇṭā borā nū sajjā ciccā.

“idā endrā-endran ho'day urmin sajjkā cicckā ra'dan.”

“mūndh eṅgā bāsī maṇḍin ci'ī tō adi gahi xōxā nannā nalakh nantē ra'oy.”

“idā ondā lotā nū amm nōṛhor liṅgh'ā.”

“jukkim maṇḍī otthrkē. amm maṇḍī raī holē amm maṇḍī ci'ke. ēktē pēṭh kānā manō.”

इन्ना रोपनस अउर उल्ला ता पे-ठ ती नन्म सपङ्गारस। आस इन्ना पगरिन हूँ नन्म हें-चस। धुतिन हूँ अउर उल्ला ती नन्म चो-चस। एन्द्रेरगे एन्ने मल ननोस तङ्गदस राँची ता कोहाँ लूरकुङ्गिया नू जे बच'आ कालोस। अरा आस गहि नामे ती इन्ना पे-ठ मनो। रोपनस गे एवंदा दव लग्गा लगी। अरा रोपना तङ्गियोन गा अम्बा आना आद गा सैल - सैल एडपा नू कोर'आ उरखा लगी। अदी गे हूँ इन्ना ता पे-ठ उल्ला नन्म लग्गा लगी। रोपनस पे-ठ हो'ओना बोरन बाँस गहि सोट्टा नू ओ-न्द तरा हें'अर दरा चेडदस अरा उर्खदस कादस। बोलवस चोल्ला तरतिक गूल नन्दस।

“अड्डोन ए-रके बा।”

“मल्लस निम्बस बबु पे-ठ केरस।”

“निंगगन ने- मेना लगी।”

“अड्डोन खुट'आ दरा बरा, इदा ओन्दा नोहोर'आ मण्डी ओना गे।”

“हुसानुम लोटन मङ्गाब'अय चि'ई।”

“उर्मी उल्ला पुईदाचका मण्डिन चि'इदी।”

“निम्बस दिम पुईद'आगे ब'अदस।”

“आस गेम उर्मी उल्ला पुईद'आ - पुईद'आ चि'इके।”

“ठौकम गा लगी बबु।”

“चुपे र'अय महले ओन्दय नीनिम ओनय।”

“अउर मण्डी चि'ओन का बबू।”

“नीनिम ओनय।”

“होन्ने मल कच्छनखरनर बबु।”

“ओ होले नीन एंगगन कच्छनखर'आ गे हूँ तेंगा लगदी।”

“ईनिम बलदन बबु।”

“ने- बाचा। नीनिम गा उर्मिन अखङ्गदी।”

“एन्देर मन्दर को बोलवा।”

“एन्दरा मनोय का यो।”

innā ropnas aur ullā tā pēṭh tī nannam sapṛāras. ās innā pagrin hū nannam hēcas. dhutin hū aur ullā tī nannam cōcas. enderge ennē mal nanos taṅgas rācī tā kohā lürkuṛiyā nū jē bac'ā kālos. arā ās gahi nāmē tī innā pēṭh manō. ropnas ge ewndā daw laggā lagī. arā ropnā taṅgiyon ga ambā ānā ād ga sail-sail ेrpā nū kor'ā urkhā lagī. adi ge hū innā tā pēṭh ullā nannam laggā lagī. ropnas pēṭh ho'nā bōran bās gahi soṭtā nū ōnd tarā hē'ar darā cerdas arā urkhdas kādas. bolwas collā tartik gūl nandas.

“ad̄don ērkē bā.”

“mallas nimbas babū pēṭh keras.”

“niṅgan nē menā lagī.”

“ad̄don khuṭ'ā darā barā, idā ondā nohor'ā maṇḍī onā ge.”

“husanum lotan marāba'ay ci'ī.”

“urmī ullā puīdāckā maṇḍin ci'dī.”

“nimbas dim puīd'āge ba'das.”

“ās gem urmī ullā puīd'ā-puīd'ā ci'ke.”

“ṭhaukam ga laggī babū.”

“cupē ra'ay mahlē onday nīnim onay.”

“aur maṇḍī ci'on ka babū.”

“nīnim onay.”

“honnē mal kacchnakhrnar babū.”

“ō holē nīn eṅgan kacchnakhr'ā ge hū teṅgā lagdī.”

“īnim baldan babū.”

“nē bācā. nīnim ga urmin axdī.”

“ender mandar kō bolwā.”

“endrā manoy ka yō.”

“एखोन को बोलवा, निम्बस गने पे-ठ मल केरकय।”

“केरका रहचकन बरचकन।”

“एन्दरन कालोस का यो निन नतियस हिकदस अवंगे जुन
अलखदस।”

“होन्ने हर ठक’ओय को।”

“निंगन मल ठक’ओन होले ने-कन ठक’ओन।”

“ठकचका र’आ, ने-ला नेलबैज्जा कालोय होले ठक’ओय।”

“निंगन हूँ हो’ओते कालोन।”

“कालोन निंग्हय संगेम।”

“बोलवा तम्बस एका बीरी पे-ठ ती किर्रोस मई।”

“किरा लगदस होत’अन यो। इन्ना बग्गे बेड़ा मल लग्गो ब’आ
लगियस।”

“एन्देरगे बरचकी रहचकी अन्ती यो।”

“एन्नेम जुन कुद्दा गे बरचकी रहच’अन। कालेन अन्ती।”

“इदा हुका ओण्ड लिंघ’अय।”

“चि’ई अन्ती। इदा बोलवा तम्बस बर’आ लगदस किका।
अककुनुम निंग्हय नामेन नना लगिकम बबु।”

“इदा थइलन उइय्यय चि’ई। ओ-न्द डुबहा बासी अम्मन अउर
चि’इके।”

“इन्नेला एकासे भाव चलर’आ लगी बबु?”

“ई पाली छपन्हाँ औड़का ती मल चलर’आ लगिया, कोहाँ
पइला बेद्दा लगियर। ए-न गा चाँडे केरकन अवंगे छपन्हाँ पइला तिम
कोरोंजोन बीसकन। बोलवस जे इकया केरस?”

“अड्डोन होच्चस किका बबु।”

“आस गे किचरी ओन्दरका र’अदन, अत ए-रोस पहें बन’ई
का मला, महले किरत’आना मनो।”

“ekhon kō bolwā, nimbas gane pēṭh mal kerkay.”

“kerkā rahackan barckan.”

“endran kālos ka yō nin natiyas hikdas awnge jun alkhdas.”

“honnē har ṭhak'oy kō.”

“nīnggan mal ṭhak'on holē nēkan ṭhak'on.”

“ṭhakckā ra'ā, nēlā nelbeñjā kāloy holē ṭhak'oy.”

“nīnggan hū̄ ho'tē kālon.”

“kālon nīng'hay sānggem.”

“bolwā tambas ekā bīrī pēṭh tī kirros māi.”

“kirrā lagdas hot'an yō. innā baggē berā mal laggō ba'ā lagiyas.”

“enderge barckī rahackī antī yō.”

“ennem jun kuddā ge barckī rahe'an. kālen antī.”

“idā hukā onq̄ līng'hay.”

“cīī antī. idā bolwā tambas bar'ā lagdas kikā. akkunum nīng'hay nāmen nanā lagikam babū.”

“idā thailan uiyyay cīī. ond ḍub'hā bāsī amman aur cī'ike.”

“innēlā ekāse bhāw calr'ā lagī babū?”

“ī pālī chapnahā̄ aurkā tī mal calr'ā lagiyā, kohā̄ pailā beddā lagiyar. ēn ga cārē kerkan awnge chapnahā̄ pailā tim koroñjon bīskan. bolwas jē ikyā keras?”

“ad̄don hoccas kikā babū.”

“ās ge kicrī ondrkā ra'dan, att ēros pahē ban'ī ka malā, mahlē kirt'ānā manō.”

‘‘ठौकम गा लग्गा लगी बन’ओ कालो होत’अन बबु ।’’

‘‘लेगा अन्ती ए-न हूँ कादन बबु ।’’

‘‘ए-न हूँ बटगी तरा कादन ।’’

‘‘इदा बोलवा तडिंगयो पे-ठ ती खैदचका चोप्पो इंज्जोन
ओन्दरका र’अदन । खुड़ती बीरी इदी नुम इर्तिके । सरला सुकटी र’ई
होले अदी संगे मेसा ननके तो बेस एम्बा लग्गी ।’’

“ṭhaukam ga laggā lagī ban'ō kālō hot'an babū.”

“legā antī ēn hū̃ kādan babū.”

“ēn hū̃ batgī tarā kādan.”

“idā bolwā taṅgiyō pēṭh tī xaidāckā coppō iñjon ondrkā ra'dan. xurṭī bīrī idi num irtkē. sarlā suktī raī holē adi saṅggē mesā nankē tō bēs embā laggī.”

१८ खुड़ती बीरी तिनोझन चाली नू ओक्कर दरा घोखनर का एका
उल्ला राँची ता कोहाँ लूरकुड़िया नू नामे अरग'आ गे काना मनो।
बोलवस गे गा लग्गा लगी का ने-लम केरका होले कोड़े मनो।

'नेलबेंज्जा राँची कालोत होले एकासे मनो बबु।'

'ए-न गा ने-लम कालोत ब'आ लगिकन बा।'

'ने-ला मल बन'ओ बबु किचरी - डोडोन सरिय'आना मनो का,
अन्नेम कालोय।'

'होले ए-न एडपा मल बर'ओन का बा?'

'एन्देर नना गे बर'ओय, ढिबा मुंज्जर'ओ होले हो'आ गे
बरके।'

'ए-न गा घोख'आ लगिकन का नामेन अरगाचका ख्वो-ख्वा
एडपा बर'ओन दरा ओ-न्द - एं-ड उल्ला एडपा नू र'अर दरा राँची
कालोन।'

'काला बर'आ गे ढिबा मल लगी का।'

'होन्ने ब'अदय होले र'ओन अन्ती बा।'

बोलवस अरा रोपनस अक्कु जिवाइन किचरी - डोडोन
सरिय'आ लगनर। काना अउला ता माखा गा बोलवस गे ख़न्दर'आ^{हूँ}
मल तुकका लगिया। आस गे लग्गा लगिया का एका बीरी ख्वे-रद
चींखो। अउला माखा आस गहि खन्न मिंख्या होले आस गे कोहाँ
लूरकुड़िया गहि दिम तुड्गुल ए-त्थर'आ लगिया। गोट्टा माखा
घोख'आ लगियस का कोहाँ लूरकुड़िया एकासे र'ई होत'अन। अन्ती
पइरी मंज्जा केरा। बोलवस चाँडेम कड़िका चबचस एमचस मूझरस
दरा सपड़ारस।

'ए-रय तो पोटोंग नू एन्दरा - एन्दरा सुकटी खैदका र'ई।'

'फुटलंगो अरा खिलबिरी सुकटी एकला गा र'ई।'

'फुटलंगो सुकटिन तनिक सजके चिइके सन'ओस
मो-ख्वोस।'

'इदा कटिक इंज्जो खैदका हूँ र'ई।'

18 xuṛtī bīrī tinō jhan cālī nū okkar darā ghokhnar ka ekā ullā rācī tā kohā lūrkuriyā nū nāmē arg'ā ge kānā manō. bolwas ge ga laggā lagī ka nēlam kerkā holē koṛē manō.

“nelbeñjā rācī kālot holē ekāse manō babū.”

“ēn ga nēlam kālot ba'ā lagikan bā.”

“nēlā mal ban'ō babū kicrī-đodđon sariy'ānā manō kā, annem kāloy.”

“holē ēn eṛpā mal bar'on ka bā?”

“ender nanā ge bar'oy, ḫhibā muñjr'ō holē ho'ā ge barkē.”

“ēn ga ghokh'ā lagikan ka nāmen argāckā xōxā eṛpā bar'on darā ōnd-ĕr ullā eṛpā nū ra'ar darā rācī kālon.”

“kālā bar'ā ge ḫhibā mal laggī kā.”

“honnē ba'day holē ra'on antī bā.”

bolwas arā ropnas akkū jiwāin kicrī đodđon sariy'ā lagnar. kānā aulā tā māxā ga bolwas ge xandr'ā hǔ mal tukkā lagiyā. ās ge laggā lagiyā ka ekā bīrī xērad cīxō. aulā māxā ās gahi xann miňkkhyā holē ās ge kohā lūrkuriyā gahi dim tuňgul ētthr'ā lagiyā. goṭṭā māxā ghokh'ā lagiyas ka kohā lūrkuriyā ekāse ra'ī hot'an. antī pairī maňjjā kerā. bolwas cārem kařikā cabcas emcas mūjhras darā saprāras.

“ēray tō poṭoṅg nū endrā-endrā suktī xaidkā ra'ī.”

“phuṭṭalṅgō arā khilbirī suktī eklā ga ra'ī.”

“phuṭṭalṅgō suktin tanik sajkē ci'kē san'os mōxos.”

“idā kaṭik iñjō xaidkā hǔ ra'ī.”

“असन इर्ता मो-ख़ा गे थोरे चिओर का। इंज्जोन होओस दरा
एन्देर ननोस।”

“होले मण्डी अमर्खी अन्ती ने- बीतओ चिओ।”

“asan irtā mōxā ge thorē ci'or kā. iñjon ho'os darā ender nanos.”

“holē maṇḍī amxī antī nē bīt'ō ci'ō.”

“उर्मी खटचका इर्तका दिम ख्रखर’ई।”

“ए-न थोरे अख़’आ लगदन।”

“गुचा बबू चाँडे नना बेड़ा मंज्जा केरा।”

“गुचा बा कालोत।”

अन्ती उर्खना ती मून्ध बोलवस तड़िगयो गहि खेड़डन कप्पर दरा मौज्जरा नन्दस। आद आस तरा खेक्खन मुन्धभारे ननर आशिर्वाद चिँई। अदी गे हूँ अउला लगिया का बोलवस मानिम एंगहय खद्द तलिदस। उर्मी उल्ला आस अदी संगे दव मल कच्छनखर’आ लगियस पहें इन्ना मौज्जरा नंज्जस। अरा बोलवस तम्बस गने उरखदस कादस। लूरकुड़िया नू नामे अरग’ओ बीरी एन्देर बेड़हा हूँ मल मंज्जा। नामे अरगाचका खो-ख्वा रोपनस अउलम झुंझकुर मन्ना गे एडपा किर्दस कादस। राँची नू रोपनस गे कुद्दा गा तुक्का लगिया पहें एसन कुद्दोस राँची गा रोपनस गे पुना अड़डा रहचा। आस गा अउरम अख़’आ लगियस का राँची नू संत जेवियर्स कोलेज एसन र’ई, अरा कोलेज गुसतेक एकसन गड़ी धर’आ गे काना मनी।

“इन्नम किर्कय केरकय बोलवा तम्बायो।”

“असन ए-न एन्देर ननोन पहें का।”

“होले बबूस एका उल्ला किर्रेस?”

“तनिक आसिन रितयार’आगे चिँई अदि गहि खो-ख्वा मे-खोत जुन। आसिन नाम एकासे बचत’ओत अदिन नीन घोखऐ। ढिबा गा अजम लग्गो बेसे लगिया।”

“एवंदा ढिबा लग्गो का बोलवा तम्बायो, बनी भूती नन्ना मनो ए-न ननोन।”

“ठौकम ब’अदी बोलवा तड़िगयो, ओ-न्द साँझ ता अमखिन मल मो-खोत होले मल बन’ओ का।”

“urmī khaṭackā irtkā dim xakhrī.”

“ēn thorē ax'ā lagdan.”

“gucā babū cārē nanā berā mañjjā kerā.”

“gucā bā kālot.”

antī urkhnā tī mūndh bolwas tañgiyō gahi xedđan kappar darā moñjrā nandas. ād ās tarā xekkhan mundhbhāre nanar āsirwād ci'ī. adi ge hū aulā lagiyā ka bolwas mānim eīg'hay xadd talidas. urmī ullā ās adi sañggē daw mal kacchnakhrā lagiyas pahē innā moñjrā nañijas. arā bolwas tambas gane urkhdas kādas. lürküriyā nū nāmē arg'ō bīrī ender berhā hū mal mañjjā. nāmē argāckā xōxā ropnas aulam jhuñjhkur mannā ge eṛpā kirrdas kādas. rācī nū ropnas ge kuddā ga tukkā lagiyā pahē esan kuddos rācī ga ropnas ge punā ađđā rahcā. ās ga auram ax'ā lagiyas ka rācī nū sant jeviyars kolej esan ra'ī, arā kolej gustek eksan gaṛī dhar'ā ge kānā manī.

“innam kirrkay kerkay bolwā tambāyō.”

“asan ēn ender nanon pahē kā.”

“holē babus ekā ullā kirros?”

“tanik āsin rityār'āge ci'ī adi gahi xōxā mēxot jun. āsin nām ekāse bact'ot adin nīn ghokh'ay. ḫhibā ga ajam laggō bese lagiyā.”

“ewndā ḫhibā laggō ka bolwā tambāyō, banī bhūtī nannā manō ēn nanon.”

“ṭhaukam ba'dī bolwā tañgiyō, ḥond sājh tā amxin mal mōxot holē mal ban'ō kā.”

१९ अन्ती आर बोलवस गहि केरका खो-खा बनी भुती नंज्जका ढिबन बच्छाब'आ लगियर। ओ-न्द साँझ गा अमखीदिम मल मो-खा लगियर। एका - एका उल्ला गा ए-ङो साँझ अमखी मल मो-खा लगियर। आर मण्डिन पुईद'आ लगियर दरा प्यांज गाने एकला ओना लगियर। एन्नेम ननते - ननते ए-ङड चन्दो कटिट्या केरा। रोपनस हूँ घोख'आ लगियस का ओ-न्द पे-ठ मंज्जका खो-खा बोलवस संगो खखर'आ गे कालोन। आस गे ढिबा अंड्सत'ओन चि'ओन।

'एंगगन ई पाली हो'ओय बोलवस गने खखर'आगे।'

'नीन एन्दरा खारा कालोय बोलवा तंडिगयो।'

'राँची शहर ए-रा गे जुन कालोन ब'आ लगिकन।'

'होन्ने ब'अदी होले कालोत जुन अन्ती।'

'होले बोलवस गे ई पाली एन्दरा - एन्दरा हो'ओत चि'ओत बोलवा तम्बायो।'

'एन्दरन हो'ओय का गुण्डा र'ई होले खपरा असमा मेकखके चि'इके। धुकड़ी लड्डु हूँ कमके चि'इके आद चाँडे मल बिगड़ार'ई।'

'ने-ला पे-ठ ती जोकक इसुंग ओन्दरके होले अउर इन्दर'इम असमा मेकखोन चि'ओन।'

अन्तिले रोपनस पे-ठ ती उरभी आलोन ओन्दरदस बरदस। पुतबीरी बोलवा तंडिगयो अन'आ - रित'आ गहि असमा मेकखी बोलवस गे हो'आ गे। नन्ना उल्ला पईरी बीरी रोपना सिन आनी:-

'जोकक कंककन पलका चि'आ तो पुतबीरी एकाबीरी किरदय होले। एन्देरगे का किट'आ गे इन्ना कंककद हूँ मलकी। महले एन्दरा ती मण्डी बीत'ओन।'

'मसा टोंग'एन ओत्थरके चि'इके तो।'

'इदा चकचका हूँ मलकी किका।'

'हुदा हुसन चो-पो पखना र'ई हुन्नू चक'आ नी।'

'लोहरर हेद्दे हूँ इन्ना मल होच्चकन पजाब'आगे। ने- अख'आ लगी। बन'ओ इन्ना खो-द। एखो एकसन र'ई।'

'हुदा हू ठुकड़न जुन पलका गे ब'आ लगदन।'

19 antī ār bolwas gahi kerkā xōxā banī bhutī nañjjkā ḫhiban bacchāba'ā lagiyar. ḥond sājh ga amxī dim mal mōxā lagiyar. ekā-ekā ullā ga ẽrō sājh amxī mal mōxā lagiyar. ār mañđin puñd'ā lagiyar darā pyāj gane eklā onā lagiyar. en nem nantē-nantē ẽr candō kaṭtiyā kerā. ropnas hū ghokh'ā lagiyas ka ḥond pēth mañjkā xōxā bolwas sañggē xakhr'ā ge kālon. ās ge ḫhibā ãrst'on ci'on.

“enggan ī pālī ho'oy bolwas gane xakhr'āge.”

“nīn endrā xārā kāloy bolwā tañgiyō.”

“rācī śahar ērā ge jun kālon ba'ā lagikan.”

“honnē ba'dī holē kālot jun antī.”

“holē bolwas ge ī pālī endrā-endrā ho'ot ci'ot bolwā tambāyō.”

“endran ho'oy ka gunḍā ra'ī holē khaprā asmā mekkhkē ci'ke. dhukṛī laḍdu hū kamkē ci'kē ad cārē mal bigṛār'ī.”

“nēlā pēth tī jokk isung ondrkē holē aurindr'im asmā mekkhon ci'on.”

antile ropnas pēth tī urmī ālon ondrdas bardas. putbīrī bolwā tañgiyō an'ā-rit'ā gahi asmā mekkhī bolwas ge ho'ā ge. nannā ullā pairī bīrī ropnasin ānī—

“jokk kañkkan palkā ci'ā tō putbīrī ekābīrī kirrday holē. enderge ka ki'ā ge innā kañkkad hū malkī. mahlē endrā tī mañđī bīt'on.”

“masā ṭōng'en otthrkē ci'kē tō.”

“idā cakckā hū malkī kikā.”

“hudā husan copō pakhnā ra'ī hunnū cak'ā nī.”

“lohrar hedde hū innā mal hocckan pajāba'āge. nē ax'ā lagī. ban'ō innā xōnd. ekhin eksan ra'ī.”

“hudā hū ḫukrān jun palkā ge ba'ā lagdan.”

“इदा दाविम गा पलकर’ई।”

“पलिकका ती पलकर’ओ जुन बोलवा तम्बायो”

“मुंज्जा खच्चदन किका।”

“मुंज्जा जुन अन्ती अदि गहि खो-खा कालोत जुन।”

“कट्टुद हूँ चड़किया किका तीखिल सज’आगे कादन।”

अन्ती ओ-न्द ए-ड़ फड़ा पलका गे बच्छरकी रहचा आ बीरिम बोलवस ओन्दतरा खेंसेर नू बकसन अरा मे-द तरा गुदड़ी गहि मुटरिन चेड़’अर दरा एड़पा अंड़सदस कादस। रोपनस आसिन ईरियस दरा एन्ने कैरारस का आस गे लगिया का फड़ा कंकक संगगे आसिन हूँ पलकोस चि’ओस। बोलवस तम्बासिन चोल्ला तरा ईरियस पहें एन्दरा हूँ मल बाचस। आस चुपेम एड़पा कोरचस केरस। रोपनस हूँ बोलवासिन खींस ती एन्दर हूँ ब’आ पोल्लस। जोकक बेड़ा खो-खा रोपनस बोलवस हेदे केरस। बोलवासिन ईरियस खने आस गे कच्छनखर’आ हूँ मल तुकका लगिया पहें एन्देर ननोस तड़गदस हिकदस एन्देरगे किर्यस अदिन गा मेन्नम मनो। घोखदस एन्नेम एड़पा बरचका होले गा बकसा गुटिठन मल ओन्दर’ओस पहें। एन्दरा मंज्जा होत’अन हुरमी आलोन एड़पा ओन्दरस बरचस। ए-न मल मेनोन होले ने- मेनो।

“अना बबु एन्देरगे एड़पा किर्कय?”

“ए-न राँची नू मल बच’ओन बा।”

“एन्देरगे, एन्दरा मंज्जा दरा।”

“एन्दरा मनो का एन्दरा हूँ मला।”

“एवंदा बग्गे ढिबा लगिया बबु नीन मल बुझुर’आ लगदय।”

“एंगन चैनपुर कोलेज नू बचत’आ ए-न बच’ओन।”

“अवंदा दव कोलेज नू निंग्हय नामेन अरगताचका चिच्चका रहचकन पहें एन्देरगे नीन मल बचचकय असन।”

“एंगन पसा पिटा चि’आ अन्नु हूँ ए-न राँची नू मल बच’ओन।”

“होन्ने ब’अदय होले बन’ओ अन्ती नीन एस’आनुम बच’आ, ए-न निंग्नन बचत’ओन।”

“idā dāwim ga palkrī.”

“palikkā tī palkrō jun bolwā tambāyo.”

“muñjā xaccdan kikā.”

“muñjā jun antī adi gahi xōxā kālot jun.”

“kaṭṭud hū̄ cărkiyā kikā tīxil saj'āge kādan.”

antī ḍond ēṛ phaṛā palkā ge bacchrkī rahcā ā bīrim bolwas
ōndtarā xēser nū̄ baksan arā mēd tarā gudṛī gahi muṭrin ceṛ'ar
darā erpā āṛsdas kādas. ropnas āsin īriyas darā ennē kairāras ka
ās ge lagiyā ka phaṛā kaikk saiggē āsin hū̄ palkos ci'os. bolwas
tambasin collā tarā īriyas pahē endrā hū̄ mal bācas. ās cupem
erpā korcas keras. ropnas hū̄ bolwasin khīs tī ender hū̄ ba'ā
pollas. jokk beṛā xōxā ropnas bolwas heddē keras. bolwasin
īriyas khane ās ge kacchnakhrā hū̄ mal tukkā lagiyā pahē ender
nanos taṅgdas hikdas enderge kirriyas adin ga mennam manō.
ghokhdas ennem erpā barckā holē ga baksā guṭṭhin mal ondr'os
pahē. endrā mañjjā hot'an hurmī ālon erpā ondras barcas. ēn mal
menon holē nē menō.

“anā babū enderge erpā kirrkay?.”

“ēn rācī nū̄ mal bac'on bā.”

“enderge, endrā mañjjā darā.”

“endrā manō ka endrā hū̄ malā.”

“ewndā baggē ḫhibā lagiyā babū nīn mal bujhrā lagday.”

“enggan cainpur kolej nū̄ bact'ā ēn bac'on.”

“awndā daw kolej nū̄ niṅ'hay nāmen argtāckā cicckā
rahackan pahē enderge nīn mal bacackay asan.”

“enggan pasā piṭā ci'ā annū hū̄ ēn rācī nū̄ mal bac'on.”

“honnē ba'day holē ban'ō antī nīn es'anum bac'ā, ēn
niṅggan bact'on.”

२० गोट्टा पद्धा नू अर्रा लग्गना बेसे बोलवस गहि एङ्गपा किर्रका कत्था मेन्दर'आ हेल्लरा। ओरमर आस गहि पत्त नू कच्छनखर'आ लगियर। रोपनासिन का बोलवा तडिगयोन नीकइम हूँ ईरियर होले बोलवस गहि पत्त नू मेना लगियर। पहें आर एन्दरन तेंगोर आर गा तामिम थाह मल ख़क्खा लगियर का बोलवस एन्देरगे एङ्गपा किर्रयस। बोलवस तडिगयो तम्बासिन हूँ मल तेंगा लगदस का एन्देरगे एङ्गपा किर्रयस। पहें आस गा इवरम ब'अदस का ए-न चैनपुर नू बच'ओन। पद्धियर गा बोलवस गहि पत्त नू अन'आ - रित'आ गहि कच्छनखर'आ लगियर। आर गा बोलवस गहि पत्त नू एन्ने ब'आ लगियर का बोलवस अक्कु मल नेहेल'ओस। रोपनस अरा करमी गा पईरी ना पुतबीरी उरमी बीरी घोख'आ लगियर का बोलवासिन एकासे बचत'ओत। आर अक्कु घोख'आ लगनर का एस'आनुम बच'ओस आसिन बचत'आना र'ई। आर चैनपुर नू हूँ बचत'आ गे गच्छरर केरर। आर अक्कु एन्ने हूँ घोख'आ लगनर का अक्कु एङ्गपा ती चैनपुर कोलेज कालोस होले गेच्छा मल मनो का ढिबा हूँ बग्गे मल लग्गो। अन्ती रोपनस नन्ना उल्लम बोलवस गहि नामे चैनपुर ता अलबर्ट कोलेज नू अरग'आगे घोखदस।

"अना बबु बोलवा ने-ला चैनपुर कोलेज कालोत अन्ती। असन निंगहय नामेन अरगत'ओन चि'ओन।"

"बन'ओ बा कालोन।"

"ढिबा एवंदा लग्गो होत'अन, हो।"

"एवंदा लग्गो का बग्गे मल लग्गो होत'अन, बा।"

20 goṭṭā paddā nū arrā laggnā bese bolwas gahi eṛpā kirrkā katthā mendr'ā hellrā. ormar ās gahi patt nū kacchnakhr'ā lagiyar. ropnasin ka bolwā taṅgiyon nīk'im hū ṫriyar holē bolwas gahi patt nū menā lagiyar. pahē ār endran teṅgor ār ga tāmim thāh mal xakkhā lagiyar ka bolwas enderge eṛpā kirriyas. bolwas taṅgiyō tambasin hū mal teṅgā lagdas ka enderge eṛpā kirryas. pahē ās ga iwram ba'das ka ēn cainpur nū bac'on. paddiyar ga bolwas gahi patt nū anā-rit'ā gahi kacchnakhr'ā lagiyar. ār ga bolwas gahi patt nū ennē ba'ā lagiyar ka bolwas akkū mal nehel'os. ropnas arā karmī ga pairī nā putbīrī urmī bīrī ghokh'ā lagiyar ka bolwasin ekāse bact'ot. ār akkū ghokh'ā lagnar ka es'anum bac'os āsin bact'ānā raī. ār cainpur nū hū bact'ā ge gacchrar kerar. ār akkū ennē hū ghokh'ā lagnar ka akkū eṛpā tī cainpur kolej kālos holē gecchā mal manō ka ḫhibā hū baggē mal laggō. antī ropnas nannā ullam bolwas gahi nāmē cainpur tā albarṭ kolej nū arg'āge ghokhdas.

“anā babū bolwā nēlā cainpur kolej kālot antī. asan niṅ'hay nāmen argt'on ci'on.”

“ban'ō bā kālon.”

“ᜥhibā ewndā laggō hot'an, hō.”

“ewndā laggō ka baggē mal laggō hot'an, bā.”

अन्ती रोपनस नन्ना उल्ला बोलवस गहि नामे चैनपुर ता अलबर्ट
कोलेज नू अरगत'आदस चिअदस। आ अलबर्ट कोलेज पतडा गहि
मझही नू रहचा। कोहाँ - कोहाँ मन मास ती निंद्का पतडा गहि
मझही नू अलबर्ट कोलेज एवंदा दव लग्गा लगिया। रितयान अड्डा
लग्गा लगिया। आ कोलेज नुम बोलवस अक्कु कालोस। अन्नुम आस
गहि नामे अरगाचका र'ई। पतडा गुस्तेक संख खाड़ एवंदा दव
ए-थर'आ लगिया। एन्ने दव अड्डन अम्बर दरा बोलवस गे बच'आ
तुक्को राँची नू। राँची नू गा कोहाँ - कोहाँ एडपद एकला।
परता टोड़ंग एन्दरद हूँ मला अवंगे बोलवस गे राँची नू बच'आ गे
मल तुकिया होत'अन। पहें बोलवस राँची काना ती मून्ध घोख'आ
पोल्लस होत'अन। का असन आस गे एकासे र'अना मनो। अरा
बोलवस गे राँची नू रितियन मल लगिया होत'अन, अवंगेम आस
एडपा किर्रियस केरस।

बोलवस गहि नामे गा चैनपुर ता कोलेज नू अरगिया केरा।
अरगाचका खो-खा उर्मी उल्ला बोलवस चैनपुर कोलेज काला
लगियस। एका उल्ला हूँ कोलेज काला गे नगा मल नना लगियस।
उर्मी उल्ला बेड़ा तिम काला लगियस। ओ-न्द बच्छर गूटी गा एका
उल्ला हूँ नगा मल नंज्जस। एडपा नू हूँ उर्मी उल्ला बच'आ
लगियस। कोलेज ती किरका खो-खा एडपा ता नलखन नना
लगियस। बग्गे बेड़ा खक्खरा होले टोंक्का तरा हूँ नलख नना गे
काला लगियस।

antī ropnas nannā ullā bolwas gahi nāmē cainpur tā albarṭ kolej nū argt'ādas ci'idas. ā albarṭ kolej patrā gahi majhhī nū rahcā. kohā-kohā mann mās tī nindkā patrā gahi majhhī nū albarṭ kolej ewndā daw laggā lagiyā. rityān addā laggā lagiyā. ā kolej num bolwas akkū kālos. annum ās gahi nāmē argāckā ra'ī. patrā gustek sañkh xāṛ ewndā daw ēthr'ā lagiyā. ennē daw aḍdan ambar darā bolwas ge bac'ā tukkō rācī nū. rācī nū ga kohā-kohā eṛpad eklā. partā ṭoṛaṅg endrad hū̄ malā awṅge bolwas ge rācī nū bac'ā ge mal tukkiyā hot'an. pahē bolwas rācī kānā tī mūndh ghokh'ā pollas hot'an. ka asan ās ge ekāse ra'nā manō. arā bolwas ge rācī nū rityān mal lagiyā hot'an, awṅgem ās eṛpā kirriyas keras.

bolwas gahi nāmē ga cainpur tā kolej nū argiyā kerā. argāckā xōxā urmī ullā bolwas cainpur kolej kālā lagiyas. ekā ullā hū̄ kolej kālā ge nagā mal nanā lagiyas. urmī ullā berā tim kālā lagiyas. ōnd bacchar gūtī ga ekā ullā hū̄ nagā mal nañjas. eṛpā nū hū̄ urmī ullā bac'ā lagiyas. kolej tī kirrkā xōxā eṛpā tā nalkhan nanā lagiyas. baggē berā xakkhrā holē ṭoṇkkā tarā hū̄ nalakh nanā ge kālā lagiyas.

२१ नन्ना बच्छर ती गा बोलवस लूरकुड़िया काला गे चाँडेम उरखा
काला लगियस। पहें बोलवस मून्ध ता बच्छर ता बेसे एडपा नू हूँ
मल बच'आ लगियस। एडपा ता नलखन हूँ अहरा ती मल नना
लगियस। उरमी बीरी आस एबसरका - एबसरका बेसे र'आ
लगियस। रोपनस इबड़न उरमिन ए-रा लगियस पहें आसिन एन्देरा
हूँ मल ब'आ लगियस। अकु अई. ए. जोकखा गहि बिडना अडसिया
केरा। पहें बोलवस गे अदि गहि हेतेड़दिम मल रहचा। बिडना हूँ
अडिसिया केरा बोलवस टूड़ियस हूँ। ए-ड चन्दो खो-खा बोलवस
गहि टूड़का गहि खंज्जपा उरखा। आद कोहाँ अतखा नू उरखा पहें
अन्न बोलवस गहि नामे मल रहचा।

'बोलवा निम्हय टूड़का बिडना गहि खंज्जपा उरखा ब'आ
लगनर।'

'हं'आँ बा पहें कट्टा पोलकन।'

'एकासे टूड़का रहचकय दरा।'

'कोडेम गा टूड़का रहचकन बा।'

'एकासे पोलकय कट्टागे अन्ती।'

'ए-न एकासे ब'ओन अन्ती।'

'अउर ने- ने- कट्टा गे पोल्लर हो।'

'ए-न अरा ओण्टा कुके। आद हूँ गा बचना नू तेजगर रहचा
बा।'

'अन्न हूँ आद एकासे पोल्ला अन्ती।'

'ए-न अदिन एकासे अख'ओन।'

'एका ओरती हो फुलोद गा मला।'

'ने- निंगन तिडिगयर बा।'

'ने- तेंगोर का, कच्छनखर'आ लगियर खने जुन मेंज्जका
रहचकन।'

'हं'आँ बा फुलोद दिम पोल्ला।'

21 nannā bacchar tī ga bolwas lūrkuriyā kālā ge cārem urkhā kālā lagiyas. pahē bolwas mūndh tā bacchar tā bese ərpā nū hū mal bac'ā lagiyas. ərpā tā nalkhan hū ahrā tī mal nanā lagiyas. urmī bīrī ās ebsrkā-ebsrkā bese ra'ā lagiyas. ropnas ibran urmin ērā lagiyas pahē āsin endrā hū mal ba'ā lagiyas.

akkū aī. ē. jokkhā gahi birnā ārsiyā kerā. pahē bolwas ge adi gahi heter dim mal rahcā. birnā hū arişyā kerā bolwas tūriyas hū. ẽr candō xōxā bolwas gahi tūrkā gahi xañjpā urkhā. ād kohā atxā nū urkhā pahē annū bolwas gahi nāmē mal rahcā.

“bolwā nimhay tūrkā birnā gahi xañjpā urkhā ba'ā lagnar.”

“hā'ā bā pahē kaṭṭā polkan.”

“ekāse tūrkā rahackay darā.”

“kořem ga tūrkā rahackan bā.”

“ekāse polkay kaṭṭāge antī.”

“ēn ekāse ba'on antī.”

“aur nē nē kaṭṭā ge pollar hō.”

“ēn arā oṇṭā kuke. ād hū ga bacnā nū tējgar rahcā bā.”

“annū hū ād ekāse pollā antī.”

“ēn adin ekāse ax'on.”

“ekā ortī hō phulod ga malā.”

“nē niinggañ tinggiyar bā.”

“nē teñggor kā, kacchnakhrā lagiyar khanē jun meñjkā rahackan.”

“hā'ā bā phulod dim pollā.”

बोलवस नन्ना बच्छर हूँ टूडियस पहें कट्टा पोल्लस। रोपनस गे होस्से हूँ मल बर'आ लगिया का बोलवस एन्दरा मंज्जस केरस। आस घोख'आ हूँ पोल्ला लगियस का एन्देरगे बिड़नन कट्टा पोल्ला लगदस। एन्देर ननोस अक्कु बोलवासिन। एकासे बचत'ओस आसिन। बोलवस अक्कु अई. ए. जोक्खन एं-ड बेर नू हूँ कट्टा पोल्लस। अरा आस गा खो-खा कोलेज तरा मल काला लगियस। पहें उर्मी उल्ला एडपा ती पईरी बीरी उरखा लगियस। आस ओण्टा कुके गने ख्खर'आ गे काला लगियस। अदि गहि नामे रहचा फुलो। आस उरमी उल्ला अदी संग्गेम चैनपुर कोलेज काला लगियस। कोलेज कालो बीरी एं-झो झन कुल्ला गा धर'आ लगियर पहें, ओण्टा कुल्ला नुम बच्छरते काला लगियर। कोलेज नू गा ओरमर आर गहि पत्त नुम कच्छनखर'आ लगियर। आर गहि पत्त नू गा एन्ने हूँ ब'आ लगियर का बचना र'ई होले बोलवस अरा फुलो बेसे कोलेज नू मला पहें पतड़ा महले संक्ख खाड़ गण्डडा नू बच'आ एवंदा दव लग्गी। रोपनस बल्ला लगियस का बोलवस पेल्लो बिद्विका र'अदस।

बिफाई गहि उल्ला रहचा रोपनस पे-ठ काला गे सपड़ारस अरा पे-ठ काला गे उरखस। आस उरमी उल्ला ता बेसे ए-कतेम काला लगियस। आस गहि मुन्धभारे जोक्क जोंख्खर काला लगियर। आर बल्ला लगियर का आर गहि खो-खा - खो-खा काला लगदस आस बोलवा तम्बस हिकदस। आर बोलवस गहि पत्त नुम कच्छनखरते काला लगियर। ब'आ लगियर बोलवस राँची नू बचचस मूज्जियस, चैनपुर नू हूँ बचचस मूज्जियस अक्कु आस दिल्ली नू बच'ओस। आस हूँ तान एकला मला पहें फुलोन हूँ हो'आ काला लगदस। आर असानुम बच'ओर। अबड़ा जोंख्खर गहि कथन मेनर दरा रोपनस पे-ठ हूँ मल कादस। अरा जोक्क गेच्छा तिम किरदस कादस। किरक्का खो-खा ए-रदस का बोलवस एडपा नुम र'अदस।

“अना हो बोलवा बच'आ मल तुक्की का।”

bolwas nannā bacchar hū tūriyas pahē katṭā pollas. ropnas ge hossē hū mal bar'ā lagiyā ka bolwas endrā mañjas keras. ās ghokh'ā hū pollā lagiyas ka enderge biñnan katṭā pollā lagdas. ender nanos akkū bolwasin. ekāse bact'os āsin. bolwas akkū aī. ē. jokkhan ēr bēr nū hū katṭā pollas. arā ās ga xōxā kolej tarā mal kālā lagiyas. pahē urmī ullā eṛpā tī pairī bīrī urkhā lagiyas. ās onṭā kuke gane xakhr'ā ge kālā lagiyas. adi gahi nāmē rahcā phulō. ās urmī ullā adi sañggem cainpur kolej kālā lagiyas. kolej kālō bīrī ērō jhan kullā ga dhar'ā lagiyar pahē, onṭā kullā num bacchartē kālā lagiyar. kolej nū ga ormar ār gahi patt num kacchnakhr'ā lagiyar. ār gahi patt nū ga ennē hū ba'ā lagiyar ka bacnā raī holē bolwas arā phulō bese kolej nū malā pahē patrā mahlē sañkkh xār gaṇḍdā nū bac'ā ewndā daw laggī. ropnas ballā lagiyas ka bolwas pellō biddikā ra'das.

biphāī gahi ullā rahcā ropnas pēth kālā ge saprāras arā pēth kālā ge urkhas. ās urmī ullā tā bese ēktem kālā lagiyas. ās gahi mundhbhārē jokk jōxar kālā lagiyar. ār ballā lagiyar ka ār gahi xōxā-xōxā kālā lagdas ās bolwā tambas hikdas. ār bolwas gahi patt num kacchnakhrtē kālā lagiyar. ba'ā lagiyar bolwas rācī nū bac'cas muñjiyas, cainpur nū hū bac'cas muñjiyas akkū ās dillī nū bac'os. ās hū tān eklā malā pahē phulon hū ho'ā kālā lagdas. ār asanum bac'or. abṛā jōxar gahi katthan menar darā ropnas pēth hū mal kādas. arā jokk gecchā tim kirrdas kādas. kirrkā xōxā ērdas ka bolwas eṛpā num ra'das.

“anā hō bolwā bac'ā mal tukkī kā.”

“ने- बाचा, बच’आ मल तुककी!”
“एन्देरगे मल बचदय अन्ती।”
“एकासे बच’आगे आनदय का बा।”
“अवंदा बचदय अन्नु हूँ एकासे बिड़नन कट्टागे पोलदय
अन्ती।”
“ए-न एकासे अख’ओन अन्ती।”
“पेल्लो हूँ बिद्का र’अदय किका।”
“एसतेक - एसतेक निमागे कत्था मिन्दिर’ई दरा।”
“एन्देरगे होन्ने केबर’आ लगदय बोलवा तम्बायो।”
“नीनिम निङ्गदासिन होन्ने सिखाब’अदी।
“ए-न एन्दरन सिखाबाचकन दरा।”
“होले ए-न सिखाबाचकन।”
“चुपे र’आ बोलवा तम्बायो। बच’ओस जुन।”
“होन्ने ब’अदी अवंगेम गा हुदा बच’आ लगदस, निङ्गदस।”
“केबर’ओय होले बच’ओस का।”
“मल ईरदी का एंगा लग्गी बोलवस बिगड़ार’आ काला
लगदस।”

“nē bācā, bac'ā mal tukkī!”
“enderge mal bacday antī.”
“ekāse bac'āge ānday ka bā.”
“awndā bacday annū hū ekāse bīrnan kaṭṭāge polday antī.”
“ēn ekāse ax'on antī.”
“pellō hū biddkā ra'day kikā!”
“estek-estek nimāge katthā mindr'ī darā.”
“enderge honnē kebr'ā lagday bolwā tambāyō.”
“nīnim niṅdasin honnē sikhāba'dī.
“ēn endran sikhābāckan darā.”
“holē ēn sikhābāckan.”
“cupē ra'ā bolwā tambāyō. bac'os jun.”
“honnē ba'dī awṅgem ga hudā bac'ā lagdas, niṅdas.”
“kebr'oy holē bac'os kā.”
“mal īrdī ka eingga laggī bolwas bigrār'ā kālā lagdas.”

२२ तडिगयो तम्बा गरही अरबा नखरनन ए-रर दरा बोलवस
असतेक बोंगदस कादस। अरा आस फुलो संगे खँखर'आ गे
कादस। चन्दो गहि बिल्ली नू आर ए-डो झन खँखरनर। चन्दो
बिल्ली नू एन्ने लगा लगिया का गोट्टा मन मास आरिन ए-रा -
ए-रा लजर'आ लगी। चन्दोद गा एन्ने लगा लगिया का आरिन ए-रा -
ए-रा खँन्नन हूँ मल मिटक'आ लगी। जोरजोरो बीनकोन गा अम्बा
आना एन्ने लगा लगी आरिन ए-रर दरा मेरखा मईयाँ बोंगोर
नखर'आ लगी। एन्ने दव बेडा नू बुसऊ मईयाँ उकियर दरा
कच्छनखर'आ लगियर।

'अखँदय बोलवा नम्हय पत्त नू एम्हय एङ्पा तर अक्खर
केरर।'

'एम्बस हूँ गा अन्नेम बेसे कच्छनखर'आ लगियस।'

'आस हूँ अक्खस केरस होत'अन।'

'एंगा हूँ अन्नेम लगा लगी फुलो।'

'होले एकासे ननोत अन्ती बोलवा।'

'एकासे ननोय एस'आनुम बोंगोत कालोत।'

'नमागे ने- र'आगे अड्डा चिओ फुलो।'

'एङ्पाती उरखका खो-खा अड्डा खँक्खर'ओ दिम।'

'होन्ने ब'अदय होले गुचा जुन अन्ती। पहें ढिबा।'

'ढिबा गे एन्देरगे झकदी, एंगहय हेव्वे र'ई जुन।'

'होले ने-ला एका बीरी उरखोत।'

'खे-र चीखो बिज्जो आ बीरिम। ने- हूँ मल चो-चका र'ओर
आ बीरिम होले ने- हूँ बल्लोर। ओ-न्द जो-डा किचरी धरके। ए-न हूँ
धर'ओन।'

22 taṅgiyō tambā garhī arbā nakharnan ērar darā bolwas astek boṅgas kādas. arā ās phulō saṅggē xakhr'ā ge kādas. candō gahi billī nū ār ēṛō jhan xakhrnar. candō billī nū ennē laggā lagiyā ka goṭṭā mann mās ārin ērā-ērā laj'rā lagī. candod ga ennē laggā lagiyā ka ārin ērā-ērā xannan hū mal miṭk'ā lagī. jorjorō bīnkon ga ambā ānā ennē laggā lagī ārin ērar darā merxā maẏyā boṅgor nakhr'ā lagī. ennē daw beṛā nū bus'ū maẏyā ukkiyar darā kacchnakhr'ā lagiyar.

“axday bolwā namhay patt nū emhay eṛpā tar akkhar kerar.”

“embas hū ga annem bese kacchnakhr'ā lagiyas.”

“ās hū akkhas keras hot'an.”

“eṅgā hū annem laggā lagī phulō.”

“holē ekāse nanot antī bolwā.”

“ekāse nanoy es'anum boṅgot kālot.”

“namāge nē ra'äge adḍā ci'ō phulō.”

“eṛpātī urkhkā xōxā adḍā xakkhr'ō dim.”

“honnē ba'day holē gucā jun antī. pahē ḥhibā.”

“ḥhibā ge enderge jhakdī, eṅghay heddē raī jun.”

“holē nēlā ekā bīrī urkhōt.”

“xer cīxō bijjō ā bīrim. nē hū mal cōckā ra'or ā bīrim holē nē hū ballor. ḫond jōṛā kicrī dharkē. ēn hū dhar'on.”

अन्तीले आ माखा ए-झो झन तंग'आ - तंग'आ एङ्गपा किर्नर।
बोलवस हूँ एङ्गपा किरर दरा मण्डी तंग'आतिम खोलदस ओन्दस।
माखा बीरी गा आस गे खंन्दर'आ हूँ मल तुककी पहें एन्देर ननोस
जबरई खन्नन मिंखदस। खे-र चींखना ती मुन्ध किचरी - डोङ्डोन
सरिय'आदस, अरा एकासे खे-रद चींखी बोलवस एङ्गपा ती उरखदस
कादस। अजगो फुलोद हूँ खे-र चींखका खो-खा उरखी काली। एंझो
झन ओन गुसन खखरनर अरा डिजल गडी नू अरगर दरा राँची
अन्तिले राँची ती गोजोर गडी नू दिल्ली चईल कानर।

पइरी बीरी बोलवा तम्बा - तड्डिगयो गर ए-रनर दरा घोखनर
का ईकिय'अम केरस होत'अन। पहें नाख पंचे उल्ला गूटी मल
किरदस खने आर बेद्दनर खो-जनर, आर गे खबर खखर'ई का
फुलोद हूँ अउलम एङ्गपा ती उरखकी र'ई। फुलो गरही एङ्गपा तर गे
हूँ पता मल रहचा का फुलोद हूँ इकया केरा होत'अन। एंझो एङ्गपा
तर आरिन बेद्दनर पहें आर गहि पतम मल लग्गी। गोट्टा तरा कत्था
बींझरा केरा का बोलवस फुलोन बोङ्गताचस दरा होच्चस केरस।
पहें आर एसन केरर ने-का गे हूँ पता मल रहचा। बोलवस गहि
संगियर कच्छनखर'आ लगियर खने गा रोपनस मेंज्जका रहचस का
बोलवस दिल्ली कालोस अदिन। पहें मानिम दिल्ली कालोस एन्ने मल
घोखचका रहचस।

antile ā māxā ũrō jhan tañgg'ā-tañgg'ā erpā kirrnar. bolwas hū erpā kirrar darā mañdī tañgg'atim xoldas ondas. māxā bīrī ga ās ge xandr'ā hū mal tukkī pahē ender nanos jabrai xannan miñkhdas. xēr cīxnā tī mundh kicrī-đodđon sariy'ādas, arā ekāse xērad cīxī bolwas erpā tī urkhdas kādas. ajgō phulod hū xēr cīxkā xōxā urkhī kālī. ũrō jhan òn gusan xakhrnar arā dijal gařī nū argar darā rācī antile rācī tī gojor gařī nū dillī cail kānar.

pairī bīrī bolwā tambā-tañgiyō gar ērnar darā ghokhnar ka ikiya'am keras hot'an. pahē nāx pañcē ullā gūtī mal kirrdas khanē ār beddnar xōjnar, ār ge khabar xakhrī ka phulod hū aulam erpā tī urkhkī raī. phulō garhī erpā tar ge hū patā mal rahcā ka phulod hū ikyā kerā hot'an. ũrō erpā tar ārin beddnar pahē ār gahi patam mal laggī. gottā tarā katthā bīrrā kerā ka bolwas phulon boñgtācas darā hoccas keras. pahē ār esan kerar nēkā ge hū patā mal rahcā. bolwas gahi sañggiyar kacchnakhr'ā lagiyar khanē ga ropnas meñkā rahcas ka bolwas dillī kālos adin. pahē mānim dillī kālos ennē mal ghokhckā rahcas.

२३ एं-ड चन्दो खो-खा ओण्टा अतखा रोपनस गहि नामे ती बर'ई,
आद दिल्ली ती बरचकी रहचा।

"अकुनुम अड्डोन ओन्दरा लगदय, बोलवा तम्बायो बीड़िद हूँ
अरगी पुता होत'अन।"

"एन्देर ननोय अन्ती अड्डोद मेना हूँ मल मिनी खने।"

"इदा ने-खय अतखा बरचकी र'ई।"

"ने-खय हिके दरा।"

"बच'आ गे अखना होले मल बच'ओन पहें का, ओन्दा नीनिम
ए-रा।"

"रहबेल तनिक अड्डोन खुट'आ चि'ई तेकेल।"

"एंगा गा लग्गी बोलवस गहि हिके किका।"

"ढिबा कोनो तइय्यस का"

"अतखा भितरे गा एन्दरद हूँ मल्ला किका।"

"एखोन चि'ई तो।"

"इदा ईद गा मलदव अतखा लगा लगी बोलवा तड़िगयो।"

"एन्दरा टूङ्का र'ई दरा, होन्ने ब'आ लगदय?"

"नम्हय बोलवस मलिकस।"

"आस गा अउलम एङ्गा ती उरखस।"

"हं'आँ, पहें आस फुलो संगे दिल्ली केरका रहचस अरा आस
दिल्ली नू नोकसान मंज्जस केरस।"

अन्ती ए-रा तो रोपनस बोलवस गहि अतखन बच'चस दरा
असानुम खंडिका मन्न गहि डाँडा बेसे खत्तरस केरस। इजगो बोलवा
तड़िगयोद हूँ रोपनासिन खेवचर दरा चींखा हेल्लरा।

आ अतखा नू टूङ्का रहचाः-

23 ڦِر candō xōxā oɳṭā atxā ropnas gahi nāmē tī bar'ī, ād dillī tī barckī rahcā.

“akkunum aڏdon ondrā lagday, bolwā tambāyō bīrīd hū argī puttā ho'an.”

“ender nanoy antī aڏdod menā hū mal minī khanē.”

“idā nēkhay atxā barckī ra'ī.”

“nēkhay hike darā.”

“bac'ā ge axnā holē mal bac'on pahē kā, ondā nīnim ērā.”

“rahbel tanik aڏdon khuṭ'ā ci'ī tekel.”

“eŋgā ga laggī bolwas gahi hike kikā.”

“dhibā kōnō taiyyas kā.”

“atxā bhitrē ga endrad hū mallā kikā.”

“ekhon ci'ī tō.”

“idā īd ga maldaw atxā laggā lagī bolwā taṇgiyō.”

“endrā tūrkā ra'ī darā, honnē ba'ā lagday?”

“namhay bolwas malikas.”

“ās ga aulam erpā tī urkhas.”

“hā'ā, pahē ās phulō saŋgē dillī kerkā rahcas arā ās dillī nū noksān mañijjas keras.”

antī ērā tō ropnas bolwas gahi atxan bac'cas darā asanum khanḍikā mann gahi ḍāṛā bese khattras keras. ijgō bolwā tangiyod hū ropnasin xēwcar darā cīxā hellrā.

ā atxā nū tūrkā rahcā—

दुलारौ बबा,
एंगहय मौज्जरा ।

ए-न अक्कुन कोडे र'अदन, धरमेस ती निमागे बिनती नन्दन
का निमन दव ती ए-रदस - खो-जदस नेक'अन ।

क्षमा ननके ए-न निंगदासिन दिल्ली ओन्दरा बरचका
रहचकन । ए-न मल घोखचका रहचकन का बोलवस निमन का
एंगन अम्बोस दरा चाईल कालोस । बोलवस गे एन्देर दुक्खे रहचा
अदिन हूँ घोख'आ पोलकन । एन्देर दुक्खे रहचा अदिन हूँ मल
तिंगियस । ए-न एकासे किर्णन एंगहय देह हूँ ए-ख र'ई । निम्हय
मझाही एंगागे अड्डा र'ई होले एंगन मे-खके मला होले गा
एन्दरा ब'ओन । इसन दिल्ली नू हूँ ने- हर हूँ संगे मल चि'आ
लगनर । एकासे ननोन एसन कालोन, कीड़ अम्म ओनका हूँ मल
लग्गी । निंगदासिन एडपा हो'आ गे हूँ एंगहय हेदे ढिबा मल रहचा,
का निंगदस गहि मुहिन ए-रा ओंगगोर । ने- हूँ इसन सहाड़ा मल
चि'इनर । अन्ने बोरा नू सज'अर दरा आसिन ओन गुसन थेथर
गहि झूँड़द रहचा असानुकुम नुड़कन दरा पुतबीरी एका बीरी
ने- हूँ मल ए-रा लगियर आ बीरी उईका र'अदन, मना उँगी
एडपा काला ओंगगोन होले ओण्ट'आकेम खोचोल नन हो'ओते
कालोन ।

ए-न ई अतख्न एंगहय खंज्जलखो ती टूऱा लगदन, इदिन
सियाही अमके बुझुर'आ ।

निंगदा महले ।
फुलो ।

dulārō babā,
eñg'hay moñjrā.

ēn akkun korē ra'dan, dharmes tī nimāge bintī nandan ka
nimān daw tī ērdas-xōjdas nek'an.

kṣamā nankē ēn niñg dasin dillī ondrā barckā rahackan.
ēn mal ghokh hackā rahackan ka bolwas nimān ka eñggan
ambos darā cāil kālos. bolwas ge ender dukkhē rahcā adin
hūñ ghokh'ā polkan. ender dukkhe rahcā adin hūñ mal
tiñggiyas. ēn ekāse kirron eñg'hay dēh hūñ ēx rañī. nimhay
majhhī eñggāge addā rañī holē eñggan mēxkē malā holē ga
endrā ba'on. isan dillī nū hūñ nē har hūñ sañggē mal ci'ā lagnar.
ekāse nanon esan kālon, kīrā amm onkā hūñ mal laggī.
niñg dasin erpā ho'ā ge hūñ eñg'hay heddeñ ñhibā mal rahcā, ka
niñg das gahi muhin ērā oñggor. nē hūñ isan sahārā mal ci'nar.
annem bōrā nū saj'ar darā āsin òn gusan thetar gahi jhūñrad
rahcā asanukum nuñdkan darā putbīrī ekā bīrī nē hūñ mal ērā
lagiyar ā bīrī uikā ra'dan, manā uñggī erpā kālā oñggon holē
oñt'ākem xocol nan ho'tē kālon.

ēn ī atxan eñg'hay xañjalxō tī tūrā lagdan, idin siyāhī
amkē bujhr'ā.

niñgdā mahlē

phulō.

आ अतखा खें-सो सियाही ती टूङ्का रहचा। अउला ती रोपनस
मण्डी अमखिन अम्बियस चिच्चस। इत्तरा बोलवस गहि खळ्ली
अयड्ग तान - तान कच्छनखर'आ का बडबडर'आ लगिया। गोट्टा
पद्धा नू बोलवस गहि मुंजुरना गहि कत्था अर्रा लग्गना बेसे सलगारा
केरा। एन्ने लग्गा लगिया का गोट्टा पद्धा उल्ला - उल्लम ख़न्दरा
केरा। अउला ने-खय गुया हूँ चिच्च मल ओद्दरा। ओरमर गहि ख़न्न
ती ख़ंजलखो चुरखा लगिया ब'आ पोलदन का एंवदा उल्ला गूटी ई
ख़ंजलखो चुरखते र'ओ।

ā atxā x̄esō siyāhī tī tūrkā rahcā. aulā tī ropnas maṇḍī amxin ambiyas ciccas. ittrā bolwas gahi xallī ayaṅg tān-tān kacchnakhr'ā ka barbarr'ā lagiyā. goṭṭā paddā nū bolwas gahi muñjurnā gahi katthā arrā laggnā bese salgārā kerā. ennē laggā lagiyā ka goṭṭā paddā ullā-ullam xandrā kerā. aulā nēkhay guyā hū cicc mal oddrā. ormar gahi xann tī xañjalxō curxā lagiyā ba'ā poldan ka ewndā ullā gūtī ī xañjalxō curxtē ra'ō.

जीवन परिचय

बबलु तिर्की

31 अक्टूबर 1980 — 01 अगस्त 2015

पिता - श्री ललित तिर्की, ग्राम+पोस्ट - बेन्दोरा, वैनपुर, गुमला

प्राथमिक शिक्षा - राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बेन्दोरा

मध्य विद्यालय - संत पॉल मध्य विद्यालय, टोंगो

मैट्रिक - 1997 ई० संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय, गुमला

इंटर - 1999 ई० संत जेवियर महाविद्यालय, राँची

स्नातक - 2002 ई० संत जेवियर महाविद्यालयका, राँची

स्नातकोत्तर- 2005 ई० जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (कुडुख)

बी०एड० - जे०जे० कॉलेज झुमरीतिलैया, विनोबाबावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

टेट - 2013 ई० झारखण्ड अधिविध परिषद्, राँची

नेट - दिसम्बर 2004 ई०

Ph.D. (in progress) कुड़ख एवं मालतो का तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अध्ययन

Life Membership Dravidian Linguistic Association of India

Profession –

Lecturer in Kurux, Doranda College, Ranchi

Publication –

Malto Basic Words and Sentences in Comparison with Kurux, in *Research on Minority Languages of South and South-East Asia*, Tokyo, 2006.

Transcribed and Glossed Recordings of Sawriya Pahariya Malto. in *Research on Minority Languages of South and South-East Asia 2*, Tokyo, 2007.

Paper presented –

Comparative study of Kurux-Malto Lexicon. Dravidian Linguistic Association, Annual Meeting, Central Institute of Indian Languages, Mysore. 17 to 19 June, 2010.

Workshop –

1. Regional Content Development Workshop for LIC-India, 2003.
2. Terminology Planning in Kurux, Central Institute of Indian Languages, Mysore & Jharkhand Tribal Welfare Research Institute, Ranchi. 9 to 18 December, 2005.
3. Linguistics, Central Institute of Indian Languages, Mysore, 21 May to 30 June, 2007.
4. Kurux Language Workshop, Hakuoh University, Japan, 13 to 26 September, 2009, Department of Linguistics, The University of Tokyo, 13 to 26 February, 2011.

Participated –

1. Preparatory Summer School for New Linguistic Survey of India, Central Institute of Indian Languages, Mysore, 21 May to 30 June, 2007.
2. International Conference of Kurux Language, Literature & Culture, Kurux Literary Society of India, 15 to 16 December, 2012.
3. झारखण्ड की ऐतिहासिक धरोहर एवं कला-परम्परा, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, राज्य संग्रहालय, राँची। १६ दिसम्बर २०१३.
4. Influence of the Dravidian Groups on Oraon (Kurux), Tribal and Regional Languages Department, Ranchi University & Central Institute of Classical Tamil, MHRD, Government of India. 23 to 25 Feb, 2013.